



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-31052025-263489

CG-DL-W-31052025-263489

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 31—जून 6, 2025 (ज्येष्ठ 10, 1947)

No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31—JUNE 6, 2025 (JYAISTHA 10, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार
के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

[त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस)]

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के
नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/526—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध
में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5)
के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो
गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2724495	U65992AP2021PTC119534	समृद्धि चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
2	AB2760789	U85110AP2021PTC119485	मेडक्रेस्ट काकीनाडा डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2901008	U70200AP2024OPC115995	एनजीएच वेल्थ एडवाइजरी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2922957	U74120AP2015PTC097566	एल्कोव बिजनेस एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2935956	U28112AP2013PTC087355	सर्वा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2968741	U17120AP2014PTC094909	दीपक नेक्सजेन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
7	AB3026643	U46696AP2013PTC121862	आंध्र पेपर प्राइवेट लिमिटेड
8	AB3057932	U01122AP1997PLC026468	ओम पृथ्वी ग्रीन रिच लिमिटेड
9	AB3089876	U74999AP2016PTC104457	रोबोटेक इंडिया एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3110076	U62091AP2023PTC111999	एशियन इन्फो टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/527—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2892111	U50403AS2010PTC010104	घोष ब्रदर्स ऑटोराइडर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3063954	U74899AS1994PTC018227	एक्रो ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3080835	U45203AS1964SGC001222	असम गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	AB3097459	U68200AS2023PTC025530	फ्यूजननेक्स कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/528—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2798993	U74999BR2018PTC037646	फ्लेशकार्ड ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

2	AB2862445	U85320BR2018PTC038367	इन्नसीना सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2871180	U15134BR2021OPC055691	लान ऑर्गेनिक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2954793	U52609BR2022PTC058071	सिम्बेल्स एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2991987	U65990BR2021PLN051990	प्रत्यक्ष निधि लिमिटेड
6	AB3041857	U74999BR2017PTC035546	क्यूकक्स एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
7	AB3118450	U80301BR2021PTC050362	अपना स्टडी एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
8	AB3121016	U51909BR2021PTC054564	स्प्लेंगो ईकॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/529—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2720532	U47110CH2023PTC045169	अंशिवा सुपरमार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2993442	U27230CH1998PTC021338	आईबीके परम मेटल टेक प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/530—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2902193	U58200CT2024PTC016184	जावांस टेक प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3071356	U74994CT2020PTC010914	बुद्धप्रिय फूड्स एंड एग्रो प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/531—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2709724	U29191DL1993PTC052908	विशाल कूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2747452	U51909DL2010PTC204469	ऑनलाइन फैशन मोनार्क प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2761081	U27109DL2002PTC115584	सनमती स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2768142	U72900DL2008PTC182792	सीएफ सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2813746	U82990DL2023PTC419861	वेंचुरेक्स प्रोक्वोरमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2817289	U24299DL2022PTC402745	प्लश ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2817623	U70200DL2023OPC418511	जीविजन लैब्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2819892	U78100DL2023PTC412822	म्युन्नति एआई टैलेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2822925	U25209DL2022PTC396106	सुपरटेक फॉर्च्यून प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2851948	U70100DL2011PTC212453	सिटिटेक डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2853811	U70109DL2015PTC278312	पीएनजीपी लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2868364	U15133DL2021PTC377137	ओल्डटाउन कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2874170	U28299DL2023PTC418212	पीपी एंड्रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2875878	U63090DL2022PTC401810	एयरवर्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2876898	U72900DL2021PTC378907	कामाक वॉयस टेक प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2883764	U74996DL2006PTC149621	रूफ टॉप गैलेरी प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2884352	U51505DL2020PTC368688	वेबसेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2885849	U22122DL2003PTC118757	न्यू इंक पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2886407	U74999DL2019PTC357558	एबीयस इवेंट्स एंड एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2898559	U74899DL1993PTC052185	हरी बोल चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2902666	U52100DL2015PTC275801	ग्रेफिटी नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2910407	U92490DL2022PTC401021	टेक्निस्क्वैश एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2915234	U70109DL2013PTC254767	बेस्टनेस्ट रियल एस्टेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2917056	U85100DL2014PTC267600	स्वीट एंजल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
25	AB2917260	U80301DL2005PTC141258	शिवशक्ति एजुकेशन इंस्टिट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2918854	U72300DL2008PTC175306	निमंत्र वेबटेक प्राइवेट लिमिटेड
27	AB2919503	U51909DL1992PTC050840	मेपल वायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
28	AB2919563	U24297DL2013PTC249544	ग्लेज़र फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
29	AB2930062	U55204DL2020PTC368271	ब्लेंडिंग स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2932482	U74999DL2016PTC305457	डिजिटल्स इंडिया मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
31	AB2932555	U74999DL2016PTC303999	क्रिकेट टॉकीज प्राइवेट लिमिटेड
32	AB2932853	U45200DL2013PTC255947	रिची-रिच कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
33	AB2935947	U74999DL2017PTC311084	ईबिल डेटा प्राइवेट लिमिटेड
34	AB2944301	U72900DL2010PTC210855	सान सॉफ्टवेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
35	AB2951841	U93090DL2019PTC355362	बाउंसिंग हेड प्राइवेट लिमिटेड
36	AB2958066	U93000DL2015PTC285701	तोरण कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
37	AB2958438	U18109DL1989PTC037565	फैशन इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
38	AB2961326	U28180DL2024PLC431979	वीएसएम मैट्रिक्स टूलटेक लिमिटेड
39	AB2962881	U60231DL2016PTC304267	मिडवे शिपिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
40	AB2967073	U47722DL2024PTC431103	वर्सेटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
41	AB2974104	U70109DL2006PTC150964	ब्लूवाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
42	AB2977035	U80900DL2019FTC350457	इंडोसिंग एजुकेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
43	AB2978479	U65993DL1996PTC082912	अपूर्व आईटी डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
44	AB2981312	U74210DL2007PTC159829	ब्लूवाटर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
45	AB2982468	U52200DL2022PTC398634	वेनेटिकी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
46	AB2987761	U65923DL2007PTC166608	सु-प्लस फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
47	AB2992063	U72200DL2006PTC156383	अराइव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
48	AB2992656	U22300DL2017PTC323861	टिनीपिक्सी प्राइवेट लिमिटेड
49	AB2995496	U70200DL2011PTC224044	आनंदलोक रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
50	AB2996840	U72900DL2019PTC352565	एक्सजेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
51	AB2997663	U74999DL2018PTC331521	ओल्ड फैशनड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
52	AB2998399	U45201DL2005PTC134446	अपकंट्री लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
53	AB3010128	U72900DL2021PTC388562	ए.वाई.एस. क्रिप्टो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
54	AB3010491	U55101DL2007PTC164847	एएमबी मोटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
55	AB3011843	U55101DL1984PLC018327	सिटी होटल्स लिमिटेड
56	AB3015840	U74999DL2017PTC316848	संडडाउनर ट्रेवेलट्रेल्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
57	AB3016134	U60231DL2019PTC352609	आर.एस. अजीत लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
58	AB3019707	U74140DL2005PTC136906	इफैक्टर इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
59	AB3019781	U45200DL2013PTC256596	मगध मेगा लेदर पार्क प्राइवेट लिमिटेड
60	AB3021206	U93000DL2009PTC196228	डी आईटी सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
61	AB3022979	U46209DL2023OPC419494	ग्लोबोविक एक्सपोर्ट्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
62	AB3026512	U62099DL2024PTC427373	बोहो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
63	AB3030458	U31906DL2008PTC185644	एटलस इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
64	AB3030486	U55101DL2021PTC391125	हार्टी एंड हार्डी प्राइवेट लिमिटेड
65	AB3031134	U20119DL2024PTC428707	अर्मीका पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
66	AB3034548	U31900DL2009PTC195184	वेस्टा अप्लायंसेज प्राइवेट लिमिटेड
67	AB3034819	U82990DL2023PTC413252	ग्रीनरॉक रिसायकलर्स प्राइवेट लिमिटेड
68	AB3035225	U18109DL2021PTC383717	वीपीपीबी प्राइवेट लिमिटेड
69	AB3039423	U74899DL1986PTC023271	कैप्रिकॉर्न अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड
70	AB3039711	U51909DL2018PTC336485	नास्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
71	AB3042400	U80903DL2002PTC115440	एकेजी इंस्टीट्यूशनल रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड
72	AB3045037	U50400DL2021PTC378898	व्हील्स फॉर यू प्राइवेट लिमिटेड
73	AB3046040	U56101DL2024PTC428904	हॉग हेवन ऑफ गॉरमेट प्राइवेट लिमिटेड
74	AB3046218	U15400DL2013PTC250264	प्रकाश सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
75	AB3046225	U15122DL2013PTC251042	प्रकाश सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
76	AB3050169	U17100DL2019PTC348492	बीटीएस फैशन पॉइंट प्राइवेट लिमिटेड
77	AB3052549	U65990DL2023PTC410281	स्कायन फाइनेंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
78	AB3052750	U24110DL2022PTC403760	वंडरवेदा प्राइवेट लिमिटेड
79	AB3055044	U63030DL2019OPC350224	गुरदेव हॉलीडेज़ (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
80	AB3061771	U74140DL2011PTC213472	एसएनएस एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
81	AB3063277	U92490DL2021PTC378895	आरकेएस फिल्मस प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
82	AB3073118	U92120DL2008PTC182520	एम. वी. कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
83	AB3074881	U74999DL2020PTC373152	श्री गंगा जमुना ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
84	AB3075666	U24239DL2020PTC374546	किशोना फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
85	AB3076318	U72300DL2022PTC407445	ओम्नीलर्ट लॉन्चपैड वेब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
86	AB3081421	U85499DL2007PTC171517	लीन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
87	AB3081522	U70101DL2003PTC118375	आरएमएच कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
88	AB3081529	U01400DL2020PTC374784	एग्रीवर्क्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
89	AB3081570	U74899DL1995PTC071019	निप्पॉन गैस एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
90	AB3081865	U74101DL2024PTC429139	नचिकेता मलिक प्राइवेट लिमिटेड
91	AB3086256	U72200DL2015PTC285198	कैफीन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
92	AB3088532	U92413DL2015PTC286213	कॉन्टेंट क्रिएशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
93	AB3091213	U74120DL2008PTC174589	इन्द्रासिल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
94	AB3092650	U18101DL2005PTC139874	मेघा सेलेक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
95	AB3095080	U72100DL2021OPC384463	वीफ्लीट सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
96	AB3095251	U74999DL2022PTC394986	इंस्टिट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट रिसर्च एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
97	AB3096000	U74899DL1993PTC051924	ए के शिपवे सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
98	AB3097412	U74999DL2013PTC254082	हेल्थजेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
99	AB3100627	U85195DL1998PLC095877	पाइनवुड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड
100	AB3101110	U30204DL2024PTC433790	सोटेक टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
101	AB3102094	U74899DL1993PTC054731	नेटवर्क एयर प्राइवेट लिमिटेड
102	AB3102294	U74999DL2018PTC334728	जॉयकार्प ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
103	AB3104775	U63030DL2017PTC326833	एमकेओवी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
104	AB3105553	U74999DL2016PTC308908	स्टेलरजीन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
105	AB3106292	U67190DL2016PLC289268	मंत्रह फिनसर्व लिमिटेड
106	AB3111580	U45400DL2006PTC152337	गोल्डनएज प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड
107	AB3111598	U72900DL2013PTC256253	इंटरनेशनल बिजनेस नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
108	AB3112770	U74900DL2015PTC286649	नित्य वेकेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
109	AB3113370	U26100DL2011PTC225116	डैफोडिल ग्लास प्राइवेट लिमिटेड
110	AB3113383	U72900DL2021PTC388828	डोर ऑफ वेब प्राइवेट लिमिटेड
111	AB3116532	U74999DL2020PTC368311	टी-व्यू सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
112	AB3120185	U93030DL2010PTC201277	एनविसेज मार्केटिंग एंड एचआर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
113	AB3120904	U72200DL2001PTC111504	वन ई इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
114	AB3121249	U72300DL2008PTC172928	प्रेमसेल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
115	AB3121495	U72200DL2012PTC242465	कीमाइल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
116	AB3122033	U74999DL2018PTC330536	आईटी मैक्स प्राइवेट लिमिटेड
117	AB3122440	U45402DL2000PTC106651	एफ एंड एफ इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/532—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2816240	U55204GA2017PTC013389	लूसी वाल्टा हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2914835	U70109GA2020PTC014229	ईकोब्लू वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3108087	U74999GA2018PTC013664	आइवी एंड के डिज़ाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/533—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2796077	U66120GJ2023PTC147050	आरसीजी एसोसिएट्स (आईएफएससी) प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2835613	U25200GJ2020PTC115724	श्रीअरहम हार्ड-टेक पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2838847	U29253GJ2011PTC063995	मैक पंप्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2851459	U36911GJ2013PTC075981	पेनर ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2875649	U74999GJ2020PTC118991	एसवाईएम हार्डवेयर मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2888237	U80302GJ2000PTC037873	शार्प-पीसीजी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2890337	U72900GJ2022PTC137793	सिल्वरकॉर्प इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2894441	U52599GJ2006PTC049179	सत्ताधार मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2905584	U72900GJ2021PTC120450	लॉजिकेन स्ट्रैटेजीज प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2926555	U22100GJ2009PTC057862	ईकोटेक्स मोज़ेक प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
11	AB2929539	U74140GJ2005PTC045721	जेएलएन कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2940041	U24246GJ2021PTC119729	गुरुलक्ष्मी अगरबत्ती एंड धूप प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2946992	U74140GJ2015PTC085214	आरपीवी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2948484	U85491GJ2021PTC121093	मुदुरु प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2961099	U45209GJ2019PTC107876	आरएसएल इंफ्राबिल्ट प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2961492	U17291GJ2009PTC058548	ओम ट्रेड्ज प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2970324	U72900GJ2021PTC122803	बिग एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2970949	U74300GJ2019PTC111542	कॉग्निटो सस्टेनेबिलिटी एंड कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2975783	U51109GJ2015PTC084606	डीसेंट इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3003569	U36999GJ2020PTC112288	एन.वी. ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3011813	U29309GJ2018PTC103208	जाइको कनवर्टिंग मशीन प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3018323	U23209GJ1999PTC036959	आनंद फ्यूल प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3018374	U73100GJ2022PTC132255	केस्कायर मेड टेक प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3042405	U72900GJ2017PTC098198	कॉम्पुब्रेन इंटरनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3043681	U67120GJ2011PTC066693	श्वोरमॉन्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3049567	U01200GJ2016PTC085923	मनतुंगा स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3049886	U74999GJ2020PTC119115	दिव्य चिराग मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3056406	U62013GJ2024OPC152632	मानिद्धि ऑटोमेशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3065354	U18209GJ2019PTC107418	टीसेयस क्लोदिंग प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3071869	U18202GJ2022PTC137241	लिमडी फैशंस प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3082817	U62099GJ2023PTC144975	सिग्रेचरगेम्ज प्राइवेट लिमिटेड
32	AB3084693	U20123GJ2023PTC142332	एशिया डॉन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
33	AB3084716	U85500GJ2016PTC085718	फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन एलुमनी प्राइवेट लिमिटेड
34	AB3089798	U46692GJ2023PTC145484	ईकोरॉ डिलाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
35	AB3096666	U66190GJ2023PTC139384	इक्वलपे डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3098726	U45201GJ1998PTC034347	सौचित बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
37	AB3099827	U45309GJ2020PTC112415	एसएचके स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
38	AB3101159	U17119GJ1987PTC009479	अनंत पॉलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3106553	U17299GJ2021PTC121803	केएडी नॉनवोवेन प्राइवेट लिमिटेड
40	AB3106783	U74140GJ2014OPC080706	एरिओक कंसल्टेंसी एंड ट्रेनिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
41	AB3106964	U74900GJ2007PTC051635	जे.डी.एम. एंजेंसिज़ प्राइवेट लिमिटेड
42	AB3107549	U74999GJ2020PTC116406	बाथवॉर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
43	AB3108938	U72200GJ2021PTC127337	विमन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
44	AB3108940	U73100GJ2021PTC125174	आइडो-लीडिंग इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
45	AB3111039	U74909GJ2024PTC153635	विचार विस्तार प्राइवेट लिमिटेड
46	AB3117044	U01100GJ2018PTC103874	कैटल बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
47	AB3121109	U67120GJ2007PTC051359	टेक्नोविज्ञान ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/534—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2723770	U85100HR2019PTC080701	सनफ्लैग ग्लोबल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2763295	U63000HR2019PTC079831	नोमैडिक फीट प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2773185	U72200HR2020FTC089485	ब्रॉडसोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2829428	U74900HR2016PTC058061	विलबीदचेंज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2871140	U74999HR2022PTC100402	इन्वेस्टिप्लाय वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2883416	U70109HR2018PTC074240	भोपत प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2897362	U17309HR2017PTC069382	नूतन स्पिनिंग एंड बीविंग प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2898659	U15100HR2020PTC088276	मर्कन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2903665	U72900HR2020PTC087660	लैबनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2909633	U65992HR2007PTC037436	सुख समृद्धि चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2923769	U67110HR2022PTC105458	लेक्सडोकेरे कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2940873	U72900HR2021PTC097608	डेक्सेल गेम्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2958139	U51397HR2020PTC087459	आयु बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2969825	U72900HR2022PTC106912	एफवाईपी मनी प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2970057	U15201HR2019PTC079340	अत्तिउत्तम मिल्क प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
16	AB2980100	U85300HR2021PTC093951	स्वकल्याण हेल्थ एंड वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3008638	U72900HR2022FTC101421	जिओलीडर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3039910	U93290HR2024PTC117731	हॉप एन फन प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3046236	U15100HR2019PTC083421	मोहन एग्री प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3051988	U74900HR2015PTC056470	परफेक्ट टेकसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3055850	U74999HR2017FTC072014	मिनरल्स रिफाइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3060036	U74999HR2019PTC084054	सारा म्यूज़िक प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3091152	U55101HR2020PTC087008	डिप्स एंड पीज़ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3096929	U52100HR2011PTC042622	यूनाइटेड डिज़ाइनर ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3098937	U60200HR2018PTC072267	बीकेपी व्हीलबेस लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3108843	U51909HR2019PTC078716	सेवनमूव्स इंटरनेशनल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3112492	U62099HR2023PTC113557	अचीवर्स इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड स्टोरेज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3115694	U47722HR2023PTC116193	आचार्य श्री हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3116665	U70101HR2013PTC049450	राणावत बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3118512	U72900HR2022PTC105499	यंग ब्लिंग प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3118617	U37100HR2022PTC107041	अरा रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/535—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2929901	U27100HP2021PTC008738	मां बाला सुंदरी ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2935607	U45102HP2023PTC010032	हाउसऑफ ऑटोज़ प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3094008	U24299HP2020PTC007837	अत्रि बायो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/536—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2878209	U46102JH2024PTC021965	स्किनोविस्ट प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2905535	U51909JH2022PTC018635	आधारून एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2941812	U62099JH2023PTC020046	एएसबी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3082275	U14290JH2016PTC008737	अर्थह रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/537—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2633400	U74200KA2019PTC127252	एसएमईपीसीओ इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2755629	U18101KA2007PTC044035	जेएल एटेलियर काउचर डिज़ाइन प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2783183	U72900KA2022PTC164974	गैंजो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2787572	U50400KA2020PTC142403	वीईए ऑयल एंड गैस प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2789731	U21099KA2019OPC128086	माही सेलीब्रेशंस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2793727	U22219KA2022PTC165540	लिखामी पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2801645	U80301KA2000PTC026387	सॉफ्ट-एड सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2805593	U74999KA2018PTC110691	वॉल्टकीपर्स इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2820206	U72200KA2010PTC053401	माइंडस्ट्रेच लर्निंग लैब प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
10	AB2823008	U52609KA2021PTC145818	इक्यूबिक्स ग्लोबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2828289	U85222KA2023PTC176300	अकीरा फ्लुएंसी एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2828856	U72900KA2021PTC153581	ज़िनस्टार स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2843299	U82990KA2023PTC170947	सीएनएसबी कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2844339	U72200KA1989PTC010543	न्यूमैग डाटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2849475	U65992KA1994PTC016843	श्री गुरु चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2865244	U80301KA2019PTC121282	ईग्लू फुलडोम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2867208	U45205KA2016PTC085554	रैन्सील कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2877173	U70101KA2020PTC136959	गिलगाल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2882052	U74999KA2000PTC027785	आइपोनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2883281	U72200KA2013PTC070174	विंडमायविंग्स रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2884133	U80303KA2016PTC093251	लर्निंग लैब बेंगलुरु प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2896439	U74900KA2015PTC078685	एसक्यूएस हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2899835	U65992KA2015PTC083306	शिवा भवानी बीजीके चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2900732	U51909KA2011FTC059022	अवरामेटल रिसोर्सेस प्रोसेसिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
25	AB2913792	U72900KA2021PTC151594	एयरोनॉट्स लॉयल्टी प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2917124	U01100KA2020PTC137277	सिल्वेब्रिज प्राइवेट लिमिटेड
27	AB2920086	U72900KA2021PTC148995	कल्चरको सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
28	AB2924680	U43302KA2023PTC180252	लाइवली इंटीरियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
29	AB2924981	U52322KA1982PTC004661	एच टी एक्सपोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2927594	U63121KA2024PTC189175	ज़लॉक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
31	AB2928105	U46593KA2023OPC174362	आवरसेम इलेक्ट्रॉनिक्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
32	AB2934093	U72200KA2022PTC157042	ऑक्टावियन बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
33	AB2937345	U13136KA2023FTC175120	क्वेनबी ब्रांडिंग सॉल्यूशंस (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
34	AB2941945	U40300KA2011PTC057519	श्री वेंचर्स इको एनर्जी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
35	AB2942236	U62099KA2023PTC172999	ब्रेक्स पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
36	AB2943975	U72900KA2019PTC130658	जीआरटीएसए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
37	AB2946512	U14102KA2004PTC035111	आना हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
38	AB2950407	U62020KA2023PTC173000	अवेस्टैक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
39	AB2951034	U72200KA2022PTC161919	प्रेक्सिमैक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
40	AB2964218	U51504KA2007PTC044373	टेकट्री टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
41	AB2967802	U72900KA2019PTC126676	एजु-सतास टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
42	AB2968081	U31200KA2013PTC069447	एलमैन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
43	AB2968735	U72900KA2019PTC121032	नियता एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
44	AB2979850	U74110KA1989PTC010352	गोडीरा मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
45	AB2990220	U51909KA2022PTC162398	अंश एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
46	AB2993801	U78300KA2024FTC191370	शांग बिन रेजोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
47	AB2998368	U15490KA2018PTC117030	ग्रीनहब्ज़ न्यूट्रिशनल फूड्स एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
48	AB3000210	U72900KA2022FTC160291	लिबिटम सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
49	AB3011700	U60300KA2018PTC110814	समर्पणा शेयर्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
50	AB3028072	U72900KA2021PTC152060	डॉक्टर वीएलएसआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
51	AB3030870	U90009KA2023PTC173487	फिर्की स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
52	AB3037630	U74999KA2019PTC124305	वैल्यूसर्ज प्राइवेट लिमिटेड
53	AB3040221	U74999KA2018PTC112888	समत्वम आयुरनयोग प्राइवेट लिमिटेड
54	AB3051133	U74999KA2017PTC107233	सीडब्लूएक्स क्राफ्टवर्क्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
55	AB3057053	U65999KA2021PTC147031	फिडेंट वेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
56	AB3059250	U15400KA2020PTC138206	फार्म2बॉक्स नैचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड
57	AB3059820	U74999KA2018PTC110567	लीडलीन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
58	AB3061977	U24246KA2020PTC132955	ग्लोपिक प्राइवेट लिमिटेड
59	AB3063117	U52609KA2022OPC167787	ग्लिंग अपैरल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
60	AB3065669	U74999KA2018PTC115438	फर्स्टनॉच बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
61	AB3078369	U52339KA2021PTC153895	अगत्या एजेंसिज़ प्राइवेट लिमिटेड
62	AB3078964	U74999KA2016PTC094907	ब्लूगिल्ड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
63	AB3081905	U72200KA2011PTC061621	ट्रेडोनॉमिक्स वेबसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
64	AB3084402	U74999KA2021PTC149108	एग्राटेक इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड
65	AB3085854	U93290KA2023PTC172833	प्रोवॉर्क्स स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
66	AB3090789	U74999KA2022PTC166739	मोराल एचआर सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
67	AB3097322	U24290KA2022PTC166997	वान्या लाइफसाइंसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
68	AB3098170	U29299KA2006PTC039012	एलेओरा इलेक्ट्रिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
69	AB3099624	U80900KA2018PTC112531	नरचरिंग यंग माइंड्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
70	AB3099757	U72200KA2009PTC048785	डाविन्ची नैनोटेक प्राइवेट लिमिटेड
71	AB3099995	U52599KA2015PTC081543	फिज़ी शॉपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
72	AB3100406	U70102KA1992PTC037583	एस आई इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
73	AB3103411	U55101KA2023PTC175516	विसीवी राम हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
74	AB3108102	U74999KA2018PTC114455	सर्कल इंटरनेट टेक प्राइवेट लिमिटेड
75	AB3108425	U70100KA2015PTC082771	नंदाज्योति बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
76	AB3111703	U51101KA2012PTC064308	अविक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
77	AB3114315	U74999KA2020PTC134790	क्वेरी डेटा सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
78	AB3114582	U52335KA2009PTC049446	एवोल्व इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
79	AB3117934	U32109KA2006PTC038221	स्टार वेल्ड मशीन प्राइवेट लिमिटेड
80	AB3121633	U10200KA2014PTC077377	कॉम्पोजिट माइन सेफ्टी एंड ऑपरेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
81	AB3123151	U74999KA2019PTC129878	ग्रोविस एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/538—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2744146	U52399KL2021PTC069164	वैल्यू सुपरमार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2813443	U24110KL2021PTC067102	क्रिसक्रॉसएमडी प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2828681	U55209KL2020PTC065103	दीपांजलि सिग्रेचर रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2856129	U52339KL2011PTC027551	कैस्मिर एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2858230	U45201KL2006PTC019145	करियादाथिल बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2873649	U72900KL2021OPC069104	टौबेटेक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2881056	U74999KL2019PTC056150	कॉलबेल प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2881087	U92413KL2013PTC033615	मड स्वेट एंड गियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2881193	U60200KL2024PTC085991	स्कायआर्क पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2894605	U74999KL2007PTC020223	कन्नूर मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2906897	U31501KL2020PTC062885	एस्पेरा ग्रीन सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2908196	U96020KL2023OPC083315	गॉर्जियसलैंड (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2919142	U65992KL2017PTC051033	ऑर्डिनरी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2946277	U72900KL2016PTC046081	पिक्चिंग टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2959417	U72900KL2021PTC068443	स्पीड ड्रीम प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
16	AB2962172	U51109KL2000PTC013770	एलिसंस बिजनेस लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2995099	U72200KL1990PTC005578	कोचीन शेयर रजिस्ट्री एंड सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3010147	U65990KL2022PLN078061	श्री कुमार समाजम कोडुंगल्लूर निधि लिमिटेड
19	AB3019089	U51909KL2019PTC060463	अन्तालसा ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3031464	U74900KL2015PTC039556	मेडिवेयर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3037985	U72200KL2005PTC018372	वेबटेक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3057783	U72900KL2014FTC036915	ग्रिंडन आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3073181	U80903KL2014PTC036984	रियल टाइम सॉल्यूशंस एंड ट्रेनिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3081630	U74999KL2019PTC059278	एमबेड केयर प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3082085	U55100KL2019PTC059327	शावरगर प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3083918	U63030KL2020PTC061109	इंडसगो मोबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3095716	U85499KL2023PTC083627	टेकक्वा इंस्टिट्यूट फॉर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3106257	U01400KL2020PTC064041	ओरिजिनस्पॉट प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3106505	U51909KL2018PTC051891	नाफटा 360 फार्मा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3114292	U65992KL2001PTC014448	पुनर्जनि चिट्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/539—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2839859	U29200MP2022PTC062113	एम.पी. एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2866466	U15490MP2021PTC058251	केके नकोड़ा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2895152	U45200MP2006PLC019017	स्लैप इंडिया कंसल्टेंसी लिमिटेड
4	AB2919221	U93090MP2018OPC044860	नातानी कम्युनिकेशन्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2930718	U74110MP2020PTC053613	प्रामाण ब्यूटी केयर प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2940661	U65990MP2020PLN053608	स्वर्ण श्री निधि लिमिटेड
7	AB2951175	U45200MP2013PTC031649	बरजात्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2978363	U45201MP2022PTC059448	दीप टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
9	AB2998738	U60221MP2017PTC043299	पितांबरा ट्रांसपोर्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3051767	U17121MP1996PTC010770	डी.एस.सी. टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB3051805	U10799MP2023PTC066038	रतलामी स्वाद फूड्स एंड नमकीन प्राइवेट लिमिटेड
12	AB3055694	U40106MP2015PTC034825	ऐरा सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड
13	AB3065116	U70109MP2022PTC063378	शिवलोक रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड
14	AB3070984	U52101MP2021PTC055867	बीआरजे कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
15	AB3078237	U70100MP2011PTC026676	अमरकंटक कॉलोनाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AB3079323	U74999MP2022PTC063019	फ्लोरासेव एनवायरमेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3082215	U74999MP2022PTC063005	रीप्स इको एनवायरमेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3090472	U74999MP2022PTC063156	साइक्स एनवायरमेंटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3097968	U70109MP2021PTC055521	श्री महालसा इनोवेटिव होम्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3100200	U80904MP2022PLC063562	क्लाइमाकूल प्रोजेक्ट्स एंड एजूटेक लिमिटेड
21	AB3102787	U42101MP2023PTC068665	सर्वेश बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3104667	U67190MP2014PTC032148	स्ट्रीमलाइन फॉरेक्स करेंसी एक्सचेंज एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3109314	U68200MP2023PTC067367	बी7 प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/540—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2744212	U80900MH2022PTC392032	केवीएनपी ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2751154	U65990MH1991PTC059620	प्रफुल होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2771609	U28910MH2014PTC256779	अर्वा प्लास्टेक प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2812109	U70102MH2011PTC213385	जगावी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2821887	U65090MH1992PTC065901	नटराज ऑक्ट्रॉय क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग प्रा. लि.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
6	AB2823331	U45201MH2006PTC164750	सिद्धा इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2849536	U32100MH1986PTC040717	इंटर इक्विपमेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2851340	U51909MH2016PTC286189	सुची प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2851710	U64990MH2023PLN398651	व्यूलिप निधि लिमिटेड
10	AB2861769	U74120MH2009PTC192127	इग्राइट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2874145	U74120MH2015PTC268051	गैलेक्सी विजन एडवांस्ड हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2875833	U74120MH2014PTC253485	यश सेल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2877176	U45400MH2009PTC197428	सेरेनिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2889051	U51494MH2010PTC208871	श्री कालका एग्री टेक्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2889089	U74999MH2013PTC250563	थर्ड आई-मेडियाकॉम प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2891109	U63032MH2008PTC181705	ऑफशोर मरीन कॉम्प्लेक्स (आई) प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2896643	U70102MH2012PTC235482	एमएसके रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2902113	U34300MH2020PTC347843	आंस मैनुफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2908976	U74999MH2018PTC303689	जेएमएसडी एंड कोसिमा प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2911269	U74999MH2018PTC307149	सिएंजा लेबोरेटरीज़ प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2912253	U65929MH2022PLN391575	पुसेगांव अर्बन निधि लिमिटेड
22	AB2914190	U21000MH2024PTC430202	साइन्योर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2922015	U51909MH2018PTC316645	उर्व्या जनरल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2925955	U85100MH2021PTC359093	सप्त गंगा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
25	AB2929761	U74999MH2015PTC262098	फॉरएवर फ्रेश लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2931547	U74999MH2020PTC343174	फिरी लाइव प्राइवेट लिमिटेड
27	AB2933458	U74999MH2014PTC251770	इनफिनिटी हीटिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
28	AB2937039	U74994MH2009PTC193997	एस्टिन्ना फैशनस प्राइवेट लिमिटेड
29	AB2939469	U45200MH2023PTC397069	पुकार डेवलपर्स एंड कांट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2945131	U65929MH2022PLN391344	उमरखेड अर्बन निधि लिमिटेड
31	AB2946974	U51109MH2008PTC180073	मैसकॉट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
32	AB2951984	U63040MH2002PTC134596	ब्रीज़ ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड
33	AB2952901	U15412MH2021PTC360324	फेयरीटेल फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
34	AB2953471	U92419MH2022PTC374922	आरक्यूए ई-स्पोर्ट्स कलेक्टिव प्राइवेट लिमिटेड
35	AB2957559	U45202MH2008PTC188909	तनया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
36	AB2958773	U19202MH2020PTC345304	इनोबुरा मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
37	AB2960557	U74120MH2012PLC230995	थायरोकेयर इंटरनेशनल लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
38	AB2961397	U62099MH2023FTC412417	ईगन होल्डको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
39	AB2963928	U51496MH1992PTC067311	बिन्हार केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
40	AB2966704	U74999MH2018PTC313447	टॉरपीडो सीएमई प्राइवेट लिमिटेड
41	AB2967803	U51909MH2021OPC367673	नोबलडील मल्टी सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
42	AB2970966	U74140MH2010PTC199923	पीएफआई एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
43	AB2971655	U55101MH2021PTC363247	रंजना रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
44	AB2974082	U72200MH1999PTC118422	इंडीसॉफ्ट कंसल्टेंसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
45	AB2974879	U74120MH2012PTC238448	दीरबा आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
46	AB2980784	U80300MH1999PTC120053	ए. के. मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
47	AB2985681	U45200MH2010PTC207031	स्वराज ओंकार स्ट्रॉकॉन प्राइवेट लिमिटेड
48	AB2986976	U65999MH2011PTC214812	बीएसपीए एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
49	AB2989105	U24290MH2020PTC348418	ब्लूविश कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
50	AB2991902	U24290MH2021PTC373163	सी6 कौकिलियम प्राइवेट लिमिटेड
51	AB2991972	U72300MH1992PTC064888	बीटा शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
52	AB2992812	U74999MH2016PTC281692	गेटमाईवीसा ट्रैवल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
53	AB3000219	U74999MH2021PTC360550	अकीसा लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
54	AB3006650	U46901MH2023PTC400494	ट्रेंडोहाइव सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
55	AB3008395	U72900MH2017PTC299835	विम्प्रा डिजिटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
56	AB3018760	U43302MH2023PTC408180	नोवाकासा सेरामिका प्राइवेट लिमिटेड
57	AB3019289	U65990MH1983PTC029593	जग इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
58	AB3023364	U52609MH2018PTC317268	सेगोनीमस इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
59	AB3025111	U74999MH2021PTC353389	सक्सेस पाथवे टू ओज़ इमिग्रेशन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
60	AB3025632	U85310MH2017PTC295626	अरमान वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
61	AB3028703	U29102MH2023PTC402528	नंदिश्वर कृष्यन प्राइवेट लिमिटेड
62	AB3037117	U51909MH2021PTC358814	वीपीस्टार एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
63	AB3037237	U29299MH1995PTC088839	पृथ्वी एंड संस टूल्स एंड मशीन (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड
64	AB3038536	U92490MH2019PTC331026	गोल्डन ईगल प्रोडक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
65	AB3045006	U74999MH2018OPC308787	रूरल एक्सपीरियंसेज ट्रैवल्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
66	AB3047043	U72300MH2015PTC267254	विन्टर टेक प्राइवेट लिमिटेड
67	AB3048730	U51900MH1997PTC105449	डॉन फैब इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
68	AB3052540	U34300MH2008PTC185292	प्लेटिनम मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
69	AB3058520	U74120MH2012PTC232729	फ्रीसिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
70	AB3058572	U74120MH2011PTC218862	कूलब्लेज मरीन प्राइवेट लिमिटेड
71	AB3062037	U51909MH2019PTC318959	आइडियाज़91 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
72	AB3066171	U31900MH2019PTC323505	क्राइफ्स इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
73	AB3066787	U72200MH2018PTC314566	स्टेपबक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
74	AB3073337	U51900MH1994PTC080393	डोमिनिकन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
75	AB3074718	U70200MH2023PTC402727	ओपनआई कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
76	AB3074999	U93030MH2013PTC242703	विलोना एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
77	AB3076204	U74140MH2022PTC379846	शिखरगिरी ट्रेडसॉल प्राइवेट लिमिटेड
78	AB3077102	U45200MH2017PTC290209	वेड रियलिटी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
79	AB3077584	U63000MH2010PTC207500	एरीज़ ट्रेवल ज़ोन प्राइवेट लिमिटेड
80	AB3078413	U74110MH1977PTC019927	जी आर केमिकल्स इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
81	AB3078465	U45209MH2011PTC220678	राजदित्य इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
82	AB3078594	U74999MH2018PTC303668	न्यूरोसेप्ट्स वेलनेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
83	AB3082638	U01611MH2024OPC424182	ओज़ीब्लिस गार्डन डेवलपर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
84	AB3086137	U72300MH2000PTC129211	डाइवर्सिफाइड इक्विटी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
85	AB3088431	U70100MH2009PTC198020	वसुधरा स्प्रिंग फ़िल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
86	AB3088495	U74999MH2017PTC301747	ट्रुविक फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
87	AB3089265	U86100MH2023PTC401646	पिनाकल विजन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
88	AB3090709	U55901MH2023PTC404501	रिवरबर्ड मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
89	AB3090840	U74999MH2018PTC317447	नवाइस रिकॉर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
90	AB3092084	U74999MH2017PTC298953	एसकेएफएफ प्राइवेट लिमिटेड
91	AB3092525	U93000MH2019PTC320048	डॉग पाउंड प्राइवेट लिमिटेड
92	AB3092611	U28299MH2023PTC400842	वाईज़टार्ज टेक्नोपैक प्राइवेट लिमिटेड
93	AB3094344	U74990MH2009PTC193174	एलसीए कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
94	AB3094503	U72501MH2019PTC331056	क्रैडोफास्ट फ़िनटेक प्राइवेट लिमिटेड
95	AB3094808	U80101MH2021PTC366509	कोड म्यूज़िक स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड
96	AB3095295	U72900MH2016PTC281028	केस्ट्रेल्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
97	AB3099720	U47711MH2024PTC432331	निटार क्लोडिंग प्राइवेट लिमिटेड
98	AB3101030	U63030MH2021PTC360103	एरो ट्रांस प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
99	AB3101178	U74999MH2020PTC337998	कैडर लैन्स एंड इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
100	AB3101850	U72300MH2011PTC222815	ज़ेक टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
101	AB3106177	U73100MH2011PTC212189	फ़्लुइड्डा इंडिया मेडिकल इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
102	AB3106847	U67100MH2020PTC340049	ईस्ट ब्रिज इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
103	AB3107429	U74999MH2011PTC223540	फॉर्च्यून इंडस्ट्रियल सप्लाइज प्राइवेट लिमिटेड
104	AB3107538	U45300MH2024PTC420126	एस3टी ऑटो ट्रेड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
105	AB3108738	U72900MH2010PTC205109	वी-सर्व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
106	AB3109715	U74110MH2020PTC350920	समरलैब प्राइवेट लिमिटेड
107	AB3110679	U72200MH1987PTC044850	लिक सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
108	AB3112575	U74999MH2019PTC330579	रिन्यू मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
109	AB3112668	U74994MH2020PTC347966	वॉन्डरलैब कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड
110	AB3114199	U51909MH2018PTC318863	असाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
111	AB3114204	U67120MH1982PTC026494	क्षितिज होलिंग्स एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
112	AB3114401	U39000MH2023PTC398542	सक्षम एनवायरो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
113	AB3115551	U74120MH2011PTC212391	जेएनए बेयरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
114	AB3115669	U85300MH2022PTC376017	यूआर मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
115	AB3117199	U72900MH2023OPC397460	चेरीको फैनेटिक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
116	AB3117675	U31900MH2022PTC387871	आर्च इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
117	AB3117973	U74999MH2015PTC266991	प्योरलाइफ बॉटर प्यूरिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
118	AB3118845	U72900MH2020PTC347452	क्यूबरूट डिजिटल सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
119	AB3119085	U45400MH2011PTC218267	मोंटेसिनो एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
120	AB3120059	U78100MH2023PTC405293	इनोवाकूट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
121	AB3121384	U74999MH2015PTC268342	सैब्सॉल्व ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
122	AB3121623	U99999MH1993PTC071034	गैब्रियल फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
123	AB3122426	U50402MH2010PTC200245	मारियस मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
124	AB3122601	U55101MH2021PTC359286	जिन्टजोआ हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/541—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5)

के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2790703	U15134PN2020PTC189200	मैटरहॉर्न टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2820510	U85100PN2022PTC213853	रूबीकूपर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2838675	U65990PN2022PTC217051	आइकोनिक सेवन टेन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2874214	U28132PN2024PTC230035	सुखधा टेक्नोक्रेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2879673	U62099PN2023PTC224836	बेकर सॉफ्टवेयर स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2891645	U01119PN2019PTC187986	गुडबायनेचर प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2894148	U74999PN2010PLC136887	गिरिवन सिक्योरिटी एंड मेटेनेंस कंपनी लिमिटेड
8	AB2908128	U72300PN2004PTC019341	श्रुजन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2909063	U28251PN2024PTC232244	एसवीपी स्वस्तिक वाल्स एंड पंप्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2910829	U72900PN2017PTC169630	टर्स सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2915575	U31900PN2013PTC147568	आर्य इलेक्ट्रोमैके प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2923405	U72400PN2009PTC134613	प्लेटिनम सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2947812	U33200PN2021PTC203433	ज़ाइटो लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2949911	U35999PN2019PTC185491	कैडेंस मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2962794	U24299PN2019OPC184272	सेवर्स रिसर्च टेक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2972630	U63000PN2011PTC141543	ट्रैवेलटाइम कार्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2986336	U45400PN2007PTC158668	अत्तर प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2994746	U19129PN2021PTC206892	कोलंबस स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2995991	U70200PN2019PTC188487	स्काय वैली सूट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2997707	U19201PN2023PTC222205	फॉर्मवर्क ऑयल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2998989	U15132PN2015PTC156865	दालवी कुलिनरी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3001810	U46101PN2023PTC223003	एक्सपोर्टएलाइट प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3006875	U72100PN2021PTC197772	पायकार्डो प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3009687	U93000PN2017PTC170400	आरएनएल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3033739	U63999PN2024FTC227772	टर्नकी कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3040169	U74999PN2019PTC187128	एआईटीएच प्रिविलेज एनालिटिका एंड फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3066000	U31904PN2018PTC177819	सिद्धेश्वर इलेक्ट्रिकल्स एंड इफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3067293	U52609PN2020OPC189820	अर्ना कॉमट्रेड (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3074900	U72900PN2005PTC021156	तारा सॉफ्टटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3084969	U85190PN2021PTC198123	सुयोग पल्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3086370	U58201PN2023PTC224971	पुलमेटा प्राइवेट लिमिटेड
32	AB3094703	U01820PN2020PTC190011	एफ2सी एग्रोहेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
33	AB3095540	U74999PN2018PTC178959	डाइमोन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
34	AB3101657	U92100PN2013PTC149712	लोडिंग पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
35	AB3105534	U72200PN2015PTC154357	विजयलक्ष्मी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3106363	U43219PN2023PTC220338	सूर्य सोलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
37	AB3110643	U72200PN2022PTC215819	ग्रोवबाइट प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
38	AB3110837	U15490PN2019PTC184193	ऑगमेंटेड फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3114904	U72200PN2001PTC016117	न्यू ऐज सॉफ्टवेक प्राइवेट लिमिटेड
40	AB3116973	U20299PN2024PTC227857	इनोफ्यूजन इंजीनियरिंग एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
41	AB3117451	U68100PN2023PTC224632	ट्रस्टसीड पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड
42	AB3117697	U72900PN2016PTC165623	याविन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
43	AB3118642	U72900PN2007PTC131185	पूजाश्री इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7
नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनी का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/542—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनी का नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनी का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2847484	U92412MN2015PTC008432	नेरोका फुटबॉल क्लब प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7
नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनी का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/543—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनी का नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनी का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2908225	U10799NL2023OPC013807	यालैंड इंटरनेशनल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/544—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2905691	U80900OR2018PTC028776	व्हाइट इंक एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2968350	U74999OR2020OPC032753	विंध्यावासिनी कैटरिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2980360	U15142OR2004PTC007522	अरिहंत एडीबल ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3089227	U85200OR2017PTC027340	उद्र उबुन्टू हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/545—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2988554	U72900PY2019PTC008389	कॉनराड सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3109788	U52100PY2022PTC008906	एसएमएम एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/546—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5)

के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2722842	U34102PB2020PTC050656	पोल्स्का न्यूजवान प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2808550	U72900PB2014PTC038708	कृजिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2890123	U80900PB2021PTC054127	वैभव स्टीडि एंड इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2971453	U72900PB2014PTC038778	अनफोल्डयू ऑनलाइन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
5	AB3017536	U85301PB2023OPC059194	बेंजोमेट्री एजुवेंचर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
6	AB3087339	U55101PB1996PTC018193	पायल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AB3094235	U28939PB1995PTC016956	वी वी टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AB3096035	U30923PB2023PTC058553	ईस्टमैन मेटालाइट प्राइवेट लिमिटेड
9	AB3097002	U14106PB2009PTC033186	अजय सीमेंट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/547—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2758615	U21090RJ2022PTC084897	बायोसवैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2866899	U99999RJ1991PTC068790	जोधपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2887140	U47190RJ2023PTC090488	एएलएस आर्टिडिज़ाईंस प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2960917	U45201RJ2013PTC042883	श्री रानीसती बिल्डएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2975976	U27101RJ1996PTC012016	ओंकार अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2976753	U58203RJ2023PTC086320	एसकेलाइट गोम्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2981477	U72200RJ2011PTC034769	यूनिऑलम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2982719	U80904RJ2018PTC060948	अजमो एजुबिज़ प्राइवेट लिमिटेड
9	AB3006255	U80904RJ2022PTC081335	कैम्बरएडु ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3009648	U70109RJ2021PTC077254	झोनडा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB3037892	U74999RJ2020PTC071223	राजकुल टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AB3060564	U70101RJ2012PTC039683	गोल्डन विंग्स रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
13	AB3066981	U72900RJ2013PTC042304	पेरॉक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
14	AB3082970	U65999RJ2021PLN072860	श्री केसरिनंदन निधि लिमिटेड
15	AB3097389	U27109RJ2007PTC023646	अरिहंत आयरन प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
16	AB3100046	U74140RJ2015OPC048140	हैंडमेडली टेक्नोलॉजीज़ (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3100660	U80903RJ2020PTC070056	हर्षवर्धन हॉटस्पॉट प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3106850	U51909RJ2020PTC071647	माय विजन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3107710	U45209RJ2021PTC078102	प्रशविक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3109322	U62011RJ2024PTC093532	सॉफ्टनेक्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3111697	U51505RJ2020PTC068719	शुभमरत इलेक्ट्रिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3116209	U55101RJ2023PTC090081	अविन्स होटल्स एंड मोटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3117521	U72900RJ2013PTC044715	ज़ीलटेक्रो वेब सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3118881	U45200RJ2016PTC055700	त्रिस्कमाइंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3118909	U72200RJ2011PTC035009	त्रिविकर्मा इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/548—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2694105	U15133TN2017PTC117363	स्तन्या डेयरी एंड फूड प्रोडक्ट्स एक्सिम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2776320	U19121TN1972PTC006178	सिम्सन एंड मैक.कोनेची (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2795170	U72200TN2006PTC059877	डीप वैल्यू टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2821267	U96010TN2024PTC167587	पर्पल लगज़री बेडिंग्स टेक्सपार्क प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2851930	U72500TN2009PTC072584	काव्या क्रिएटिव मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2855076	U80902TN2022PTC151605	डिजिटलमटेक प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2867273	U74999TN2021PTC142629	ईसीएसजी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2884279	U18109TN2022OPC153765	एडला अपैरल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2913884	U93090TN2018PTC124069	फ्लिकहॉस्ट रिटेल सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2914036	U70101TN1995PTC031443	घटाला प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2915808	U74900TN2011PTC079085	एस. करुणागरण मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2939530	U67110TN2020PTC140309	कैफ्स मनी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
13	AB2969199	U74999TN2013PTC089435	सार्विक पैकेजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2982610	U72900TN2019PTC132241	एक्टिविडो एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2989992	U55101TN2022PTC150161	डिविनस73 फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AB3017094	U24290TN2020PTC137359	वृक्षा कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3060147	U93090TN2018PTC123039	ब्लाइटस्पॉट लीगल्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3063444	U74999TN2011PTC082000	स्मेग ब्रांड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3067902	U45400TN2013PTC091790	कोकी'ओ स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3084267	U22219TN1993PTC025023	प्रेशियस पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3089149	U72900TN2022PTC154948	मीगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3095094	U32209TN2004PTC053142	यूरोस्कोप कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3098924	U21001TN2024PTC170580	त्रियोक्टेस्ट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3100512	U72900TN2021PTC144653	टाबी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3101235	U71100TN2023PTC161608	ऑरेंज टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3103327	U18129TN2023PTC160034	विन्सटन प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3106800	U17233TN2005PTC056600	राम्या कॉयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3109344	U74999TN2020PTC135854	आर्टमेट्रिक्स मीडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3115684	U55209TN2021PTC145711	अन्नालक्ष्मी भोजनालय प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3116171	U72900TN2017PTC118261	विग्यानी एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/549—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2800966	U19200TZ2021PTC035902	बॉन्कज फुटवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2904805	U14290TZ2016PTC028166	अम्मु माइनिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2912308	U01111TZ2015PTC021878	अम्मु एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
4	AB2915406	U15431TZ2008PTC014789	वीजी टिंडर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2929488	U01400TZ2020PTC034520	किसान सेवा कोयंबटूर प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2968231	U51909TZ2022PTC039333	एससीएम क्रिएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2969406	U99000TZ1994PTC004823	आरआर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2996671	U70100TZ2015PTC021667	ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2997551	U01100TZ2021PTC035353	ग्लोबल बेरी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3055180	U05110TZ1990PTC002816	एक्जैक्ट सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB3109644	U17299TZ2019PTC031747	बिगगेट टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AB3112975	U74999TZ2022PTC039715	सीरियस एचआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/550—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2800452	U40108TG2011PTC076191	टीपीजे पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2848445	U24304TG2019PTC131469	कैलाश लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2850242	U64203TG2007PTC054266	स्पिरिट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2867490	U46497TS2023PTC179551	आदित्य नरसिम्हा ग्लोबल फार्मसी प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2872712	U29100TG2011PTC074919	मायक टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2884359	U65990TG2011PTC074667	एक्सीलेंट जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2886471	U72100TG2019PTC131127	सर्ज सॉफ्टवेयटेक प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2910134	U73100TG2021PTC153412	डिकर्व टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2910863	U85110TG1993PLC015831	रोहिणी सी.टी. स्कैन सेंटर लिमिटेड
10	AB2914453	U01110TG1996PLC023087	आर्यन एवेन्यूज लिमिटेड
11	AB2919268	U72900TG2019PTC132455	वाउच टेक सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2930749	U62020TS2024PTC185101	परफोरांस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2934441	U65910TG1985PTC005897	कानोडिया लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
14	AB2981677	U74999TG2018PTC129183	श्रीका माइक्रोडॉट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2986045	U29190TG2021PTC151049	स्टैलियनफ्लाइट प्राइवेट लिमिटेड
16	AB3054346	U45309TG2018PTC123560	आईहोम एंड फार्म डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3057154	U64200TG2008PTC061543	जेएम टेलकॉम प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3059145	U40108TG2009PTC066303	एक्ला एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3071594	U74120TG2011PTC076825	विजया लक्ष्मी डायमंड्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3074286	U72900TG2022PTC159902	एनीलीड सॉफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3088834	U62013TS2024PTC183020	डब्ल्यूसीएसआरएम सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3090481	U15490TG2018PTC126823	फ्रेसक्यूरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3101269	U45209TG2013PTC085343	श्री वैष्णवी ट्रांसलाइंस प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3101505	U74999TG2017PTC120867	एनीम फ्रेम्स प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3102286	U15549TG2022PTC161875	रॉबिन डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3105315	U74999TG2018PTC124409	कान्वा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3109169	U62013TS2023PTC171003	सच कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3109574	U72900TG2022PTC159324	बिज़लाइफ इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3110769	U26990TG2021PTC150044	नेक्स्टटन प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3115504	U80904TG2022PTC161133	श्री अकादमिक गेटअवे कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3119168	U72900TG2008PTC060409	कोलेटी आईटी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/551—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2853328	U74900UP2010PTC042683	जीआरएस प्रिजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2860766	U74999UP2017OPC095904	ईकोटू पेपर प्रोडक्ट्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2863081	U01400UP2021PTC149422	मोलनापुर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
4	AB2882490	U72900UP2021PTC147166	बेट टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
5	AB2886483	U74999UP2016PTC084137	निदा अंगारो एंडोस्कोपी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2906781	U28999UP2021PTC145126	लेज़ोल्ड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2907970	U72900UP2020PTC129229	लीडर्सबाइट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2924051	U24230UP2022PTC170969	रेसनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2926434	U74999UP2019PTC119840	ब्लशफ्रॉग ई-रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2934416	U15549UP2019PTC122299	यूबीए ब्रेवरीज प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2950000	U52599UP2021PTC140995	थिंकिंग फेयर प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2972049	U74999UP2019PTC122021	भूमि एम्पावर्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2982434	U80301UP2022PTC159163	ट्यूटर24x7 एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2983749	U74999UP2019PTC116622	अत्रिह लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2991760	U72900UP2021PTC153996	स्पोर्ट्स टेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2999133	U72900UP2022PTC168324	वेदुबॉट प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3004064	U68200UP2024PTC201014	शॉ एक्सपीरियेंसेस प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3004631	U65990UP2019PLN121413	डाबॉर्ड इंडिया निधि लिमिटेड
19	AB3013701	U74999UP2022PTC172354	डुविसो सर्टिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3018427	U72900UP2018OPC104914	अल्फा फ्यूचर विज़न (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3024202	U55101UP2017PTC091120	मिसानो रेस्ट्रास प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3036569	U52209UP2020PTC139499	एफके न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3039738	U36990UP2021PTC147118	पशुपति फैबटेक्स प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3056502	U72900UP2020PTC128312	रिविगो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3070101	U56101UP2024PTC207730	उप्सव फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3081396	U93030UP2015OPC070122	जी डी ग्लोबल ट्रेडमार्ट (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3084517	U15400UP2021PTC150960	ओएमजी गुनक्वारी प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3084873	U47214UP2024PTC196929	ब्रजगोपाल मिल्क फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3088970	U72900UP2022OPC172588	एलीका इंफोटेक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3089515	U52520UP2022OPC169342	एलफ्लो कंट्रोल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3098542	U15400UP2021OPC142590	बेक्स्टर स्टूडियो (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
32	AB3100698	U25209UP2022PTC167733	चंद्रा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड
33	AB3102335	U45400UP2016PTC076675	आद्रिका कंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
34	AB3102347	U63000UP2019PTC117182	समावर्ता ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
35	AB3102785	U68100UP2023PTC193776	नीम होम्स प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3110448	U21002UP2023PTC188104	गोविंदम् लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
37	AB3117386	U80100UP2018PTC104781	रंजना बायोमेडिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
38	AB3120515	U85110UP2003PTC027290	आनंद मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3121299	U18109UP2021PTC156798	कॉस्फर यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/552—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB3006710	U72900UR2022PTC014239	विज्ञाएक्सएल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3009917	U21003UT2023PTC015983	पीएफआईमेड ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3072947	U24290UR2020PTC011088	सिरोइस फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3111892	U74999UR2017PTC007903	पेकस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/553—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
1	AB2735644	U51909WB2012PLC184899	स्पीडफास्ट मार्केटिंग लिमिटेड
2	AB2736099	U51909WB2012PLC184889	हुलबर्ट ट्रेडिंग लिमिटेड
3	AB2751168	U52190WB2010PTC147952	फुटमार्क सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2777628	U65921WB1995PTC073686	रमेश्वरा एस्टेट्स प्रा. लि.
5	AB2813213	U51909WB2011PTC161737	साबेरा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2818323	U74140WB2006PTC110674	ब्लूव्यू कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2839486	U31909WB2020PTC241921	जे सी माइकल प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2846554	U70109WB1992PTC056592	एमिसोर प्रोजेक्ट प्रा. लि.
9	AB2850068	U65990WB2022PTC250888	लाइफवाइज़ कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2871983	U63090WB2015PTC206087	सुवो गोलट्रिप टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2886173	U24236WB1972PTC028325	आर डी सर्जिकल एंड मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2886759	U51109WB2008PTC124104	परमपिता व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2887734	U51909WB2009PTC139150	गजवक्र व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2890375	U51909WB2018PTC225986	एसएचएन फैशन प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2891974	U24239WB1986PLC041034	डी आई लेबोरेटरीज़ लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name (Hindi)
16	AB2898435	U45203WB2004PTC099354	श्री नारायण आवासान प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2906806	U52599WB2020PTC237058	अदम्य वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2914700	U74900WB2013PLC193908	गोपातिह कॉमर्स लिमिटेड
19	AB2915646	U74900WB2013PLC195123	गणधीराज ब्रोकिंग एंडवाइजर्स लिमिटेड
20	AB2929924	U45400WB2010PTC146216	सती प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2940135	U74900WB2014PTC202519	आदित्य डिज़ाइनर क्रिएटिविटी प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2949776	U35100WB2024PTC274440	स्टार पाइप एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2958419	U72900WB2021PTC246246	सेफडेन प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2960640	U74900WB2013PLC192947	चतुर्भुज एंटरप्राइजेज लिमिटेड
25	AB2960944	U74900WB2013PLC193096	चित्ररूपा ट्रेडिंग लिमिटेड
26	AB2961199	U74999WB2013PLC192759	चतुर्भुज कॉमर्स लिमिटेड
27	AB2973568	U64990WB2024PLN267301	बसुदेव आशार आलो निधि लिमिटेड
28	AB2977925	U51109WB1996PTC077396	प्यार विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
29	AB2985511	U68200WB2024PTC269181	अभिधेता रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
30	AB2988864	U74140WB1999PTC089781	सेफ गार्ड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
31	AB2991097	U45400WB2013PTC192577	अस्तदुर्गा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
32	AB2998562	U51909WB2009PTC139077	देवदेवा मर्चेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
33	AB2998978	U51909WB2009PTC139095	गजकर्ण कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
34	AB2999347	U70109WB2010PTC156147	रोमैक्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
35	AB3001852	U62013WB2023PTC263107	एक्सपेंडटेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3029426	U15549WB2020PTC236751	स्वास्थ्य सीरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
37	AB3032946	U19115WB2013PTC193495	फाइनक्राफ्ट लेदर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
38	AB3051539	U51101WB2010PTC143500	लोकप्रिय डीलट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3052068	U51909WB2008PTC127878	ओमकारा विनिमय प्राइवेट लिमिटेड
40	AB3057279	U70109WB2018PTC226248	प्रेशियस स्ट्रक्चरा प्राइवेट लिमिटेड
41	AB3068488	U73100WB2021PTC242876	एफक्रेट प्राइवेट लिमिटेड
42	AB3069691	U52500WB2022PTC252028	अकार प्राकार फाइन आर्ट प्राइवेट लिमिटेड
43	AB3070325	U72900WB2022PTC258675	बार्टी नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
44	AB3088318	U74900WB2016PTC209870	मैग्रीट्यूड प्रोटोटाइपिंग प्राइवेट लिमिटेड
45	AB3088458	U01403WB1996PTC080387	माहेश्वरी एग्रो टेक प्राइवेट लिमिटेड
46	AB3093638	U31909WB2020OPC238622	माइटाज इंडस्ट्रीज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
47	AB3099185	U62099WB2023OPC265644	क्लाउडफेयर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
48	AB3105078	U55101WB2021PTC248770	मेहिका क्लब एंड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड
49	AB3105649	U80300WB2021PTC248763	मेहिका हाई स्कूल प्राइवेट लिमिटेड
50	AB3110262	U19115WB2015PTC207827	कुंस्टफजोर्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
51	AB3111735	U51109WB2007PTC116296	सुपीरियर डीलकॉम प्राइवेट लिमिटेड
52	AB3112080	U50400WB2022PTC257320	एजेएस स्पेयर पार्ट्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
53	AB3114225	U55101WB2024PTC267799	एसडी क्लब्स एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड
54	AB3116650	U45400WB2013PLC197298	रूपकार इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
55	AB3116861	U39000WB2023OPC261744	अवकारा कार्बन हंटर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनी का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/555—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB3198552	U68100AN2023PTC006058	एचवीवी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल

सहायक रजिस्ट्रार

सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/556—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2791701	U35990AP2021PTC116982	डेक्कनविंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3017565	U70109AP2019PTC113677	श्री निवासम इन्फ्रा एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3039094	U36911AP2005PTC046110	एस.एल. औरो प्लेट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3049148	U85499AP2024PTC114085	स्टेमक्वेस्ट प्लेग्राउंड्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB3074748	U24290AP2020PTC114970	लैविन लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
6	AB3121808	U72200AP2012PTC081300	के.पी. इफॉर्मेटिक्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
7	AB3124343	U74140AP2021PTC116974	इंडहाण्या मंत्रणा सेवा प्राइवेट लिमिटेड
8	AB3124354	U72900AP2020PTC116952	इंडहाण्या सुतंत्रा प्राइवेट लिमिटेड
9	AB3133573	U36999AP2017PTC105905	आरएक्स सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3229799	U72900AP2022PTC120959	डेटास्विफ्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल

सहायक रजिस्ट्रार

सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/557—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2828360	U00894BR1988PTC003159	इकोनो प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3030780	U63030BR2021PTC050011	एचल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3051272	U72900BR2019PTC041064	सॉफ्टलाइट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3057264	U70109BR2022PTC058312	पिंक स्पार्कलर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
5	AB3110252	U92490BR2022PTC060977	रिस्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
6	AB3115815	U45400BR2018PTC039127	Manorath आवास प्राइवेट लिमिटेड
7	AB3121042	U72200BR2022PTC056893	एडुफ्यूज़ प्राइवेट लिमिटेड
8	AB3123977	U74999BR2016PTC032166	सेंटम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
9	AB3132773	U45200BR2014PTC023090	सत्य प्रकाश प्रॉपर्टी डीलर्स और कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3167061	U45200BR2009PTC014282	हिमालय टेक्नोक्रेट और सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
11	AB3236879	U51397BR2021PTC053738	जीएमएनएस मेडमैक्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/558—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB3123512	U74900CH2012PTC033536	सैब्र स्किंग प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3128032	U36999CH2017PTC041503	विश्व डिज़ाइन स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/559—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2879780	U15100CT2022PTC013241	श्री बजरंग साल्वेंट प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3106072	U72900CT1991PTC006340	ट्राई-स्टार कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3110756	U31904CT2017PTC007911	इनर्जीओ पावर प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3117509	U46632CT2024PTC016355	गोल्डन स्काई कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB3126687	U74995CT2018PTC008851	बुद्धप्रिय टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
6	AB3130654	U55101CT2023PTC015163	एएस ट्रांसपोर्टेशन और एक्वामोडेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
7	AB3165076	U55101CT2022PTC013131	हिलर्स फ्रैंचाइज़ प्राइवेट लिमिटेड
8	AB3181352	U80903CT2020PTC010829	सुपर ब्रेन एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड
9	AB3274481	U72900CT2021PTC011436	एमडी फ्यूचर टेक प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/560—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2790175	U72200DL2015PTC278634	रियलबॉक्स डाटा एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2812717	U55209DL2019PTC355278	बीकानेरवाला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
3	AB2858335	U74899DL1990PTC039672	प्रणव प्रिंट-एन-पैक प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2883808	U51909DL2022PTC394019	लीप फर्स्ट प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2885676	U33309DL2017PTC326412	अल्ट्राइज़म सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2889709	U45200DL2012PTC238614	शैव्या कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2898145	U52609DL2021PTC380992	रोबोटस्काई इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2907694	U24100DL2016PTC298123	सद्भाव हेल्थ सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2916085	U74999DL2005PTC140574	भारतीया लॉजिटेक प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2925743	U51909DL2012PTC242040	द एथनिक स्टोरहाउस प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2929926	U63040DL2013PTC256558	वैप हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2947744	U74999DL2013PTC254464	डीए इन्स्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2948916	U74140DL2014PLC271505	एनवीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
14	AB2949636	U45200DL2008PTC181527	जीएसजी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2955550	U41000DL1998PTC093270	एक्का प्योर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2959186	U72300DL2007PTC166913	सिल्वरलाइन इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2959824	U45400DL2008PTC181526	महिंदर शर्मा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2960438	U70101DL2014PTC266125	सर्वायोनि बिल्डर्स एंड डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2961375	U63040DL2018PTC343207	साइटसीइंग एंड टूरिज़म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2964105	U45300DL2008PTC181529	शुभम ग्रीनबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2970862	U55101DL2022PTC396338	वीएनएस फूड्स एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2976810	U80903DL2021PTC391802	स्किलियोनेयर प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2976821	U17299DL2022PTC398396	चूज़ योर क्लोसेट प्राइवेट लिमिटेड
24	AB2989713	U72900DL2020PTC368501	अफोरसर्व इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
25	AB2994373	U74899DL2000PLC104636	जी-कैड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
26	AB2998205	U74999DL2021FTC389776	मामोरू (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3007399	U43299DL2023PTC423301	एम. रामावती कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3019046	U74999DL2007PTC158734	आर एंड आर सुपरबाइक्स प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3022388	U74999DL2022OPC407043	रैजनएक्स ह्यूमन रिसोर्सेज़ (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3023792	U72900DL2023PTC409493	सिक्स97 टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3034753	U74899DL1995PTC074963	पेरीवाल इरिगेशन प्राइवेट लिमिटेड
32	AB3035390	U74140DL2021PTC376306	इंडक्ट ग्लोबल सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
33	AB3035440	U21000DL2019PTC345719	केशमी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
34	AB3038340	U15549DL2020PTC365721	एसे लैब्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
35	AB3039594	U55101DL2008PTC173086	मंगोस्टीन प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3046253	U18109DL2021PTC378142	उन्नयो गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
37	AB3046262	U31904DL2021PTC378138	बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
38	AB3047997	U18101DL2006PTC148308	एनडीटीवी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3050189	U52290DL2024PTC428672	स्प्रींट एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
40	AB3050922	U74899DL1971PTC005866	मिडलम एजेंसियाँ प्राइवेट लिमिटेड
41	AB3051540	U34201DL2020PTC364017	आज़ाद एवरग्रीन ईवी प्राइवेट लिमिटेड
42	AB3052306	U74950DL2007PTC166487	लोपैक पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
43	AB3053042	U52392DL2003PTC118296	यशस्वी ट्रेड सेंट्रिक प्राइवेट लिमिटेड
44	AB3056858	U45309DL2020PTC372718	ट्रस्टिस कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
45	AB3064082	U80100DL2018PTC329031	रुपेश पाठक डाइमेंशन प्राइवेट लिमिटेड
46	AB3066349	U74899DL1994PTC060086	मेडेक्स सर्विसेज और कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
47	AB3067150	U15490DL2022PTC404944	बाउंडलेस ब्रांड्स प्राइवेट लिमिटेड
48	AB3070796	U45201DL2001PTC111967	लव कुश निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
49	AB3080679	U74899DL1994PTC063023	महाबलेश्वर गैस और केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
50	AB3081085	U72900DL2016PTC289661	सतराम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
51	AB3082248	U72200DL2005PTC142789	बी. एन. कंप्यूटरस प्राइवेट लिमिटेड
52	AB3082512	U45200DL2022PTC394096	मोरियल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
53	AB3084697	U51909DL2017PTC313545	ड्रेकन फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
54	AB3088951	U74999DL2020PTC362143	जेनएक्स्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
55	AB3089088	U74210DL1996PTC078672	माउंसेल हैरिस कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
56	AB3094568	U15400DL2016PTC302526	फ्रेसडेपॉप्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
57	AB3100040	U26960DL2003PLC123094	संधार इंटेल्ली-ग्लास सॉल्यूशन्स लिमिटेड
58	AB3100416	U22213DL2012PTC240026	पिवियका पब्लिशर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
59	AB3100589	U72900DL2020PTC360362	मेटालिक आईओटी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
60	AB3102324	U51909DL2010PTC206354	कौस्तुभ इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
61	AB3103259	U72900DL2019PTC357510	वीफाउंड प्राइवेट लिमिटेड
62	AB3103939	U36990DL2020PTC367503	हाउटकयर प्राइवेट लिमिटेड
63	AB3104552	U51909DL2016PTC301125	सैफ्रान ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
64	AB3113581	U51909DL2004PTC131094	वाईएमटी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
65	AB3114060	U67120DL2008PTC173008	इश स्टॉक्स प्राइवेट लिमिटेड
66	AB3115421	U70102DL2011PTC226330	अक्षधा देव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
67	AB3117315	U51909DL2020PTC373379	इंग्लिश फुटबियर प्राइवेट लिमिटेड
68	AB3117669	U50100DL2021PTC379314	गाव विज्ञान प्राइवेट लिमिटेड
69	AB3118712	U46301DL2023PTC415335	जिव्यम वर्ल्ड ट्रेड कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
70	AB3119281	U70101DL2010PTC205731	टेरे फर्मा विलाजेस प्राइवेट लिमिटेड
71	AB3119815	U70100DL2011PTC221721	आसोम्रोसो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
72	AB3119984	U51909DL2013PTC260413	मेट ग्लोब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
73	AB3120631	U90009DL2004PTC127880	मैक्सी-फ्लो सैनिटेशनस प्राइवेट लिमिटेड
74	AB3120678	U46308DL2023PTC412228	अविराज डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड
75	AB3120747	U72200DL2022PTC399928	स्क्वायरकिट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
76	AB3121826	U27106DL2005PTC141639	ईए आयरन एंड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
77	AB3122294	U74140DL2010PTC200537	आर्क ऑफिस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
78	AB3122479	U93290DL2023PTC421508	विन सिटी डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
79	AB3122568	U74994DL2019PTC344859	केफला रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड
80	AB3123171	U23209DL2003PTC121722	बीएसएम पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड
81	AB3123219	U31103DL1997PTC089653	डैश इलेक्ट्रो पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
82	AB3123320	U72900DL2018PTC334846	विवर्वा टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
83	AB3123845	U74999DL2022PTC400063	स्कॉर्पिंसाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
84	AB3124611	U18101DL2008PTC180601	एसजी फैबकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड
85	AB3124713	U74999DL2017PTC310171	जी-स्टिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
86	AB3124750	U47219DL2024PTC439365	वितासास्त्र ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
87	AB3125684	U74999DL2019PTC346343	अडोरिथम टेक प्राइवेट लिमिटेड
88	AB3126323	U72300DL2016PTC289340	अंबिलोबे टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
89	AB3126886	U63030DL2019PTC358025	अर्निंग ट्रिप एंड इवेंट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
90	AB3127265	U74899DL1993PTC055595	एस.एम.वी. कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
91	AB3128051	U74899DL1990PTC042389	एटीसी टेक्नो कंस्ट्रक्ट प्राइवेट लिमिटेड
92	AB3128283	U74300DL2004PTC127260	बार्टर मीडिया प्रमोशन्स प्राइवेट लिमिटेड
93	AB3128364	U55200DL2022PTC393415	मोजमदर ग्रीन्स प्राइवेट लिमिटेड
94	AB3128738	U70109DL2020PTC374259	हर्मेस रियलबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
95	AB3129418	U78300DL2023PTC417571	एसी प्रमेट्रिक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
96	AB3129915	U62013DL2023PTC417147	टेककोलाटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
97	AB3130391	U70102DL2014PTC270728	चौधरी ठेकेदार और सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड
98	AB3131341	U46909DL2024PTC427912	कियाशा डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
99	AB3131363	U93000DL2011PTC214837	लेट्स इंटरन कैरियर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
100	AB3131511	U36990DL2020PTC371279	कावस योगा लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड
101	AB3132113	U60231DL2004PTC129663	घोत्रा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
102	AB3132263	U63030DL2021PTC378472	ट्रैवेलोहेल्प इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
103	AB3132293	U51900DL2012PTC243471	प्रीमियर वर्ल्डवाइड प्राइवेट लिमिटेड
104	AB3136900	U74999DL2020PTC364673	आईटीई डीबीएसएस ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
105	AB3138224	U74140DL2009PTC191921	ओम साईराम कॉर्पोरेट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
106	AB3140426	U17299DL2022PTC403399	आदिमजनजाति क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
107	AB3142587	U92130DL2008PTC185596	जीएमए एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
108	AB3146268	U93090DL2020PTC371329	सीमोटो प्राइवेट लिमिटेड
109	AB3147729	U63090DL2013PTC258723	ग्लिट्जल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
110	AB3150047	U37100DL2012PTC244671	रोल्ज वेस्ट 2 एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
111	AB3150679	U74900DL2013PTC262875	जीएमए फर्स्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
112	AB3150806	U18202DL2022PTC394947	आरएमजीपी इफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
113	AB3151360	U74999DL2016PTC308640	इनर्पिंगू इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
114	AB3153553	U51506DL2021PTC386059	एस्टेटिका वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
115	AB3160202	U20290DL2009PTC194213	जी. एस. बुडवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
116	AB3161549	U21012DL2010PTC209386	सूर्या किरण फोटो पेपर प्राइवेट लिमिटेड
117	AB3163566	U74900DL2011PTC226261	पीवीआरएस इफ्रा माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
118	AB3167014	U13203DL2006PTC156994	मयूर इंडस्ट्रियल टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
119	AB3168397	U63030DL2016PTC309315	कासाना गोल्डन प्राइवेट लिमिटेड
120	AB3180711	U86909DL2023PTC412348	सुद्धा सत्त्व प्राइवेट लिमिटेड
121	AB3181576	U74999DL2018OPC343447	ऐडफ्रेड्ज एंटरप्रेन्योर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
122	AB3186857	U74999DL2017PTC324574	सोल्विनफिनिटी प्राइवेट लिमिटेड
123	AB3189091	U74999DL2017PTC326999	फोर्सिन फार्माको प्राइवेट लिमिटेड
124	AB3190844	U31506DL2016PTC293040	बी. टी. एस. पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
125	AB3190923	U74899DL1995PTC072531	प्राइम प्रोटेक्शन प्राइवेट लिमिटेड
126	AB3191940	U74999DL2018PTC335168	उमादेव प्राइवेट लिमिटेड
127	AB3194431	U93010DL2017PTC323824	सतारा सिक्योरिटी सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
128	AB3195605	U72300DL2007PTC158075	दुर्गाषा आईटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
129	AB3196258	U24100DL2013PTC249375	यूबी वॉटर एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड
130	AB3196799	U70200DL2013PTC247207	यूएफडब्ल्यू इफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
131	AB3197360	U72200DL2007PTC157224	डीएसआइकंदर आईटी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
132	AB3198853	U72900DL2019PTC348240	दुद्रा इंफो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
133	AB3198874	U21099DL2022PTC396982	चित्रन द मल्होत्रा इनव्हेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
134	AB3199094	U72900DL1996PTC076751	जियो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
135	AB3199732	U24299DL2021PTC389123	धिति बायोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
136	AB3201067	U29309DL2017OPC323513	सुब्रण टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
137	AB3205468	U45400DL2007PTC168289	माक डी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
138	AB3206585	U72200DL2021PTC385357	हनुमान इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
139	AB3211578	U82990DL2023PTC411171	डेक्सटर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
140	AB3212162	U51909DL2008PTC185438	वीनीस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
141	AB3213578	U51109DL2010PTC199911	बांगौर एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
142	AB3214990	U74899DL1994PTC060167	गगन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
143	AB3216853	U92132DL1999PTC102872	न्यू मीडिया प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
144	AB3219803	U74999DL2022PTC398993	3R इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
145	AB3220179	U55101DL2011PTC221616	सुखद हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
146	AB3221025	U51109DL2008PTC184009	राघनी फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
147	AB3227361	U74899DL1993PTC054828	जीवन रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
148	AB3229744	U72900DL2016PTC307148	रीकॉन ऐप मैजिक प्राइवेट लिमिटेड
149	AB3243985	U45102DL2024PTC435204	एस.वी.ए लॉरीज़ व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड
150	AB3245350	U72900DL2013PTC247992	ऑरंगुट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
151	AB3247726	U27201DL2023PTC416556	ऑफग्रीड एनर्जी लैब्स मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
152	AB3248177	U52300DL2017PTC326385	बेबेभू ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
153	AB3249478	U22200DL1996PTC078707	सर्कल्ससर्कल्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
154	AB3265630	U22120DL2019PTC350516	एएनएफसी प्राइवेट लिमिटेड
155	AB3266296	U24290DL2021PTC385915	एएचवी रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड
156	AB3267957	U72900DL2020PTC372301	लूपर एआई सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
157	AB3268778	U72900DL2019PTC352964	आर2डी2 टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
158	AB3270068	U52100DL2013PTC259196	स्टर्नमेड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
159	AB3278406	U51101DL2007PTC157906	नायसा एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
160	AB3281039	U37200DL2023PTC409305	पीजी रीसायक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
161	AB3285304	U51391DL2022PTC404739	मायसा क्योर ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
162	AB3294953	U62099DL2023PTC414229	टुईननोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
163	AB3300088	U85121DL2006PTC153710	फ्रेंड्स ब्यूटी क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड
164	AB3306856	U74999DL2022PTC407684	टैलेंटलागून स्टाफिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
165	AB3310973	U55110DL1990PLC042119	आर्यावत होटल्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड
166	AB3317229	U70102DL2015PTC288486	पुष्पांजलि फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/561—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2992823	U45500GA2017PTC013214	रितु इंफ्रा प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2998478	U51909GA1993PTC001429	साल्डन्हा ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3068056	U85110GA1992PTC001270	विद्युत डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3103196	U15139GA1985PTC000609	वैक-पैक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/562—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के

अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2700915	U68200GJ2023PTC140235	स्प्लीफो इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2843021	U17299GJ2022PTC129915	नियोटेक्स वीन्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2855793	U85300GJ2022PTC135475	न्यूयू एनलाइटेड हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2891668	U18202GJ2010PTC062651	दिवित वीवटेक प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2927638	U29100GJ2011PTC066990	सैट इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2950283	U65999GJ2022PTC128792	अद्यांत इन्वेस्टमेंट्स एंड होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2953845	U29199GJ2006PTC048384	श्री वरदा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2959100	U74999GJ2017PTC095249	अनीशा फिनकैप कंसल्टेंट्स (आईएफएससी) प्राइवेट लिमिटेड
9	AB3006594	U46521GJ2025PTC157577	अलपन यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3023073	U90004GJ2023PTC139053	राइटअप प्राइवेट लिमिटेड
11	AB3027859	U72200GJ2022PTC137145	क्लबसेस टेक प्राइवेट लिमिटेड
12	AB3033297	U40106GJ2013PTC073783	यूनिकॉर्न सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
13	AB3034168	U45201GJ2008PLC054381	अवेचर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
14	AB3039310	U40106GJ2021PTC119635	ब्लेंडआर्थ एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
15	AB3039580	U51909GJ2000PTC038775	बाबुल एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
16	AB3044865	U15490GJ2021PTC125972	प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3050641	U51909GJ2021PTC126586	संगिनिको एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3053579	U64990GJ2023PTC143985	टोरस ग्लोबल फाइनेंस आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3061849	U23939GJ2023PLC145342	स्माल्टो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
20	AB3065517	U74999GJ2017PTC096392	येसटुबेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3082462	U25209GJ1996PTC028626	शक्ति पॉलीप्लास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3092593	U51909GJ2018PTC102254	शिवालिक बिजकॉम प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3097652	U72900GJ2022PTC128935	इंटेल्ली बाइट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3098555	U45200GJ1998PTC034360	पारेख इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3106207	U51506GJ2012PTC071295	एक्वल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3111905	U80902GJ2021PTC122518	आईटीएलएम प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3117066	U40106GJ2018PTC102844	मुरु पावर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3117488	U51909GJ2023PTC138000	पी एन एस सर्विस डायनेमिक प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3119379	U66190GJ2023PTC140548	जे एक्लेरा ट्रेडेक्सो प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3119902	U36109GJ2020PTC115615	ए एस के फर्निशिंग प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
31	AB3119959	U29100GJ2012PTC069737	कृष्णा ऑक्सीलियरीज प्राइवेट लिमिटेड
32	AB3121790	U74999GJ2020PTC114723	एएए सेराक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
33	AB3121934	U17299GJ2020PTC114983	एथिकस सिंजी प्राइवेट लिमिटेड
34	AB3122210	U01100GJ2020PTC117571	लखतर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
35	AB3122456	U72900GJ2021PTC126230	क्लाउडरन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3122607	U01100GJ2021PTC119710	वी केयर अमरेली फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
37	AB3122661	U23200GJ2021PTC120178	एग्रोएक्रेस क्लीनफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
38	AB3125356	U62099GJ2020PTC113583	मिलसेंट जनसेवा प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3125895	U01119GJ1994PTC023740	साहकोटी एग्रो फॉरेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
40	AB3126121	U24304GJ2021PTC123349	ऑस्पिरॉन लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड
41	AB3126454	U45201GJ1993PTC019979	प्रगति बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
42	AB3128168	U45201GJ2009PTC057357	श्री इंफ्रा सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
43	AB3128924	U45402GJ2021PTC127801	कल्पतरु ड्रीम्स हाउस प्राइवेट लिमिटेड
44	AB3129061	U64200GJ2022PTC137431	वैदिक इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड
45	AB3129561	U65923GJ2015PTC083124	हर्षिदा कॉमट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
46	AB3131390	U51909GJ2019PTC109646	वोल्टोवो ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड
47	AB3131689	U56291GJ2023PLC139888	बॉम्बे सुपर हेल्दी लिमिटेड
48	AB3131822	U40300GJ2008PLC053968	अबेलोन पावर लिमिटेड
49	AB3133660	U53200GJ2024PTC148314	विनिवा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
50	AB3134362	U01100GJ2021PTC120088	मोरेग्री सीड्स प्राइवेट लिमिटेड
51	AB3135499	U10616GJ2023PTC142714	अत्रिपत्रा न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड
52	AB3147534	U74900GJ2009PTC057051	नीतिषा मेडिकल इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
53	AB3151958	U22203GJ2023PTC144835	एस्कार्ड बायोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
54	AB3152443	U41000GJ2024PTC152766	सिलाज प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
55	AB3152469	U72200GJ2022PTC128820	इनोवाजिव सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
56	AB3159240	U72900GJ2020PTC117180	फॉरअचेंज प्राइवेट लिमिटेड
57	AB3163928	U67190GJ2013PTC076798	आर. के. फॉरेन एक्सचेंजर प्राइवेट लिमिटेड
58	AB3168978	U29253GJ2013PTC076248	इन्फिनिटी लिफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
59	AB3173725	U27109GJ2011PTC064198	अलकॉर्प मेटल्स और ठूल्स प्राइवेट लिमिटेड
60	AB3181960	U74999GJ2019PTC111574	5डीपाटर्स प्राइवेट लिमिटेड
61	AB3193820	U65990GJ2021PTC119943	डीडीआर फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
62	AB3215221	U17021GJ2023PTC141864	इम्प्रेसिव प्रिंटपैक प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
63	AB3231147	U74999GJ2017PTC096549	एक्सप्रेस लैबोरेट्रीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
64	AB3233967	U15549GJ2019PTC109862	फ्यूजन फूडटेक प्राइवेट लिमिटेड
65	AB3235445	U55101GJ1981PLC004637	शालिन होटेल्स लिमिटेड
66	AB3289985	U72900GJ2019PTC109731	माइमॉ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
67	AB3293582	U72900GJ2019PTC110457	बेटरमी एआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
68	AB3295166	U72300GJ2021PTC126151	ब्लूमकॉन प्राइवेट लिमिटेड
69	AB3298396	U74999GJ2020PTC118858	ग्रीन बुक अकाउंटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/563—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2815661	U72200HR2020PTC086695	वीरा वन प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2840478	U65992HR1991PTC031353	हितैषी चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2940267	U31909HR2021PTC098534	एसकेपी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2960253	U22300HR2021PTC093362	टीएमबी ग्लोबल मीडिया वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2966063	U72300HR2013PTC051260	इफेक्टुअल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2986132	U74999HR2018PTC077279	कलर क्रो प्राइवेट लिमिटेड
7	AB3008476	U72900HR2017PTC070153	आहॉस्टाफ प्राइवेट लिमिटेड
8	AB3017945	U24230HR2020PTC088030	प्यूरिकेम फार्मास्युटिकल प्राइवेट लिमिटेड
9	AB3065131	U06101HR2023PTC114659	नलिनिकांत एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3070928	U51100HR2018PTC072134	मार्सटियन कंसल्टेंसी गोल्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB3083652	U93090HR2018PTC074227	प्रोटेक्ससुम सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AB3084643	U72900HR2023PTC109294	यूबीजेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB3088153	U18109HR2021PTC094189	वेफ्टलिन प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
14	AB3094288	U74999HR2019PTC084275	ग्रांडे मन्ज़ाना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	AB3103874	U20234HR2024PTC117827	मैकास्ट्रो वेदिस्ट भागवत प्राइवेट लिमिटेड
16	AB3106074	U51391HR2012PTC047935	जीएलबी पारफ्यूम्स एंड ब्यूटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3110849	U74999HR2018OPC073197	गोरेस रिटेल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3116044	U74999HR2020PTC086130	चाणक्य इवेंट्स एंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3119376	U51909HR2019PTC083616	संकश वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3121328	U85100HR2018PTC076040	केएनपी ग्लोबल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3121588	U24290HR2021PTC095883	वेरीटास रेजिन्स एंड प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3123865	U24120HR2021PTC094221	जवाया एग्रो प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3126656	U74994HR2020PTC087021	बेल्लिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3128748	U93090HR2019PTC084438	एमडीए मैनपावर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3129846	U74999HR2021PTC097319	रिफ्रैसिस्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3129869	U72900HR2022PTC107401	क्रेस्ट न्यूएज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3131067	U68100HR2023PTC115700	फ्रीसिया टाउनप्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3131807	U66190HR2023PTC116367	वाय वाय फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3132066	U37200HR2019PTC081385	इको प्लैनेट वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3167402	U65999HR2022PLN105688	पुलस्त्यधन निधि लिमिटेड
31	AB3181522	U93090HR2019PTC081140	एवीक इनोवेट प्राइवेट लिमिटेड
32	AB3192178	U15490HR2021PTC096609	तारिणी ओवन डिलिकेसीज प्राइवेट लिमिटेड
33	AB3196456	U52100HR2015PTC056289	विजय राज बिटुमेन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
34	AB3200192	U11100HR2014PTC051566	गोवर्धनधाम फिलिंग्स स्टेशन प्राइवेट लिमिटेड
35	AB3209147	U15115HR2016PTC064905	कल्याण एफ एंड बी प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3219889	U46909HR2024PTC119796	विमल मार्बल हाउस प्राइवेट लिमिटेड
37	AB3221066	U93090HR2018PTC077098	इनोवाजिया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
38	AB3222231	U72900HR2023PTC109081	इंटेलेविजन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3224724	U24290HR2021PTC096055	जेनोस्टार लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
40	AB3227873	U62013HR2021PTC094467	जिबाटेक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
41	AB3244638	U26515HR2023PTC116726	सैनिकियन अनमांड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
42	AB3252406	U42909HR2023PTC115493	एनएमटीपीएल-एसटीएसआईपीएल जॉइंट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड
43	AB3262353	U74999HR2021PTC099216	क्यूटा प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/564—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2928288	U17299HP2021PTC008652	हिमालयन हैम्प टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3055918	U26942HP1983PTC005661	सिरमुर एलीड और सीमेंट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3303358	U40101HP2013PTC000337	वैषाली हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल

सहायक रजिस्ट्रार

सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/565—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB3071411	U47912JK2024PTC015472	स्नो वैली ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3095471	U28999JK2022PTC013740	केनस्ट फॉर्मवर्क प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3135840	U58203JK2023PTC014356	बार्डिफाई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3169695	U72900JK2016PTC009817	कववेब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल

सहायक रजिस्ट्रार

सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/566—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB3033231	U85300JH2021PTC015901	आरजेआई हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3047048	U52599JH2022PTC018017	कॉमरेड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3070267	U80904JH2013PTC001008	क्लोविस हायर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3072288	U80902JH2013PTC001010	अमास टेक्नो एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
5	AB3072351	U80301JH2013PTC001015	समा इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नो एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
6	AB3123000	U74102JH2023PTC020884	बर्गेस्टेना फ्लोरिंग प्राइवेट लिमिटेड
7	AB3129910	U50100JH2022PTC018960	न्यूज़ोन रिसायक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड
8	AB3132568	U22300JH2022PTC018267	बोकारो टुडे प्राइवेट लिमिटेड
9	AB3159507	U58191JH2024PTC022600	कैपिटलX योगेन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/567—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2833320	U72900KA2019FTC122275	सर्टिस एपीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
2	AB2836299	U85110KA1965PLC001563	रुक्मणी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड
3	AB2847868	U51909KA2020PTC134853	श्रीमद ट्रेडिंग सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2895647	U36939KA2019PTC121076	स्लॉगर स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2910351	U72900KA2011PTC061821	कैलिस्ट्रो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2921368	U72900KA2016PTC097002	कोरसिग्मा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2924008	U74999KA2018OPC114183	एस्सेकेन माइक्रोकंट्रोलर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2924963	U85110KA1999PTC024794	एसआरआईटी एंटरप्राइज़ सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2942257	U74999KA2016PTC098005	टेक-नैलियंट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2943478	U74900KA2016PTC085229	हैप्पीहेल्दीमी ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2945000	U01400KA2012PTC065409	लेगसी ग्लोबल एग्री प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2945118	U72300KA2012PTC065205	लेगसी ग्लोबल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2953200	U80904KA2019PTC127078	फोविरा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2955780	U74999KA2020PTC135226	विप्रा हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2961126	U63090KA2019PTC124148	फास्टफॉरवर्ड मोबिलिटी टेक प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2966333	U15541KA2021OPC146670	करचिकाई किचन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2969081	U74999KA2018PTC116113	ऑगप्लैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2969558	U74999KA2020PTC137924	टेज़र टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2987576	U66190KA2023PTC171735	निस्ताक्या ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2988843	U15410KA2012PTC062192	उषोदय फूड एंड कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2989698	U45400KA2021PTC150633	सरस्वती पुत्रा इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2994150	U68200KA2023PLC176978	वीएसएफ एस्टेट्स लिमिटेड
23	AB3013518	U74999KA2017PTC108744	विस्कनेट टेक्नोसॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3021310	U72900KA2021PTC150214	फायरपाथ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3022361	U66309KA2023PTC177785	एलीटकैप वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3024100	U72900KA2019PTC123833	डेनज़िप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3024671	U15490KA2022PTC165020	क्रिस्पी वे प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3027448	U15530KA2015PTC082868	सैवसन्स स्पिरिट्स प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3029428	U24290KA2022PTC156409	पाटिल एग्रो रिफाइनरीज़ प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3029968	U80902KA2022PTC159179	गेन2एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3035820	U34100KA2021PTC149792	नैवियर-स्टोक्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
32	AB3047165	U82300KA2023PTC174192	हैप्पी हिसलर्स इवेंट प्लानर्स और ऑर्गनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
33	AB3052224	U74999KA2021PTC144041	अवाकासा कंसल्टिंग सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
34	AB3056704	U74999KA2018PTC115795	टील डोर डिज़ाईंस प्राइवेट लिमिटेड
35	AB3059238	U72200KA2007PTC043040	श्रीट हेल्थकेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3064089	U93000KA2019PTC124672	डिजीटलव प्राइवेट लिमिटेड
37	AB3065106	U72900KA2019PTC139212	मियोटिडा प्राइवेट लिमिटेड
38	AB3065564	U74101KA2024PTC184474	रेनबर्ग प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3067090	U45309KA2021OPC144720	क्ले कुब्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
40	AB3073651	U01100KA2019PTC125793	फार्मजेनस प्राइवेट लिमिटेड
41	AB3074314	U74900KA2016PTC086801	रिसोर्सेस करियर पोर्टल प्राइवेट लिमिटेड
42	AB3082895	U74999KA2019PTC119984	रॉयक्राउन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
43	AB3083975	U29253KA2011PTC059239	आल टेरेन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
44	AB3088152	U85300KA2022PTC167646	एलविरा बर्नेस मेंटल कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड
45	AB3088439	U72900KA2018PTC113237	सिक्वोरलीशेयर रिसर्च और डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
46	AB3097367	U31907KA1996PTC019609	नवनिधि इलेक्ट्रो-इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड
47	AB3100622	U72900KA2021PTC144713	नान मूनस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
48	AB3102302	U74999KA2018PTC109994	कोरलाटोल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
49	AB3105785	U52602KA2018PTC114696	क्लेवेंसकी रिसेलर और सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
50	AB3106532	U52520KA2020PTC135970	स्मार्ट किराना कार्टर्ज प्राइवेट लिमिटेड
51	AB3109007	U39000KA2024PTC185037	ग्रीनआर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
52	AB3109103	U52609KA2018PTC114775	लैवेंटिक रिसेलर और सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
53	AB3111266	U74999KA2017PTC101752	ग्रीनहाउस इंटरनेशनल ग्री-स्कूल्स प्राइवेट लिमिटेड
54	AB3111348	U72900KA2020PTC139765	मुद्रार्थ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
55	AB3113964	U74999KA2021OPC144649	व्यसमैन बिजनेस एडवाइजर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
56	AB3115554	U15400KA2016FTC095060	जॉय-ऑफ-लाइफ न्यूट्रिशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
57	AB3116310	U72200KA2007PTC042102	दीक्षित सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
58	AB3116591	U15100KA2020PTC135784	श्री दयालाहरी फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
59	AB3117290	U85110KA1991PLC012643	अतुल्य फाइनेंस लिमिटेड
60	AB3118731	U74999KA2015PTC083216	चीता डिलीवरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
61	AB3120039	U74999KA2018PTC110912	कंपिडो कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
62	AB3120920	U45100KA2019PTC127590	रीपोलिस कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
63	AB3121593	U72900KA2019PTC129751	वैकसो केयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
64	AB3122498	U93000KA2013PTC068825	अप्रांजे कम्युनिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
65	AB3122782	U55209KA2022OPC167776	ऑडू गुडू होटल एंड कन्वेंशन पार्क (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
66	AB3123577	U27320KA2009PTC051704	कमल आयरन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
67	AB3124387	U68200KA2023PTC173597	जेएमसीसी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
68	AB3124479	U45102KA2017PTC101569	फेसिटेक लिविंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
69	AB3125125	U74999KA2018OPC113819	एमपीजे बिग हैट सॉल्यूशन्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
70	AB3125893	U65999KA2017PTC104198	पीडब्ल्यूजे कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
71	AB3126060	U45309KA2022OPC163525	वालप्रोक्स इंडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
72	AB3126980	U72200KA2015PTC080607	टेक्नोलियम सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
73	AB3127106	U92419KA2018PTC110740	गोल्डन स्ट्राइड्स स्पोर्ट्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
74	AB3127694	U74999KA2018PTC112374	स्टारविस्टा सेलेब्रिटीज प्राइवेट लिमिटेड
75	AB3128233	U74999KA2017PTC107345	श्री वासवी रिसायक्लर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
76	AB3130753	U52100KA2023OPC170233	पेंटिंग डियर डेकोर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
77	AB3130863	U45200KA2021PTC153614	आरसीईई एंगिसर्व प्राइवेट लिमिटेड
78	AB3130877	U85110KA1995PTC017820	केन कंप्यूटेक प्राइवेट लिमिटेड
79	AB3130908	U01122KA1998PTC024059	सन-एस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
80	AB3131160	U74140KA2000PTC027991	केन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
81	AB3131447	U24299KA2021PTC146063	पेलेमिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
82	AB3133629	U35999KA2021PTC149095	ई3-विभव प्राइवेट लिमिटेड
83	AB3140379	U62099KA2023PTC172748	शेलन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
84	AB3142037	U10719KA2023PTC175309	मफेट्स एंड टफेट्स बेक हाउस प्राइवेट लिमिटेड
85	AB3146251	U73200KA2022PTC162549	त्रियाह वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
86	AB3150420	U74140KA2001PTC169834	सप्लाई चैन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
87	AB3152068	U56210KA2023PTC179224	गोवो इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
88	AB3155279	U74999KA2019PTC120672	हिडोस फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
89	AB3156083	U70200KA2024OPC186024	शुभ एविग्रा एडवाइजरी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
90	AB3157301	U72501KA1994PTC015187	हर्शेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
91	AB3159222	U74110KA2012PTC065194	ऑक्स-नरीच प्राइवेट लिमिटेड
92	AB3176105	U74999KA2019PTC130436	स्मोरानिका केयर प्राइवेट लिमिटेड
93	AB3178607	U62013KA2024PTC184475	ईपीआई एवरीडे कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
94	AB3179937	U70109KA2021PTC148477	एसजीपीएल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
95	AB3180549	U80211KA2016PTC086637	सेंटो ड्रीम एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
96	AB3181422	U72900KA2020PTC137333	अल्पयूस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
97	AB3185564	U51311KA2019PTC127055	एन. आर. टेक्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
98	AB3206024	U31901KA2009PTC050976	इलेक्ट्रो कंट्रोलस सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
99	AB3207931	U74110KA2017PTC106851	फ्रेशमार्ट एक्सक्लूसिव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
100	AB3208614	U72900KA2022PTC167872	एलिजिबलई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
101	AB3218262	U26990KA2022PTC165913	एम. वी. ग्रेनीट्स प्राइवेट लिमिटेड
102	AB3219881	U72900KA2010PTC055317	बिजडम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
103	AB3224695	U72900KA2018PTC112467	सिमक्लिक टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
104	AB3226067	U80904KA2017PTC103511	सायन अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
105	AB3227932	U17299KA2022PTC158038	लेबल तोरा प्राइवेट लिमिटेड
106	AB3228978	U20239KA2023OPC174014	पफॉरा (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
107	AB3245683	U74900KA2013PTC067512	टैगोस डिज़ाइन इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
108	AB3247537	U01100KA2020PTC141498	कृषिजेनिक साइंस प्राइवेट लिमिटेड
109	AB3255156	U83030KA1995PTC017083	कृष्णकॉम्पस कंप्यूटर प्वाइंट अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
110	AB3256037	U85300KA2020PTC142473	टूइन्फो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
111	AB3257722	U74140KA2004PTC033635	सिनेप्स इंडिया मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
112	AB3270174	U02922KA1988PTC009656	स्कोरा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
113	AB3271420	U85101KA2024PTC186224	ग्रोकुल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
114	AB3293131	U74120KA1985PTC081766	रिसोर्स मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
115	AB3294274	U70109KA2017PTC105615	शैवी रियल्टी एंड एलाईड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
116	AB3298529	U45200KA2018PTC117402	आदि सहायथी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/568—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2823166	U92100KL2015PTC038743	मैडजीनियस प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2886149	U51909KL2021PTC069498	ब्लूरेडियंट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2924268	U92490KL2018PTC053026	सारंग इंटीग्रेटेड प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2939521	U74999KL2020PTC066258	मैग्ना सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2946917	U74999KL2018OPC055253	पीएलएम पज़ल्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2954368	U26990KL2008PTC022603	सनराइज़ लुब्रिकेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2969236	U74999KL2019PTC056533	ज़ाइट लाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2970657	U52399KL2013PTC035500	बी-ट्रैक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2972121	U72200KL2001PTC014531	जेमटेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3016622	U34300KL2017PTC047906	हाईवे व्हीकल इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
11	AB3046550	U72900KL2017OPC051138	एफिशियंटकोडर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
12	AB3048731	U15511KL1970PLC002300	जैकब्स लिमिटेड
13	AB3085316	U65190KL2022PTC077767	थोत्तथिलफाइन चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB3099269	U59110KL2024PTC089607	टू पलैट्स फिल्मस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	AB3103560	U01100KL2018PTC055275	जेरियो मेडफार्म प्राइवेट लिमिटेड
16	AB3109492	U51909KL2021PTC071521	सोसिओस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3120388	U28939KL2007PTC020494	सुप्रीम पावरटेक प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3121801	U65992KL1999PTC013380	मैनपावर क्यूरिज प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3135510	U72900KL2019PTC059802	ज्यूललीप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3203491	U74993KL2018PTC052275	इज़वान टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3231087	U65910KL2015PLC039477	कंफिडो निधि लिमिटेड
22	AB3243639	U69100KL2022PTC077695	इंविज फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3283884	U46309KL2024PTC090460	मेलप्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3299778	U74140KL2015OPC038546	कंफिडो कॉर्पोरेट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
25	AB3308947	U72200KL2021PTC071136	सीमलेज़िट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/569—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2935452	U72502MP2022PTC059264	अजयोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3001400	U50400MP2022PTC059777	दुआरनाथ प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3016717	U51909MP2022PTC061762	सैसयोगी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3041642	U74110MP2007PTC019561	एसएलएन लॉकॉन् प्राइवेट लिमिटेड
5	AB3055782	U25209MP1989PTC005005	मैटसन अक्मेप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
6	AB3070616	U15400MP2011PTC025489	जाजू फूड प्राइवेट लिमिटेड
7	AB3083791	U74994MP2018PTC045399	तेजस रावल एजुचेक प्राइवेट लिमिटेड
8	AB3091587	U72900MP2022PTC061861	मेयोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
9	AB3096026	U74900MP2016PTC035330	अल्ट्रोटेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3117630	U35999MP2021PTC057869	ऑटोविन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB3119693	U27320MP1997PTC011913	संवालका सिक्योरिटीज एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
12	AB3120726	U24233MP1988PTC004431	ताइयेबी यूनानी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB3124083	U01403MP2016OPC035480	वैओटेक सर्विस एंड सॉल्यूशन्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
14	AB3124310	U93000MP2021PTC057703	मा मन्दाकिनी सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
15	AB3128144	U45203MP1992PTC007371	ऋषि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड
16	AB3130553	U66190MP2023PTC064973	राइट ईएमआई फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3134743	U01403MP2015PTC034256	रागा एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3148400	U74994MP2018PTC047330	शॉर्वेक लाइफस्टाइल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3159866	U52219MP2023PTC067550	भूदारा क्वालिटी फ्यूल्स और लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3161867	U52590MP2020PTC051330	एसएमजैन फार्म फ्रेश इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3165817	U45309MP2019PTC048896	काशीराम इलेक्ट्रिकल्स और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3206575	U72900MP2022PTC061364	वेउर्जा360 इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3226210	U85190MP2021PTC057426	मेट योर पेट्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/570—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2796944	U72900MH2021PTC365241	राइट कोर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2847945	U45201MH2022PTC386656	टॉस्को वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2854469	U70109MH2013PTC248748	जेसीजी कंसल्टिंग एंड इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2869875	U93090MH2010PTC199915	पीआई ग्लोबल - ब्रांड आईडी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2875482	U24302MH2022PTC376376	एस.ए. फार्माकिम (एनिमल हेल्थ) प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2881548	U74110MH2020PLC340875	प्राइमजिक इंटरनेशनल लिमिटेड
7	AB2891421	U56102MH2024PTC418615	जाफरान बिरयानी प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2903617	U74120MH2016PTC273409	एएचजी लॉन्ड्री सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2928732	U70100MH2012PTC227142	डब्ल्यूएमपी बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2932917	U46901MH2024PTC428565	पॉलीग्लाइट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2937944	U74999MH2013PTC246921	जैस सिक्योरिटी फोर्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2940909	U74999MH2016PTC284311	स्टनरी ब्यूटी लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2955363	U74900MH2011PTC221431	कावाची लाइफस्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2956989	U70102MH2010PTC208788	ब्राइटर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2960600	U85195MH2004PTC144058	टोटल टी3टी4टीएस डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2968687	U15134MH2018PTC341569	क्वेंचर्स बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2971558	U51109MH2010PTC204263	स्टालवार्ट मर्चेन्डाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2972358	U74909MH2023OPC413903	सावी7 कंसल्टिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2974231	U74999MH2023OPC396888	तीर्थगमन ऑनलाइन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2975003	U55209MH2019PTC319118	पीएमडब्ल्यूएस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
21	AB2975374	U55101MH2021PTC367205	पिकेडल इन प्राइवेट लिमिटेड
22	AB2975704	U55209MH2019PTC325173	मेहता हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
23	AB2979578	U63090MH2015PTC264214	ट्रैवलाइट ट्रैवल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
24	AB2985298	U74910MH2019PTC328637	एथ्नोलॉजिक एचआर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
25	AB2988072	U25209MH2021PTC368293	सनराज पॉलीपैक प्राइवेट लिमिटेड
26	AB2997247	U74999MH2018PTC304558	टैनोआक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
27	AB2999723	U92100MH2018PTC309681	माइग्रांट फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3001744	U99999MH2005PTC158559	ड्रीम निट्स इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3002242	U74120MH2012PTC232441	लायन ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग प्रा. लि.
30	AB3003278	U92412MH2010PTC209519	अमेडियस एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3004228	U31904MH2022PTC379843	फायरबोल्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
32	AB3006809	U72900MH2020PTC350391	ग्रोथफिनिटी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
33	AB3013120	U85100MH2022OPC388143	हेमंत बाघ (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
34	AB3017706	U67120MH1983PTC029565	एएमसीओ होलिंग्स प्रा. लि.
35	AB3018235	U74999MH2011PTC215043	एड इन्फिनिटम मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3021129	U73100MH2021PTC369637	वैलिमेट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
37	AB3021350	U74999MH2018PTC311618	जंदावाई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
38	AB3023848	U52599MH2020PTC426136	ट्रिलियन इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3032570	U74210MH2008PTC188689	स्वेन्स्का इन्फ्रा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
40	AB3033613	U74900MH2014PTC254994	मनोज बाजपेयी प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
41	AB3034664	U45400MH2022OPC383750	वज्रेश्वर एंटरप्राइजेज और मल्टी सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
42	AB3035117	U80221MH2004PTC192692	ब्रेन्समिथ्स एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
43	AB3039894	U74999MH2019PTC321746	हेक्सा हेल्थ डिमेंशंस प्राइवेट लिमिटेड
44	AB3045354	U67110MH2020PTC347508	एक्सोल्यूट एडवांटेज अल्फा प्राइवेट लिमिटेड
45	AB3045965	U70102MH2012PTC235180	सनाहिंद रियल्टी और इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
46	AB3048579	U74120MH2014FTC259268	द साउंड ब्रांड कंसल्टिंग और स्ट्रैटेजिक रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
47	AB3049331	U74999MH2014PTC255430	मैडिटूड फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
48	AB3049842	U70109MH2022PTC393565	विवहार लैंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
49	AB3049874	U72200MH2021PTC372547	ईकार्ड फ्यूजन प्राइवेट लिमिटेड
50	AB3050509	U17299MH2007PTC166678	रिखाब टेक्स क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड
51	AB3057254	U28910MH2015PTC264099	एंड्रोर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
52	AB3060212	U35999MH2022PTC394565	तोमार सिंह चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
53	AB3060374	U63090MH2014PTC257944	मुसाफिरस मोटरसाइकिल टूर प्राइवेट लिमिटेड
54	AB3060921	U51909MH2020PTC339123	रिमेडियो फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
55	AB3066662	U74900MH2014PLC260524	एक्सेले इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
56	AB3066982	U74999MH2019PTC322619	वासुप्रदा सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
57	AB3074229	U64990MH2023PTC406468	भारत हाउजिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
58	AB3075540	U51100MH2020PTC339126	क्वोरमेड लाइफसाइंसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
59	AB3076761	U52390MH2022OPC377025	एवोस एंटरप्राइज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
60	AB3081388	U74999MH2022PTC377433	बंबुडी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
61	AB3084530	U74999MH2018PTC316783	लेनिसा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
62	AB3089064	U74210MH2004PTC145624	एरिक स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड
63	AB3089621	U51900MH1993PTC073182	उस्मानिया ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
64	AB3090359	U72900MH2003PTC140174	रेडीवेयर सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
65	AB3091428	U59111MH2023PTC411886	ओ.वाई.एस. प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
66	AB3091863	U45201MH2001PTC133990	जेमिनी कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड
67	AB3092002	U67120MH1996PTC103503	कॉपर होल्लिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
68	AB3092355	U99999MH2001PTC134189	ज्यूपिटर नेवेश प्राइवेट लिमिटेड
69	AB3092422	U45303MH2020PTC338858	अश्वइनफ्रा ग्लोबल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
70	AB3097039	U74900MH2020PTC350725	बेलवर्से प्राइवेट लिमिटेड
71	AB3097074	U80902MH2017PTC291265	एडप्रोसीस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
72	AB3097435	U74990MH2018PTC311398	यूनिवर्स पासेज वेफेरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
73	AB3097534	U35990MH2022PTC380994	ड्रोनआर्चर्य अवियोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
74	AB3101229	U59201MH2023PTC398747	तानादेरेना प्राइवेट लिमिटेड
75	AB3102195	U80300MH2021PTC370516	हाबी टर्टल प्राइवेट लिमिटेड
76	AB3102210	U74120MH2014PTC256705	थीमिस लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
77	AB3103312	U74130MH2020PTC342219	जेनिक न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड
78	AB3103852	U62013MH2024PTC419867	क्रिएटोलिक्स प्राइवेट लिमिटेड
79	AB3104764	U74999MH2020PTC338721	बुकमाईविजार्ड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
80	AB3105579	U63040MH1999PTC119978	रश्मिका ट्रैवल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
81	AB3105656	U99999MH1992PTC066592	सिन्टोफार्म (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
82	AB3105747	U46690MH2024PTC427405	नेक्सटेरा रिसाइक्लर्स प्राइवेट लिमिटेड
83	AB3106992	U72900MH2014PTC260308	क्रिस्पक सूचना प्रौद्योगिकियां प्राइवेट लिमिटेड
84	AB3107484	U72900MH1995PTC084832	मीडिया हाउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
85	AB3109087	U51507MH2018PTC307965	द्विती इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
86	AB3109172	U93000MH2007PTC169531	गैण्ट्री क्रेन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
87	AB3114205	U45203MH2008PTC178243	ओजस प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
88	AB3116836	U51101MH2015PTC271234	अनिश एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड
89	AB3118344	U15100MH2000PTC125840	गैलेकसी मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड
90	AB3118507	U46301MH2023PTC411551	एएमएलएस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
91	AB3118621	U90001MH2011PLC223662	एनवाइरप्रोटेक्ट वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड
92	AB3119049	U22130MH2008PTC187220	एन रूट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
93	AB3119051	U74999MH2018PTC312346	ब्लक्स बिज प्राइवेट लिमिटेड
94	AB3119109	U74999MH2013PTC250896	ब्रांड पर्सोना मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
95	AB3119157	U40109MH2020PTC336003	वायु रिन्यूएबल एनर्जी (एट्रंकुलम) प्राइवेट लिमिटेड
96	AB3119692	U72300MH2015PTC262085	एसबीजी आइडियाज प्राइवेट लिमिटेड
97	AB3120096	U24290MH2020PTC341439	द्विका औरस प्राइवेट लिमिटेड
98	AB3120354	U01639MH2023PTC402080	रुशब देव फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
99	AB3120485	U80300MH2022PTC375018	टैलेंटेडहिप्पो प्राइवेट लिमिटेड
100	AB3121221	U51909MH2019PTC334500	ऐस्ट्रोम एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड
101	AB3121264	U85300MH2021PTC373870	पांडेज अलर्ट मेडिकेयर प्राइवेट लिमिटेड
102	AB3121756	U74999MH2017PTC292928	यूनिवर्सल फ्यूमिपेस्ट प्राइवेट लिमिटेड
103	AB3121807	U74999MH2018PTC305389	ईविज वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
104	AB3122233	U74120MH2013PTC242829	ट्रबलमेकर्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
105	AB3122626	U74900MH2009PTC195300	विनकेयर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
106	AB3124308	U18109MH2022PTC382124	एमकेएसएच अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड
107	AB3124431	U31100MH2007PTC176456	कॉक्सफोस्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
108	AB3125781	U24304MH2020FTC337650	पर्सटॉप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
109	AB3126212	U74999MH2018PTC316986	बिज़एसआर एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
110	AB3126582	U62011MH2024FTC428637	आईकॉन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
111	AB3126619	U74999MH2017PTC300462	आरव्स पार्टी स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड
112	AB3127558	U45100MH2017PTC300590	सोलास्टर प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
113	AB3127723	U25190MH2013PTC241046	सिएरा सेफ्टी प्राइवेट लिमिटेड
114	AB3128033	U45400MH2008PTC182059	रॉयलफील रियल एस्टेट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड
115	AB3128189	U72900MH2021PTC357317	2K21 इन्फोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
116	AB3128459	U24299MH2021PTC354598	सीनोपेक्स कीटनाशक और उर्वरक प्राइवेट लिमिटेड
117	AB3128784	U59130MH2024PTC423742	एसएसपी विजन प्राइवेट लिमिटेड
118	AB3129198	U74999MH2020PTC350235	व्युग्मा टेक प्राइवेट लिमिटेड
119	AB3130086	U92490MH2022PTC385730	सीक्वेला स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
120	AB3130721	U74999MH2018PTC315205	अवलिया ब्रांड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
121	AB3130742	U40106MH2020PTC343916	सुलकल विंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
122	AB3131437	U72900MH2022PTC390928	यूसी इंफोलाइन प्राइवेट लिमिटेड
123	AB3131593	U24230MH2021PTC356147	3डी साइंटिफिक प्राइवेट लिमिटेड
124	AB3131865	U10102MH2021PTC361929	इण्डो एंग्लो माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
125	AB3131936	U40105MH2021PTC362685	वायू रिन्यूएबल एनर्जी (उत्कीरनकोट्टई) प्राइवेट लिमिटेड
126	AB3132093	U51100MH2004PTC150080	मधुरो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
127	AB3132207	U40108MH2022PTC394601	विवीड कंक्रीट फॉर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड
128	AB3132372	U40300MH2018PTC310104	येरमाला पावर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
129	AB3133476	U62099MH2023PTC410082	सिद्धांति टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
130	AB3134045	U74999MH2011PTC223162	शरणम ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
131	AB3134497	U70102MH2008PTC185236	गुडबाय रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
132	AB3135083	U74999MH2020PTC338257	करजा एए टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
133	AB3135096	U64200MH2019PTC326534	जोलीवर्ल्ड एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
134	AB3135185	U24239MH1997PTC106682	ट्रायम्फ केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
135	AB3136599	U68100MH2023PTC414694	क्रेडेंस स्पेसेस प्राइवेट लिमिटेड
136	AB3141229	U74900MH2014PTC255655	लियोकैप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
137	AB3141967	U51909MH1992PTC068231	रूपानंद ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
138	AB3142186	U46101MH2023PTC410516	हस्तिनाद एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
139	AB3146811	U92120MH2007PTC173875	राहुल ढोलकिया प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
140	AB3149939	U74999MH2018PTC310393	आर्टफिल्स प्राइवेट लिमिटेड
141	AB3154891	U85300MH2021OPC371717	डेंटसुर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
142	AB3155104	U29254MH2012PTC226090	संजीवण इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
143	AB3162969	U15490MH2021PTC366132	मालखरे फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
144	AB3163519	U46209MH2023PTC399317	कंटीनेंटल कोडर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
145	AB3166969	U60300MH2018PTC312426	ईस्ट कोस्ट कंसेशंस प्राइवेट लिमिटेड
146	AB3170059	U40200MH2022PTC384689	विष विंड एनर्जी (गोंडिपल्ली) प्राइवेट लिमिटेड
147	AB3173473	U52100MH2020PTC339031	भारतकुमार ट्रेडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
148	AB3176769	U15125MH2018PTC310590	टीजीडी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
149	AB3183267	U63000MH2019PTC326087	सैंकशेप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
150	AB3200783	U46497MH2024PTC424096	पाक्ष मैक्सहील फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
151	AB3203043	U74120MH2015PTC270387	सैब्रन बायोएंटी प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
152	AB3203112	U01403MH2013PTC242168	सन एग्री बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड
153	AB3204695	U72900MH2018PTC305026	विवेसीयस प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड
154	AB3205777	U67100MH2022PTC388936	प्रामेय और सानिका लाइवस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड
155	AB3228806	U29301MH2023PTC414811	इंडोरा ऑटो प्राइवेट लिमिटेड
156	AB3232244	U25209MH2021PTC357638	ओलियो ऑटोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
157	AB3238044	U55101MH2021PTC372632	रोटिकार्ट प्राइवेट लिमिटेड
158	AB3238871	U24100MH2022PTC380941	रियलफिल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
159	AB3241479	U52500MH2022PTC384551	पलप इन मैनुफैक्चरिंग और रिटेलिंग प्राइवेट लिमिटेड
160	AB3246940	U15137MH2022PTC382194	प्लेट्रमोस प्राइवेट लिमिटेड
161	AB3249528	U72900MH2021PTC361194	क्रिप्टोफी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
162	AB3253128	U70102MH2011PTC217812	वीपीबी होमस्टे प्राइवेट लिमिटेड
163	AB3253457	U70102MH2010PTC200874	रोप्रि एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
164	AB3272624	U90009MH2024OPC423592	बेकर्स जंक्शन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
165	AB3274505	U74999MH2013PTC250965	फ्लाइंग लायन इंटरनेशनल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
166	AB3275779	U61900MH2024PTC434456	एफएसओनेट नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
167	AB3276388	U74999MH2021PTC364512	गिगक्वेस्ट लोकल इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
168	AB3284833	U73100MH2025PTC440472	जू मीडिया मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
169	AB3287270	U55204MH2000PTC124453	न्यू एक्सलिसियर कैटरर्स प्राइवेट लिमिटेड
170	AB3298829	U73100MH2023PTC401461	एनएक्सटी मोबी डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
171	AB3299413	U85190MH2018PTC313583	एसटी फिटनेस अकादमी प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/571—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2810161	U74103PN2023OPC223484	ग्राफिकाना (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2825735	U51502PN2015PTC157498	एपल कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2891930	U74999PN2019PTC181970	बिज़लिंक कंसल्टेंसी सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2894052	U28195PN2023PTC223768	आरडीआई आयोनाइज़र प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2901445	U74210PN2007PTC130843	यूनिटेक मेटलस्टैम्पिंग टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2936237	U70200PN2024PTC229639	फेरेटा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2937717	U62099PN2023PTC224780	सिस्टमहार्टबिट प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2938231	U74999PN2016OPC166398	हृदय सिने क्राफ्ट्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2952887	U63090PN2011PTC139299	एफटीसी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2964622	U80902PN2020PTC189534	समता एजुकेशनल सपोर्ट नेटवर्किंग प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2983451	U72900PN2021PTC197472	एस्ट्रानोवा टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2985635	U93090PN2021PTC199377	भाग्यदेखो प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2986775	U20211PN2023PTC220771	मेल्लर स्पेशलिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2997407	U74999PN2018OPC174139	सैटिसामो डिजिटल सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2999634	U46901PN2024PTC233068	प्योर दूथ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
16	AB3000891	U29130PN2009PTC134872	एपेक्स डायनेमिक्स ट्रांसमिशन कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3019471	U72900PN2015PTC153856	सोदात्सु कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3027486	U74900PN2013PTC148510	इंटेलिजेंज़ इनोवेशन ब्रेकथ्रूज़ प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3056026	U93000PN2009PTC133493	बॉटम ऑफ पिरामिड एनर्जी और एनवायरनमेंटल इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3066795	U52609PN2019PTC184089	फार्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3073269	U51909PN2022FTC213373	बेंटेलर ट्रेडिंग इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3087916	U74999PN2019PTC184616	गो 153 टेक्नोवैटर्स प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3093503	U24299PN2019FTC184325	सल्लो टेक प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3097122	U85499PN2024PTC230224	बैगुरु एजुचेक प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3103766	U74900PN2008PTC131773	मेटलआर्ट टेक्नोलॉजीज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3104128	U85110PN2021PTC198703	ताराडोक प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3104719	U72200PN2017PTC171022	अम्रता टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3105940	U01100PN2022OPC208546	एआर ग्रीनटेक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3110583	U43299PN2012PTC145088	एसआरएमजेव डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3112849	U74999PN2022PTC212170	एलेमोंडो इंटरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3114399	U41000PN2020PTC196073	अग्रवाल कंसोलिडेटेड प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
32	AB3115794	U25190PN2016PTC166019	म्यूट एक्सट्रूजन कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
33	AB3117257	U63090PN2017PTC168262	सौमित्र हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड
34	AB3117941	U46620PN2024PTC229984	रॉक्सफोर्ड स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
35	AB3120005	U73100PN2024OPC229952	सोशलबी सोशलस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3120331	U29100PN2021PTC198429	अवांटीन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
37	AB3121644	U34100PN2021PTC204761	अद्विक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड
38	AB3123243	U72900PN2012PTC145318	ग्लिमेरस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3123345	U72500PN2016PTC164263	कोरिजेंस सॉफ्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
40	AB3125631	U29299PN2022PTC217007	अद्विक प्योर हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
41	AB3125903	U01193PN2024PTC232767	स्नेहकुसुम प्राइवेट लिमिटेड
42	AB3126251	U29299PN2022PTC216780	अद्विक H2X प्राइवेट लिमिटेड
43	AB3126488	U29308PN2022PTC213417	अद्विक फ्यूचर फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड
44	AB3128713	U72900PN2021PTC203130	टेकफोर्टियस प्राइवेट लिमिटेड
45	AB3129234	U15400PN2019PTC185603	न्यूट्रिओम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
46	AB3130305	U74900PN2015PTC154081	एबल एनर्जी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
47	AB3130581	U01111PN2020PTC196728	आपला गांव फार्मर एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
48	AB3132020	U72900PN2019PTC188033	अवेनेयर इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड
49	AB3133192	U47912PN2024PTC228303	दार्जा एम्पोरियम प्राइवेट लिमिटेड
50	AB3133540	U58200PN2023PTC226917	दार्जा एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड
51	AB3133939	U74900PN2014PTC151114	क्वालिटी एचआर और मल्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
52	AB3148590	U29299PN2020PTC189888	मैक्स-एन गियर्स प्राइवेट लिमिटेड
53	AB3156885	U74999PN2015PTC154852	डूयोरकम्प्लायंस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
54	AB3166349	U72900PN2022PTC208302	बीआरआई स्मैप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
55	AB3168028	U74900PN2013PTC147315	के. पी. बडगुजर कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
56	AB3172794	U45400PN2021PTC205658	दर्श इन्वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
57	AB3183063	U74999PN2014PTC153199	विक्टोरियस फिटनेस और स्पोर्ट्स उपकरण प्राइवेट लिमिटेड
58	AB3190747	U74999PN2017PTC169875	इम्पैक्ट डेटा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
59	AB3191580	U32909PN2023PTC223071	क्रोवॉक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
60	AB3210260	U73200PN2020PTC189188	इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन एंड टेक. एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड
61	AB3210874	U73100PN2020PTC189412	रेडियल लैबोरेट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
62	AB3214279	U24230PN2021PTC207048	कूबो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
63	AB3218334	U72900PN2020PTC196596	एसेसेटेक इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
64	AB3219607	U35999PN2022OPC211716	ओमगा मैनुफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
65	AB3227360	U72900PN2020PTC191915	कोर अडमायर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
66	AB3227681	U70200PN2023PTC225764	इकोवर्ल्ड कंसल्टेंसी और एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
67	AB3231854	U45100PN2020PTC188880	आईपीआर एटमॉस्फेरिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
68	AB3234254	U46204PN2023PTC222822	एस्ट्रल ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
69	AB3244133	U72900PN2022OPC209089	वाई-स्केलर टेक्नोलॉजी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
70	AB3248888	U74999PN2021PTC198069	सहाय एंड वर्मा एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
71	AB3267590	U85100PN2012PTC142247	डिफ्ट ओबेसिटी एंड डायबिटीज प्राइवेट लिमिटेड
72	AB3268593	U68200PN2015PTC155437	पिस्कॉन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
73	AB3270620	U72900PN2020OPC193079	श्री सर्वेश कंप्यूटर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
74	AB3286709	U72900PN2022OPC210075	आइएलेजेंस सॉफ्टवेयर (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
75	AB3291365	U93190PN2023PTC218565	स्पोर्टीफाई स्पोर्ट इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
76	AB3304778	U74900PN2015PTC154331	लोकविदु कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनी का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/572—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनी का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB3110119	U59112MN2024PTC014987	मितपाना प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/573—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2977993	U01111OR2016PTC019755	वीएएम एग्रो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3081938	U26954OR2008PTC010348	पी. एस. कंक्रीट प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3112418	U74995OR2017OPC027764	क्राफ्ट्स इंटरियो (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3128073	U52601OR2022PTC041550	ज़ेड प्रोटीन मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
5	AB3274165	U74140OR2015PTC019188	अमर्त्य वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/574—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2968423	U15490PY2022PTC008843	ब्रोज़ बर्गर प्राइवेट लिमिटेड
2	AB3081860	U50100PY2011PTC002615	द स्टार कार्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3118064	U72900PY2020PTC008511	एनज़ोन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/575—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2755437	U74140PB2020PTC051067	मोबएप टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2875273	U70109PB2020PTC051858	यूबीपी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2965089	U65921PB1989PTC009356	वाई आर इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
4	AB3000821	U74999PB2017OPC046445	स्पिक मॉन्स्टर क्लीनिंग सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
5	AB3053390	U74920PB2014PTC038346	डी पी नागपाल सिक्योरिटी सर्विसेज और वॉलेट पार्किंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
6	AB3070752	U68200PB2019PTC049274	एमएफएस ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
7	AB3101537	U65921PB2013PTC037307	रेड स्टार फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
8	AB3109320	U65999PB2017PLC046401	सर्ववयापी निधि लिमिटेड
9	AB3122335	U51909PB2022PTC055582	एनडी लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3126556	U50400PB2019PTC049818	पिटू स्टीयरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB3136379	U01111PB2010PTC033503	सरताज एग्रो प्राइवेट लिमिटेड
12	AB3188183	U70100PB1992PTC012304	के. के. जूट ट्रेडर्स और मैनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB3217537	U68200PB2023PTC060031	साचियार रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
14	AB3228927	U30923PB2023PTC058550	फ्लोशील्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/576—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2814808	U72900RJ2020PTC068869	एपेक्स क्लासेस एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2839281	U67200RJ2019PLN066748	बीकेआर निधि लिमिटेड
3	AB2911662	U31001RJ2023PTC086809	जैस यूनिस्टोर प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2924553	U62012RJ2023PTC091774	अक्सावी टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2959825	U17124RJ1987PTC004204	अजन्ता फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2984683	U14101RJ2006PTC023530	राशिका ग्रैनिमार्मो प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2994116	U14101RJ1996PTC012579	लग्जरी लाइम कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
8	AB3023869	U96908RJ2023PTC086157	वूनिया ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड
9	AB3042997	U72900RJ2013PTC041585	हृतम टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3051752	U74999RJ2018PTC061074	जेआरटी-टेक्नो सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
11	AB3054710	U51909RJ2020PTC068287	अलिफा एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
12	AB3057585	U80904RJ2021PTC076071	स्टेम फॉर यू प्राइवेट लिमिटेड
13	AB3067483	U74999RJ2017PTC057279	मोबि क्लास एजुकेशन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB3081133	U64202RJ2005PTC020423	रोड अहेड टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
15	AB3090961	U52609RJ2022PTC082945	एमएल इवेंट प्राइवेट लिमिटेड
16	AB3093752	U62099RJ2023PTC086750	माँ गायत्री गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3097846	U15117RJ2018PTC062439	केसीआरएस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3117650	U74999RJ2017PTC059867	एस्ट्रॉबिका ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3119668	U74999RJ2018PTC063183	एचवाँस्सिस्ट प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3122600	U63030RJ2022PTC079766	मनोराम एग्रीसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3123088	U74140RJ2012PTC038311	मैजिक क्रिएटिव कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3124122	U51909RJ2022PTC080658	नवीन एग्रोवेट प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3124781	U28999RJ2020PTC069970	कालिका रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3127667	U50500RJ2021PTC076144	भूमि बायो प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3129209	U32109RJ2011PTC036635	मैक्स माइक्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3132706	U85500RJ2024PTC094177	ग्रोआंट कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3145619	U72200RJ2023PTC085568	सर्वलोक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3193028	U74999RJ2019PTC067586	एटोज डिजिटल पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
29	AB3223896	U63040RJ2019PTC066351	ट्वल टूर प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3253205	U15311RJ2011PTC037018	पिंकसिटी कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3256782	U72900RJ2018PTC061984	एन्कोडरलैब्स आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
32	AB3271758	U45309RJ2021PTC075598	एस्कमाय सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/577—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2782411	U63119TN2023FTC160615	ऑब्जेक्टवेज टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2782830	U27200TN2019PTC130159	क्राइसेंटा इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2840556	U24304TN2020PTC137171	संगोमैन लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2851121	U74120TN2013PTC091621	बैस बिज़ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2862115	U74999TN2015PTC101196	आईसेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2862387	U93000TN2010PTC078274	फास्ट ट्रैक कॉल टैक्सी मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2897965	U74999TN2013PTC090567	ईको इम्पोर्टिंग एंड रिटेलिंग प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2903562	U51909TN2018PTC122193	गोरो (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2937821	U74900TN2022PTC150773	सॉल्यूशनसैवी स्टाफिंग प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2939341	U74999TN2019PTC128671	कैफ्सजॉब्स सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2940375	U80902TN2022PTC151174	एकैट फ्लाइंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2949151	U15132TN2015PTC100163	एसकेईपी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2950432	U74140TN2019FTC129686	कॉन्ट्रैक्ट रेंगलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
14	AB2961002	U52290TN2024PTC168890	एंड्रोरेंस मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2962120	U45202TN2019PTC129469	आरवीएस फाउंडेशंस प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2975733	U72900TN2022PTC154243	एमएसएनटूप्पे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
17	AB2977278	U74999TN2018PTC125525	ड्यूरिन एल्गोवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2979922	U92490TN2020PTC137592	रेन ऑन फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड
19	AB2980700	U63090TN2006PTC060941	ग्रैंड्योर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB2992323	U80211TN1999PTC041755	शरथ एजुकेशनल प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3010690	U27209TN2020PTC135724	ट्राइस्टील इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3038146	U72900TN2007PTC065692	अरविंद सिंजी समाधान प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3047452	U65921TN1988PTC016089	अभिरामी हायर पर्चेज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3053748	U74999TN2017PTC118010	अरन आयरपोरुत्कल प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3055999	U51900TN2010PLC077946	गेमिंग इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड
26	AB3062811	U52599TN1994PTC029238	सुकीनो इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3087275	U80901TN2010PTC075366	मेरिटस स्मार्ट लर्निंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3089533	U71100TN2023PTC161686	जयालाथ एनर्जी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3091851	U17111TN2004PTC054881	सिंगराम फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3096320	U15490TN2020PTC140248	एनर्जिया वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3097790	U34100TN2020PTC135160	टेसाल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
32	AB3099820	U72900TN2020PTC139053	आई.वाई. टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
33	AB3102066	U70200TN2024PTC167038	साउथर्न लाइट्स बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
34	AB3103958	U74999TN2021OPC143725	अल्ट-कुज़नेट्स सस्टेनेबिलिटी एडवाइजर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
35	AB3104238	U51507TN2006PTC060600	लिसन इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3110009	U52320TN2023PTC158377	रिलिबेर एपरल प्राइवेट लिमिटेड
37	AB3111242	U72300TN1996PLC035299	अल्सेक टेक्नोसॉफ्ट लिमिटेड
38	AB3113025	U74999TN2013PTC090924	रेनर हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3113542	U72900TN2019PTC127760	डीक्यूएआई टेलीसेल्स प्राइवेट लिमिटेड
40	AB3113884	U45201TN2005PTC055914	टार्गेट शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
41	AB3114491	U74999TN2020PTC138579	जोबे इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड
42	AB3117685	U70102TN2009PTC071737	रुकमागट पांडे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
43	AB3119079	U70101TN2007PTC065621	एएमयू बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
44	AB3119272	U71100TN2023OPC163065	डुएड आर्किटेक्ट्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
45	AB3121217	U62013TN2023PTC165402	मगा टेक सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
46	AB3124334	U45200TN2010PTC076286	एसएचएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
47	AB3125066	U74900TN2013PTC089761	मैक्सिमस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
48	AB3125492	U74904TN2023PTC162319	वी3 प्रोटेक्शन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
49	AB3127891	U73100TN2019PTC133140	एंटीपॉड डिज़ाइनस प्राइवेट लिमिटेड
50	AB3130688	U29100TN2021PTC141659	ड्रोनगियर्स प्राइवेट लिमिटेड
51	AB3130775	U65929TN2022PLN151330	ऐश्वर्यम ग्रोइंग निधि लिमिटेड
52	AB3134583	U72900TN2021PTC141202	मेगाम आईटी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
53	AB3135101	U72200TN2007PTC063454	स्पार्कसॉफ्ट इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
54	AB3135199	U62099TN2023PTC166425	इवोलाइज़ सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
55	AB3135320	U70109TN2012PTC084587	निथिलान होम्स एंड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
56	AB3143432	U72900TN2012PTC088616	प्रग आईटेक प्राइवेट लिमिटेड
57	AB3152553	U67190TN1999PTC042628	एस.एम. फॉरेक्स एंड ट्रेवल सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
58	AB3158461	U72200TN2023FTC158032	साइबिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
59	AB3177067	U74999TN2021PTC141422	ओनअराइव एजुकेशन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
60	AB3179998	U17111TN1996PLC034076	गुप्ता स्वैक्स लिमिटेड
61	AB3185247	U24110TN2021PTC142174	लुईस लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
62	AB3185569	U45309TN2018PTC125454	ओनेडो एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
63	AB3186297	U70100TN2018PTC126473	श्रीधर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
64	AB3189936	U72900TN2020PTC138123	आई5 एडिफाई प्राइवेट लिमिटेड
65	AB3196864	U64990TN2024PTC170559	अराहलाइट सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
66	AB3202162	U74999TN2021PTC142836	सूर्या और सूर्याह कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
67	AB3216085	U72900TN2017PTC117154	ऐप्सइंसाइट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
68	AB3222588	U64203TN2007PTC062783	स्काइटोन इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
69	AB3223134	U62011TN2023PTC163410	नोवेसिस इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
70	AB3228623	U74999TN2016PTC113592	जीएलआर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
71	AB3277437	U67190TN1997PTC050527	विशालदा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
72	AB3286874	U33100TN2014PTC094690	प्रीसाइज मेडि-टेक प्राइवेट लिमिटेड
73	AB3299655	U70109TN2022PTC151790	सेसाक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
74	AB3305404	U74999TN2020PTC134188	सेंस 9 मीडिया सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
75	AB3309803	U72200TN2019PTC133555	सुलनिर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/578—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2868348	U74999TZ2018PTC030859	नेस्टरलाईफ सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2968670	U74999TZ2012PTC018488	वोनामोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2974486	U64200TZ2022PTC039148	पोल्लाची डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3059881	U35107TZ2023PTC028399	मणियम विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
5	AB3068541	U72200TZ2022PTC040364	फिनहैप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
6	AB3074784	U92419TZ2018PTC031271	अर्बन पेव स्पोर्ट्स और लेज़र प्राइवेट लिमिटेड
7	AB3113303	U35105TZ2024PTC032597	एवीआरएस सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड
8	AB3119755	U24100TZ2021PTC037230	तुलिर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
9	AB3127903	U24310TZ2024PTC031947	यूनिवर्सल मोल्ड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3136395	U52609TZ2017PTC028544	नंबिक्काई ब्रदर्स रिटेल प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
11	AB3148784	U72900TZ2021PTC036277	एप्सेक इंफॉर्मेशन सिक्स्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड
12	AB3177624	U70100TZ2019PTC031671	कोयंबटूर इंडीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क प्राइवेट लिमिटेड
13	AB3219363	U15490TZ2021OPC035830	वी एंड वी एग्री फूड्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
14	AB3272342	U65922TZ1988PLC002142	केटीवीआर एंटरप्राइजेज लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुडगाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/579—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2820636	U72900TG2018PTC122391	अकाँज़ल ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2853253	U47110TS2023PTC177013	बायफिट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2863208	U62013TS2023PTC174577	एप्जेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
4	AB2870017	U72200TG2015OPC099738	वेब फोकस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
5	AB2881765	U15129TG2016PTC109263	श्री सत्यलक्ष्मी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2905800	U49300TS2024PTC188220	श्री इंद्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2931062	U40200TG2023PTC170217	ग्रीनको आरजी1 सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2943609	U80900TG2018PTC125373	ऑल्टलॉग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2944949	U92400TG2022PTC164384	इंडी बंच स्टूडियोज़ प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2947074	U40200TG2023PTC170427	ग्रीनको आरजी3 सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
11	AB2955598	U65993TG2022PTC163110	परिहार इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2963690	U74999TG2006PLC051086	यूबीई टूल्स लिमिटेड
13	AB2965773	U72200TG2015PTC102288	साइबरनूर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
14	AB2971681	U51909TG2023PTC170451	ग्रीनको आरजी4 सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2983130	U45300TS2024PTC185857	एस वी ऑटोडॉक ऑटोमोटिव सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड
16	AB2984858	U74999TG2021PTC150276	एविडेंट बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
17	AB2987358	U72900TG2020PTC139203	एटीजेड ग्लोबल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
18	AB2994903	U73100TS2023PTC176872	इनफिबज ब्रांडिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3001068	U63090TG2011PTC073948	अर्का एयरोसैल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3012322	U72200TG2008PTC061739	अरिंजवन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3013842	U45101TG2006PLC051055	यूबीई प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
22	AB3027341	U23209TG2021PTC155717	बालाजी बायोनोल प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3035632	U45400TG2011PTC076035	श्री बसवा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3038619	U72900TG2022PTC169415	साराटोगा सॉफ्टवेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3041791	U21000TG2021PTC155275	एवोन पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3044617	U51909TG2022PTC166440	वेदासरा इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3059915	U72900TG2022PTC162659	सुपरस्केल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3061768	U72900TG2014PTC093969	कॉस्मिक कायक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3065086	U15129TG2022PTC165609	ऑक्सीलाइफ बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3072825	U65921TG1988PTC008673	राज कमल लीजिंग और इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3074583	U41001TS2023PTC175808	सिरिगायत्री इफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
32	AB3075671	U85100TG2020PTC145265	शंकरलाल एंड सन्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
33	AB3080198	U22100TG2022PTC169034	गलीस्पोर्ट्स और डिजिटल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
34	AB3080495	U74999TG2016PTC110753	ईगल आई कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
35	AB3085689	U72900TG2017PTC119851	हैप्पीगिराफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3085963	U70109TG2019PTC137006	मेगा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
37	AB3088263	U72200TG2018PTC122769	बीएसएमएस इफो सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
38	AB3092356	U62099TS2023PTC175802	डाटाट्रेच टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3097871	U52609TG2017PTC115218	एस.ए.वी.ई. ऑप्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
40	AB3102779	U72200TG2008PTC058498	ग्रेट डेटा सॉल्यूशन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
41	AB3104134	U40300TG2020PTC138373	श्री टेक्नूट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
42	AB3105627	U40101TG2015PTC099906	लाइटेरे एंटरजी प्राइवेट लिमिटेड
43	AB3112087	U29303TG2018PTC127169	इनोबिल्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
44	AB3114299	U72900TG2020PTC141759	हैशफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
45	AB3117110	U45201TG2022PTC161997	नरेश कुमार इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
46	AB3118216	U32111TS2023PTC173283	नमन्न गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड
47	AB3120529	U46596TS2024PTC186560	विविजेन बायोलैब्स प्राइवेट लिमिटेड
48	AB3124345	U72900TG2022FTC163924	अनिसरी सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
49	AB3125807	U18109TG2022PTC159170	फॉर यू टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
50	AB3126125	U45201TG2020PTC146521	A1 क्वालिटी कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर्स प्राइवेट लिमिटेड
51	AB3126282	U62091TS2024PTC188861	स्ट्राइकर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
52	AB3126415	U72300TG2015PTC100984	वीस्केल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
53	AB3128242	U74999TG2017PTC115359	सुदला ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
54	AB3128310	U65992TG2000PTC035576	अजय चिट्स प्राइवेट लिमिटेड
55	AB3129006	U24230TG2020PTC141168	द्युति लैब्स प्राइवेट लिमिटेड
56	AB3129066	U74999TG2016PTC113286	ईज़असिस्ट इंफॉर्मेशन सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
57	AB3133495	U74140TG2003PTC042103	मिनमैन कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
58	AB3134642	U72200TG2020PTC146543	वीएसआरएमकेपी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
59	AB3137836	U24299TG2019PTC136404	सिकोपा लैब प्राइवेट लिमिटेड
60	AB3145980	U52110TG2011PTC072759	नाथ एग्री ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
61	AB3157504	U20299TS2023PTC178124	अल्ट्रा बायो साइंसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
62	AB3162277	U15412TG2014PTC095227	स्वेथा कन्फेक्शनरी प्राइवेट लिमिटेड
63	AB3162385	U72200TG2016PTC112823	हिता इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
64	AB3165174	U52100TG2011PTC072903	मदन एग्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
65	AB3167483	U52100TG2011PTC072813	दयालू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
66	AB3167584	U72200TG2017PTC121141	आयोडेन प्राइवेट लिमिटेड
67	AB3181179	U62011TS2024OPC183544	प्रीसिजनटेस्ट ऑटोमेशन (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
68	AB3198265	U52100TG2010PTC067701	मयूर एसोसिएट्स लाइफस्टाइल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
69	AB3204804	U72200TG2000PTC034403	गोवेल फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड
70	AB3225203	U74999TG2021OPC154409	केएस मैनपावर कंसल्टेंसी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
71	AB3225467	U24304TG2020PTC141209	अग्रता लैब प्राइवेट लिमिटेड
72	AB3227478	U72900TG2011PTC077935	अपोलो लर्निंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
73	AB3229170	U46497TS2023PTC180357	प्रोवेज़ फार्मा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
74	AB3250572	U72900TG2018PTC126257	अनेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
75	AB3256959	U72200TG2018PTC129017	डॉजविल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
76	AB3261559	U41000TS2024PTC185009	डी.एस.आर. हॉस्पिटैलिटी और इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
77	AB3263240	U74999TG2020PTC141039	लीपएज नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
78	AB3266901	U72200TG2007PTC054307	एस्त्रलप्राइज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
79	AB3270383	U29309TG2021PTC155480	फ्लूइड साइंस डायनेमिक्स गैस सील्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
80	AB3283323	U45201TG2019PTC131444	ग्रेक्स प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
81	AB3285007	U31909TG2006PLC050993	उबे वेल्डप्रोडक्ट्स लिमिटेड
82	AB3296948	U18209TG2017PTC118818	पेलिकुतुरु सिल्क्स प्राइवेट लिमिटेड
83	AB3297279	U62013TS2023OPC175600	फिसाई इंडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
84	AB3312560	U55209TG2021PTC149587	अमिटी फॉर्कफुल प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनी का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/580—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनी के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनी का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2915308	U80902TR2021PTC013912	प्रीपी एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/581—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2820295	U36999UP2020PTC127230	तत्सत सेक्रेड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2862888	U45400UP2012PTC052578	आरजेडडी इंफ्रावेचर्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
3	AB2865220	U65990UP2018PLC109909	आईडीएलएसएचजी इंडिया निधि लिमिटेड
4	AB2913562	U47222UP2024PTC198907	वृंदाधाम आईसीवाई प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2919318	U60222UP2019PTC123074	मोबी लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2924967	U52599UP2019OPC123066	गोकैयर टेक्नोलॉजीज़ (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2929172	U74999UP2021PTC142817	कोकून ब्रांड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
8	AB2992687	U74999UP2021PTC156771	इंस्पेक्ट एलिमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
9	AB3002114	U51909UP2020PTC132536	रिचेरा सर्विसेज एंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
10	AB3006281	U24303UP2021PTC155239	अज्यूरी बायोमॉलीक्यूलस प्राइवेट लिमिटेड
11	AB3012420	U74999UP2018PTC103936	एक्ज़ेलिगो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
12	AB3024217	U67190UP2022PTC168231	एनएफटी वॉयज प्राइवेट लिमिटेड
13	AB3034896	U36911UP1999PTC024166	प्राची ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
14	AB3040905	U72900UP2022PTC176009	डी-स्पेसेस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
15	AB3065332	U74999UP2018PTC103162	आईएसबी इंजीनियरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
16	AB3068967	U51909UP2022PTC171289	ऑनवर्ल्ड ग्लोबल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3078521	U72501UP2019OPC119243	मास्टरसॉफ़्ट लर्निंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3086538	U70102UP2014PTC066101	एल एम इफ़्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3100382	U62013UP2024PTC200176	सानेरा वेबनरी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3102373	U46610UP2023OPC194725	मोहापात्रा फ़्यूल (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3108667	U31900UP2019PTC124762	हिमवायु इनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3110561	U43303UP2024PTC197113	भूमिशा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3113186	U30202UP2023PTC187325	नुवोटेक डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3116505	U72300UP2013PTC058046	ह्यूगॉमाइंड्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3117133	U82910UP2024PTC213930	दिवांशी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3118158	U74991UP2007PTC032804	अनुपशील फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3118713	U17299UP2019PTC123544	अपटाउन फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3119372	U72900UP2021PTC154803	क्यूरियन्स टेक प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3121099	U52500UP2023OPC177111	एफ बीजेडआरआर इंडिया (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3121151	U52609UP2022PTC163276	दुरुडो एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3123718	U93000UP2018PTC110569	फेट एन फिएस्ता प्राइवेट लिमिटेड
32	AB3124386	U01110UP2022OPC166670	कोरटिनोवास केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
33	AB3124799	U72900UP2020OPC129234	प्रियध टेक्नोलॉजी (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
34	AB3125622	U62010UP2024PTC200645	डीपमाइंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
35	AB3127405	U74999UP2018PTC108723	ग्रेटएक्सपेक्टेडनेस बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3127688	U52300UP2021PTC143512	पपवंडर प्राइवेट लिमिटेड
37	AB3128140	U24233UP2015PTC075212	एसीएमई स्काइवेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड
38	AB3128646	U24232UP2004PTC028663	श्री गिरराज रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3128836	U74999UP2017PTC091447	सैप इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
40	AB3129724	U52601UP2022PTC160923	मैक्सिमाइज़ लाइफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
41	AB3129977	U19109UP2024PTC199753	आंचलश्री प्राइवेट लिमिटेड
42	AB3130183	U36941UP2020PTC132662	कूफी टॉयज़ प्राइवेट लिमिटेड
43	AB3130504	U74999UP2019PTC115437	काक रिटेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
44	AB3131828	U29270UP2022PTC174948	अप्लाइड टेक्नोप्रेन्योर्स प्राइवेट लिमिटेड
45	AB3133139	U18209UP2020PTC137847	सम्पोशन फैशन प्राइवेट लिमिटेड
46	AB3134304	U70100UP2014PTC063362	श्रीवेंकटेश्वरशक्ति इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
47	AB3135108	U24247UP1998PTC024001	वैष्णोलाइट फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
48	AB3135275	U74994UP2019PTC114007	टेक्सेस्ट ऑटोमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
49	AB3146085	U85499UP2023PTC194723	एजुप्लस इनोवेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
50	AB3159594	U52599UP2020PTC134544	बिग बॉक्स होम सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
51	AB3165839	U56102UP2023PTC182396	छाय चौपाल प्राइवेट लिमिटेड
52	AB3171643	U72900UP2022PTC170905	अपनिटो टेक प्राइवेट लिमिटेड
53	AB3173281	U72900UP2022PTC163858	ज़ेन माइंड्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
54	AB3176367	U85300UP2021PTC146693	क्लिनिकर हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
55	AB3177056	U33119UP2021PTC150959	एचएन और एमडी प्राइवेट लिमिटेड
56	AB3209594	U74999UP2019PTC118175	बसु एग्रीजनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
57	AB3214538	U62099UP2023PTC186225	फ्रंटनेट सिक्योरिटी कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
58	AB3215778	U64203UP2020PTC128255	वायरनेट ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
59	AB3217128	U70102UP2010PTC039962	वी.आर. इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
60	AB3226905	U47912UP2023PTC193739	हार्डविजन मल्टीसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
61	AB3234626	U33302UP2021PTC150998	एचडी और एमएन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
62	AB3243121	U72900UP2017PTC092531	काफल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
63	AB3247826	U93000UP2021PTC148237	एसेंस स्पेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
64	AB3266797	U70102UP2012PTC051046	कृष्णा कान्हा इंफ्राबिल्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
65	AB3272828	U72900UP2019PTC113771	जेट्रम इंटेलिजेंस टेक प्राइवेट लिमिटेड
66	AB3279526	U72900UP2018PTC108096	एडनोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/582—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2832817	U63090UR2018PTC009091	धनकोट एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2904862	U93000UR2014PTC001092	फॉक्सप्रो इंडस्ट्रियल गार्ड्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB3113539	U55101UR2022PTC013795	बैंडस्टैंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
4	AB3203026	U51909UR2022PTC014433	सर्वोत्तम इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड
5	AB3243722	U79110UT2023PTC015749	एवीएन बुकएट्रिप प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में}

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(5) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में

गुड़गाँव-122050, दिनांक 27 मई 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/583—यह इस कार्यालय नोटिस संख्या और आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) के संबंध में एसआरएन के रूप में उल्लिखित है। नोटिस एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (5) के

अनुसार निम्नलिखित कंपनियों के नाम इस दिन 27/05/2025 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है :—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
1	AB2791966	U17232WB1998PTC088212	जूटइट प्राइवेट लिमिटेड
2	AB2816876	U60200WB2009PTC138702	पैराडाइज़ लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AB2820564	U51909WB1968PTC027389	यूनाइटेड सेरामिक्स प्रोसेसिंग प्रा. लि.
4	AB2848796	U74900WB2009PTC139811	आर आर कॉन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड
5	AB2865397	U15490WB2021PTC245132	पाकिरा फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
6	AB2874461	U52100WB2018PTC227448	डीप लिकर प्राइवेट लिमिटेड
7	AB2893253	U51909WB1996PTC077297	लाहोटी कंसल्टेंसी प्रा. लि.
8	AB2894246	U74999WB2012PTC173840	तराशक्ति ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड
9	AB2943016	U62099WB2023PTC262509	वृष्णा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
10	AB2947083	U36101WB1983PTC035660	शिल्पी (इंटीरियर्स) प्रा. लि.
11	AB2952336	U70200WB2023PTC261926	टारस कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
12	AB2976658	U27205WB2022PTC258300	रिताज्या प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	AB2980409	U05000WB1993PTC058654	सीपीएल मर्केटाइल्स प्रा. लि.
14	AB2985653	U74999WB2020PTC235727	पैसिकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
15	AB2994425	U74210WB1961PTC025341	डालमिया इंजीनियर्स प्रा. लि.
16	AB3000870	U67190WB2012PTC186341	एफिनिटी कमोडिटी डेरिवेटिव्स प्राइवेट लिमिटेड
17	AB3007078	U55209WB2019PTC234167	ऑरस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
18	AB3010984	U67120WB1998PTC087489	ऑनलाइन शेयर ब्रोकिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
19	AB3011659	U68100WB2023PTC262726	रौशनीना एडवांस्ड प्राइवेट लिमिटेड
20	AB3014359	U45201WB2000PTC092247	नेचर्स नेस्ट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड
21	AB3038211	U29100WB2021PTC246743	सैफर्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
22	AB3049216	U18204WB2015PTC204870	सुहान कपड़ा व्यापारी प्राइवेट लिमिटेड
23	AB3059983	U74999WB2016PTC217445	शाहिदून सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
24	AB3070124	U72200WB2011PTC162810	टीएस वेब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
25	AB3070743	U13999WB2023PTC260307	एलएमवी इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड
26	AB3073564	U51109WB2006PTC108043	भावसागर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
27	AB3084160	U70109WB2011PTC167856	कैरनहिल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
28	AB3090898	U46909WB1996PTC076764	आर्या मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
29	AB3092236	U74999WB2020PTC241805	सावराज मैनेजमेंट और सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
30	AB3095186	U13119WB2023PTC262848	फैबफोर्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
31	AB3100214	U51109WB2006PTC108037	जागरण मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
32	AB3102037	U80300WB2017PTC223588	निहारिका एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
33	AB3106410	U55209WB2018PTC228868	एनआरपी फूड टेक प्राइवेट लिमिटेड
34	AB3107221	U51109WB2006PTC108038	प्रोग्रेसिव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
35	AB3111072	U74900WB2009PTC139799	आर आर मर्चेन्डाइज प्राइवेट लिमिटेड
36	AB3112466	U46909WB2024PTC267911	एक्सपोर्टिफ्लेक्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
37	AB3114310	U67110WB2022PTC251642	श्रीरामन इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

S. No.	Work Item	CIN	Company Name in Hindi
38	AB3116151	U15549WB2020PTC235903	ऐडन फूड एंड बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
39	AB3123226	U51909WB2008PTC130963	सिल्वरसैंड डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड
40	AB3123868	U45309WB2022PTC256349	स्पेस मेट्रिक्स डेवलपर एंड कंटेक्टर प्राइवेट लिमिटेड
41	AB3123910	U68200WB2024PTC268641	आदि-महेक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
42	AB3124004	U63090WB2003PTC096225	जिनेंद्र मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड
43	AB3124028	U74999WB2011PTC163328	संबुनाथ कंप्यूटेक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
44	AB3124086	U24231WB1958PTC024040	तिब्बन फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
45	AB3125851	U25200WB2022PTC252904	जीआरएस पॉलिफाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड
46	AB3126095	U26900WB2010PTC154457	श्री सत्यनंद कोल वाशरीज प्राइवेट लिमिटेड
47	AB3127257	U01110WB2018PTC224663	एवर्ट एग्रो एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड
48	AB3131448	U74999WB2011PTC163320	लैंड मार्क मारकॉम प्राइवेट लिमिटेड
49	AB3131683	U45400WB2010PTC147589	भंसाली इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
50	AB3134858	U24296WB2019PTC234183	एक्टिसोल थेरेप्युटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
51	AB3134921	U74900WB2015PTC206850	आरएमएम ऐप प्राइवेट लिमिटेड
52	AB3135326	U80309WB2022PTC256551	विद्याज्योति अकादमी प्राइवेट लिमिटेड
53	AB3138562	U72900WB2018PTC225220	स्ट्रेटडेस्क कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
54	AB3141220	U70200WB2001PTC093927	विष्णुशिवा इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
55	AB3158305	U27200WB2022PTC259172	रघुनाथजी मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
56	AB3166830	U55101WB1987PTC043090	क्लस्टर होटल प्राइवेट लिमिटेड
57	AB3176710	U47219WB2024PTC268321	एशियन कैटरर्स और हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
58	AB3179520	U74999WB2017PTC220703	टूटल सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
59	AB3181365	U85100WB2022PTC252568	कटवाकेयर मेडिकल साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड
60	AB3181375	U10740WB2023PTC263605	ले मोता शेफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
61	AB3181457	U51909WB2018PTC225799	सान्तिया ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
62	AB3181703	U22219WB2003PTC097105	आकाश प्रिंट एन पैक प्राइवेट लिमिटेड
63	AB3187946	U17120WB2008PTC124468	विजय साड़ी हाउस प्राइवेट लिमिटेड
64	AB3234502	U70109WB2022PTC253131	सतयाकला रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
65	AB3268230	U21099WB1959PTC024169	ईस्ट कोस्ट पेपर एंड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
66	AB3284001	U51311WB1991PTC051832	लाइटन कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड
67	AB3304706	U17299WB2019PTC234262	क्वीनली फैशन प्राइवेट लिमिटेड

रौनक अग्रवाल
सहायक रजिस्ट्रार
सी-पेस, मानेसर

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
[CENTRE FOR PROCESSING ACCELERATED CORPORATE EXIT]

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/526—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2724495	U65992AP2021PTC119534	SAMVRUDDHI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
2	AB2760789	U85110AP2021PTC119485	MEDQUEST KAKINADA DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
3	AB2901008	U70200AP2024OPC115995	NGH WEALTH ADVISORY (OPC) PRIVATE LIMITED
4	AB2922957	U74120AP2015PTC097566	ALCOVE BUSINESS ADVISORY PRIVATE LIMITED
5	AB2935956	U28112AP2013PTC087355	SARVA MARKETING PRIVATE LIMITED
6	AB2968741	U17120AP2014PTC094909	DEEPAK NEXGEN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
7	AB3026643	U46696AP2013PTC121862	ANDHRA PAPER PRIVATE LIMITED
8	AB3057932	U01122AP1997PLC026468	OM PRUTHVI GREEN RICH LIMITED
9	AB3089876	U74999AP2016PTC104457	ROBOTECH INDIA AGRI PRODUCTS PRIVATE LIMITED
10	AB3110076	U62091AP2023PTC111999	ASIAN INFO TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/527—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2892111	U50403AS2010PTC010104	GHOSH BROTHERS AUTORIDERS PRIVATE LIMITED
2	AB3063954	U74899AS1994PTC018227	ACROW OVERSEAS PRIVATE LIMITED
3	AB3080835	U45203AS1964SGC001222	ASSAM GOVT CONSTRUCTION CORPN LTD
4	AB3097459	U68200AS2023PTC025530	FUSIONNEX CORPORATION PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/528—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2798993	U74999BR2018PTC037646	FLESHKART ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
2	AB2862445	U85320BR2018PTC038367	IBNSINA SUPERSPECIALITY HOSPITAL PRIVATE LIMITED
3	AB2871180	U15134BR2021OPC055691	LAN ORGANIC (OPC) PRIVATE LIMITED
4	AB2954793	U52609BR2022PTC058071	SYMBELS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
5	AB2991987	U65990BR2021PLN051990	PRATAKSHA NIDHI LIMITED
6	AB3041857	U74999BR2017PTC035546	CUCAX ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
7	AB3118450	U80301BR2021PTC050362	APNASTUDY EDUCATIONAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
8	AB3121016	U51909BR2021PTC054564	SPLENGO ECOMMERCE PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/529—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2720532	U47110CH2023PTC045169	ANSHIVA SUPERMARTS PRIVATE LIMITED
2	AB2993442	U27230CH1998PTC021338	IBK PARAM METAL TECH PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/530—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the

Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2902193	U58200CT2024PTC016184	JAVANCE TECH PRIVATE LIMITED
2	AB3071356	U74994CT2020PTC010914	BUDDHAPRIYA FOODS AND AGRO PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/531—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2709724	U29191DL1993PTC052908	VISHAL COOL INDIA PRIVATE LIMITED
2	AB2747452	U51909DL2010PTC204469	ONLINE FASHION MONARCH PRIVATE LIMITED
3	AB2761081	U27109DL2002PTC115584	SANMATI STRIPS PRIVATE LIMITED
4	AB2768142	U72900DL2008PTC182792	CF SOFTECH PRIVATE LIMITED
5	AB2813746	U82990DL2023PTC419861	VENTUREX PROCUREMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
6	AB2817289	U24299DL2022PTC402745	PLUSH BEAUTY PRIVATE LIMITED
7	AB2817623	U70200DL2023OPC418511	GVISION LABS(OPC) PRIVATE LIMITED
8	AB2819892	U78100DL2023PTC412822	MYUNNATI AI TALENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
9	AB2822925	U25209DL2022PTC396106	SUPTERTECH FORTUNE PRIVATE LIMITED
10	AB2851948	U70100DL2011PTC212453	CITITECH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
11	AB2853811	U70109DL2015PTC278312	PNGP LAND AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
12	AB2868364	U15133DL2021PTC377137	OLDTOWN CONCEPTS PRIVATE LIMITED
13	AB2874170	U28299DL2023PTC418212	PP ANDROBOTIKS PRIVATE LIMITED
14	AB2875878	U63090DL2022PTC401810	AIRVERTEX PRIVATE LIMITED
15	AB2876898	U72900DL2021PTC378907	KAMACAK VOICE TECH PRIVATE LIMITED
16	AB2883764	U74996DL2006PTC149621	ROOF TOP GALLERIE PRIVATE LIMITED.
17	AB2884352	U51505DL2020PTC368688	WEBSALE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
18	AB2885849	U22122DL2003PTC118757	NEW INK PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
19	AB2886407	U74999DL2019PTC357558	ABIES EVENTS AND EXHIBITION PRIVATE LIMITED
20	AB2898559	U74899DL1993PTC052185	HARI BOL CHITS PRIVATE LIMITED
21	AB2902666	U52100DL2015PTC275801	GRAFFITI NATURALS PRIVATE LIMITED
22	AB2910407	U92490DL2022PTC401021	TECHNISQUASH ACADEMY PRIVATE LIMITED
23	AB2915234	U70109DL2013PTC254767	BESTNEST REAL ESTATE SERVICES PRIVATE LIMITED
24	AB2917056	U85100DL2014PTC267600	SWEET ANGEL HOSPITAL PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
25	AB2917260	U80301DL2005PTC141258	SHIVSHAKTI EDUCATION INSTITUTE PRIVATE LIMITED
26	AB2918854	U72300DL2008PTC175306	NIMANTRA WEBTECH. PRIVATE LIMITED
27	AB2919503	U51909DL1992PTC050840	MAPLE WIRE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
28	AB2919563	U24297DL2013PTC249544	GLENZER PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
29	AB2930062	U55204DL2020PTC368271	BLENDING SPICES PRIVATE LIMITED
30	AB2932482	U74999DL2016PTC305457	DIGITALES INDIA MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
31	AB2932555	U74999DL2016PTC303999	CRICKET TALKIES PRIVATE LIMITED
32	AB2932853	U45200DL2013PTC255947	RICHI-RICH CONSTRUCTION & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
33	AB2935947	U74999DL2017PTC311084	EBIL DATA PRIVATE LIMITED
34	AB2944301	U72900DL2010PTC210855	SAN SOFTDEVELOPERS PRIVATE LIMITED
35	AB2951841	U93090DL2019PTC355362	BOUNCING HEAD PRIVATE LIMITED
36	AB2958066	U93000DL2015PTC285701	TORAN CONSTRUCTION INDIA PRIVATE LIMITED
37	AB2958438	U18109DL1989PTC037565	FASHION ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED
38	AB2961326	U28180DL2024PLC431979	VSM MATRIX TOOLTECH LIMITED
39	AB2962881	U60231DL2016PTC304267	MIDWAY SHIPPING INDIA PRIVATE LIMITED
40	AB2967073	U47722DL2024PTC431103	VERCETTI INDIA PRIVATE LIMITED
41	AB2974104	U70109DL2006PTC150964	BLUEWATER INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
42	AB2977035	U80900DL2019FTC350457	INDOSING EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
43	AB2978479	U65993DL1996PTC082912	APOORV I T DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
44	AB2981312	U74210DL2007PTC159829	BLUEWATER HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
45	AB2982468	U52200DL2022PTC398634	VENATICI VENTURES PRIVATE LIMITED
46	AB2987761	U65923DL2007PTC166608	SU-PLUS FINVEST PRIVATE LIMITED
47	AB2992063	U72200DL2006PTC156383	ARRIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
48	AB2992656	U22300DL2017PTC323861	TEENIPIXIE PRIVATE LIMITED
49	AB2995496	U70200DL2011PTC224044	ANANDLOK REALTY PRIVATE LIMITED
50	AB2996840	U72900DL2019PTC352565	XGEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
51	AB2997663	U74999DL2018PTC331521	OLD FASHIONED TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
52	AB2998399	U45201DL2005PTC134446	UPCOUNTRY LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
53	AB3010128	U72900DL2021PTC388562	A Y S CRYPTO LABS PRIVATE LIMITED
54	AB3010491	U55101DL2007PTC164847	AMB MOTELS PRIVATE LIMITED
55	AB3011843	U55101DL1984PLC018327	CITY HOTELS LIMITED
56	AB3015840	U74999DL2017PTC316848	SUNDOWNER TRAVELTRAILZ PRIVATE LIMITED
57	AB3016134	U60231DL2019PTC352609	R. S. AJIT LOGISTICS PRIVATE LIMITED
58	AB3019707	U74140DL2005PTC136906	EFFACTOR EVENTS PRIVATE LIMITED
59	AB3019781	U45200DL2013PTC256596	MAGADH MEGA LEATHER PARK PRIVATE LIMITED
60	AB3021206	U93000DL2009PTC196228	D IT SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
61	AB3022979	U46209DL2023OPC419494	GLOBOVIK EXPORTS (OPC) PRIVATE LIMITED
62	AB3026512	U62099DL2024PTC427373	BOHO SERVICES PRIVATE LIMITED
63	AB3030458	U31906DL2008PTC185644	ATLAS ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
64	AB3030486	U55101DL2021PTC391125	HEARTY AND HARDDY PRIVATE LIMITED
65	AB3031134	U20119DL2024PTC428707	ARMIKA PETROCHEM PRIVATE LIMITED
66	AB3034548	U31900DL2009PTC195184	VESTA APPLIANCES PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
67	AB3034819	U82990DL2023PTC413252	GREENROCK RECYCLERS PRIVATE LIMITED
68	AB3035225	U18109DL2021PTC383717	VPPB PRIVATE LIMITED
69	AB3039423	U74899DL1986PTC023271	CAPRICORN APPARELS PRIVATE LIMITED
70	AB3039711	U51909DL2018PTC336485	NASSS EXPORTS PRIVATE LIMITED
71	AB3042400	U80903DL2002PTC115440	AKG INSTITUTIONAL RESIDENCY PRIVATE LIMITED
72	AB3045037	U50400DL2021PTC378898	WHEELS FOR YOU PRIVATE LIMITED
73	AB3046040	U56101DL2024PTC428904	HOG HEAVEN OF GOURMET PRIVATE LIMITED
74	AB3046218	U15400DL2013PTC250264	PARKASH SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
75	AB3046225	U15122DL2013PTC251042	PARKASH SALES PRIVATE LIMITED
76	AB3050169	U17100DL2019PTC348492	BTS FASHION POINT PRIVATE LIMITED
77	AB3052549	U65990DL2023PTC410281	SKYAN FINANCE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
78	AB3052750	U24110DL2022PTC403760	WUNDERVEDA PRIVATE LIMITED
79	AB3055044	U63030DL2019OPC350224	GURDEV HOLIDAYS (OPC) PRIVATE LIMITED
80	AB3061771	U74140DL2011PTC213472	SNS ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
81	AB3063277	U92490DL2021PTC378895	RKS FILMS PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
82	AB3073118	U92120DL2008PTC182520	M. V. CARGO MOVERS PRIVATE LIMITED
83	AB3074881	U74999DL2020PTC373152	SHRI GANGA JAMNA GLOBAL PRIVATE LIMITED
84	AB3075666	U24239DL2020PTC374546	KISHONA PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
85	AB3076318	U72300DL2022PTC407445	OMNILERT LAUNCHPAD WEB TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
86	AB3081421	U85499DL2007PTC171517	LEAN MANAGEMENT INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED
87	AB3081522	U70101DL2003PTC118375	RMH CONTRACTS PRIVATE LIMITED
88	AB3081529	U01400DL2020PTC374784	AGRIWORKS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
89	AB3081570	U74899DL1995PTC071019	NIPPON GAS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
90	AB3081865	U74101DL2024PTC429139	NACHIKETA MALIK PRIVATE LIMITED
91	AB3086256	U72200DL2015PTC285198	KAFFEINE LABS PRIVATE LIMITED
92	AB3088532	U92413DL2015PTC286213	KONTENT KREATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
93	AB3091213	U74120DL2008PTC174589	INDRASIL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
94	AB3092650	U18101DL2005PTC139874	MEGHA SELECTIONS PRIVATE LIMITED
95	AB3095080	U72100DL2021OPC384463	VFLEET SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
96	AB3095251	U74999DL2022PTC394986	INSTITUTE OF DISASTER MANAGEMENT RESEARCH AND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
97	AB3096000	U74899DL1993PTC051924	AAY KAY SHIPWAY SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
98	AB3097412	U74999DL2013PTC254082	HEALTZEN SERVICES PRIVATE LIMITED
99	AB3100627	U85195DL1998PLC095877	PINEWOOD DIAGNOSTICS LIMITED
100	AB3101110	U30204DL2024PTC433790	SOTECH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
101	AB3102094	U74899DL1993PTC054731	NETWORK AIR PRIVATE LIMITED
102	AB3102294	U74999DL2018PTC334728	JOYCORP ECOMMERCE PRIVATE LIMITED
103	AB3104775	U63030DL2017PTC326833	MKOV TRAVELS PRIVATE LIMITED
104	AB3105553	U74999DL2016PTC308908	STELLARGENE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
105	AB3106292	U67190DL2016PLC289268	MANTRAH FINSERV LIMITED
106	AB3111580	U45400DL2006PTC152337	GOLDENEDGE PROPERTIES PRIVATE LIMITED
107	AB3111598	U72900DL2013PTC256253	INTERNATIONAL BUSINESS NETWORKS PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
108	AB3112770	U74900DL2015PTC286649	NITYA VACATIONS PRIVATE LIMITED
109	AB3113370	U26100DL2011PTC225116	DAFFODIL GLASS PRIVATE LIMITED
110	AB3113383	U72900DL2021PTC388828	DOOR OF WEB PRIVATE LIMITED
111	AB3116532	U74999DL2020PTC368311	T-VIEW SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
112	AB3120185	U93030DL2010PTC201277	ENVISAGE MARKETING AND HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
113	AB3120904	U72200DL2001PTC111504	ONE E INFOSYSTEMS PVT LTD
114	AB3121249	U72300DL2008PTC172928	PREMCELL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
115	AB3121495	U72200DL2012PTC242465	KEYMILE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
116	AB3122033	U74999DL2018PTC330536	IT MAAX PRIVATE LIMITED
117	AB3122440	U45402DL2000PTC106651	F AND F INTERIORS PRIVATE LIMITED.

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/532—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2816240	U55204GA2017PTC013389	LUCIE WALTA HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
2	AB2914835	U70109GA2020PTC014229	ECOBLU VENTURES PRIVATE LIMITED
3	AB3108087	U74999GA2018PTC013664	IVY & KAY DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/533—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the

Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2796077	U66120GJ2023PTC147050	RCG ASSOCIATES (IFSC) PRIVATE LIMITED
2	AB2835613	U25200GJ2020PTC115724	SHREEARHAM HI-TECH POLYPLAST PRIVATE LIMITED
3	AB2838847	U29253GJ2011PTC063995	MAK PUMPS PRIVATE LIMITED
4	AB2851459	U36911GJ2013PTC075981	PENNER JEWELS PRIVATE LIMITED
5	AB2875649	U74999GJ2020PTC118991	SYM HARDWARE MART PRIVATE LIMITED
6	AB2888237	U80302GJ2000PTC037873	SHARP-PCG ADVISORS PRIVATE LIMITED
7	AB2890337	U72900GJ2022PTC137793	SILVERCORP INFOTECH PRIVATE LIMITED
8	AB2894441	U52599GJ2006PTC049179	SATTADHAR MARKETING PRIVATE LIMITED
9	AB2905584	U72900GJ2021PTC120450	LOGIGAIN STRATEGIES PRIVATE LIMITED
10	AB2926555	U22100GJ2009PTC057862	ECOTEX MOSAIC PRIVATE LIMITED
11	AB2929539	U74140GJ2005PTC045721	JLN CORPORATE SERVICES PRIVATE LIMITED
12	AB2940041	U24246GJ2021PTC119729	GURULAKSHMI INCENSE & DHOOP PRODUCTS PRIVATE LIMITED
13	AB2946992	U74140GJ2015PTC085214	RPV ADVISORS PRIVATE LIMITED
14	AB2948484	U85491GJ2021PTC121093	MUDURU PRIVATE LIMITED
15	AB2961099	U45209GJ2019PTC107876	RSL INFRABUILT PRIVATE LIMITED
16	AB2961492	U17291GJ2009PTC058548	OM TRENDZ PRIVATE LIMITED
17	AB2970324	U72900GJ2021PTC122803	BIG ANALYTIKS SOFTWARE PRIVATE LIMITED
18	AB2970949	U74300GJ2019PTC111542	COGNITO SUSTAINABILITY AND COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
19	AB2975783	U51109GJ2015PTC084606	DECENT INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
20	AB3003569	U36999GJ2020PTC112288	N.V. JEWELLERY PRIVATE LIMITED
21	AB3011813	U29309GJ2018PTC103208	JAICO CONVERTING MACHINE PRIVATE LIMITED
22	AB3018323	U23209GJ1999PTC036959	ANAND FUEL PRIVATE LIMITED
23	AB3018374	U73100GJ2022PTC132255	KSQUARE MED TECH PRIVATE LIMITED
24	AB3042405	U72900GJ2017PTC098198	COMPUBRAIN INTERNETICS PRIVATE LIMITED
25	AB3043681	U67120GJ2011PTC066693	SUREMONT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
26	AB3049567	U01200GJ2016PTC085923	MANATUNGA STORAGE PRIVATE LIMITED
27	AB3049886	U74999GJ2020PTC119115	DIVYA CHIRAG MART PRIVATE LIMITED
28	AB3056406	U62013GJ2024OPC152632	MANIDDHI AUTOMATION (OPC) PRIVATE LIMITED
29	AB3065354	U18209GJ2019PTC107418	TSAYS CLOTHING PRIVATE LIMITED
30	AB3071869	U18202GJ2022PTC137241	LIMDEE FASHIONS PRIVATE LIMITED
31	AB3082817	U62099GJ2023PTC144975	SIGNATUREGAMEZ PRIVATE LIMITED
32	AB3084693	U20123GJ2023PTC142332	ASIA DAWN INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
33	AB3084716	U85500GJ2016PTC085718	FACULTY OF DESIGN ALUMNI PRIVATE LIMITED
34	AB3089798	U46692GJ2023PTC145484	ECORAW DELIGHTS PRIVATE LIMITED
35	AB3096666	U66190GJ2023PTC139384	EQUALPAY DIGITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
36	AB3098726	U45201GJ1998PTC034347	SAUCHINT BUILDCON PRIVATE LIMITED
37	AB3099827	U45309GJ2020PTC112415	SHK STRUCTURES PRIVATE LIMITED
38	AB3101159	U17119GJ1987PTC009479	ANANT POLYMERS PVT LTD
39	AB3106553	U17299GJ2021PTC121803	KAD NONWOVEN PRIVATE LIMITED
40	AB3106783	U74140GJ2014OPC080706	ARIOCH CONSULTANCY & TRAINING OPC PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
41	AB3106964	U74900GJ2007PTC051635	J.D.M. AGENCIES PRIVATE LIMITED
42	AB3107549	U74999GJ2020PTC116406	BATHWARS SERVICES PRIVATE LIMITED
43	AB3108938	U72200GJ2021PTC127337	VIMAAN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
44	AB3108940	U73100GJ2021PTC125174	IDO-LEADING INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
45	AB3111039	U74909GJ2024PTC153635	VICHAR VISTAR PRIVATE LIMITED
46	AB3117044	U01100GJ2018PTC103874	CATTLE BIOTECH PRIVATE LIMITED
47	AB3121109	U67120GJ2007PTC051359	TECHNOVISION BROKING PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/534—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2723770	U85100HR2019PTC080701	SUNFLAG GLOBAL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
2	AB2763295	U63000HR2019PTC079831	NOMADIC FEET PRIVATE LIMITED
3	AB2773185	U72200HR2020FTC089485	BROADSOURCE INDIA PRIVATE LIMITED
4	AB2829428	U74900HR2016PTC058061	WILLBETHECHANGE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
5	AB2871140	U74999HR2022PTC100402	INVESTIPLY VENTURES PRIVATE LIMITED
6	AB2883416	U70109HR2018PTC074240	BHOPAT PROJECTS PRIVATE LIMITED
7	AB2897362	U17309HR2017PTC069382	NUTAN SPINNING & WEAVING PRIVATE LIMITED
8	AB2898659	U15100HR2020PTC088276	MERKEN FOODS PRIVATE LIMITED
9	AB2903665	U72900HR2020PTC087660	LABNEAR TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
10	AB2909633	U65992HR2007PTC037436	SUKH SAMRIDDHI CHITS PRIVATE LIMITED
11	AB2923769	U67110HR2022PTC105458	LEXDOCERE CONSULTING PRIVATE LIMITED
12	AB2940873	U72900HR2021PTC097608	DEXEL GAMES PRIVATE LIMITED
13	AB2958139	U51397HR2020PTC087459	AAYU BIOTECH PRIVATE LIMITED
14	AB2969825	U72900HR2022PTC106912	FYP MONEY PRIVATE LIMITED
15	AB2970057	U15201HR2019PTC079340	ATTIUTTAM MILK PRIVATE LIMITED
16	AB2980100	U85300HR2021PTC093951	SWAKALYAN HEALTH AND WELLNESS PRIVATE LIMITED
17	AB3008638	U72900HR2022FTC101421	GEOLEADER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
18	AB3039910	U93290HR2024PTC117731	HOP N FUN PRIVATE LIMITED
19	AB3046236	U15100HR2019PTC083421	MOHAN AGRI PROCESSORS PRIVATE LIMITED
20	AB3051988	U74900HR2015PTC056470	PERFECT TECHSOFT PRIVATE LIMITED
21	AB3055850	U74999HR2017FTC072014	MINERALS REFINING INDIA PRIVATE LIMITED
22	AB3060036	U74999HR2019PTC084054	SARA MUSIC PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
23	AB3091152	U55101HR2020PTC087008	DIPS N PEAS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
24	AB3096929	U52100HR2011PTC042622	UNITED DESIGNER BRANDS PRIVATE LIMITED
25	AB3098937	U60200HR2018PTC072267	BKP WHEELBASE LOGISTIC PRIVATE LIMITED
26	AB3108843	U51909HR2019PTC078716	SEVENMOVES INTERNATIONAL MARKETING PRIVATE LIMITED
27	AB3112492	U62099HR2023PTC113557	ACHIEVERS INFORMATION MANAGEMENT AND STORAGE SERVICES PRIVATE LIMITED
28	AB3115694	U47722HR2023PTC116193	AACHARYA SHREE HEALTHCARE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
29	AB3116665	U70101HR2013PTC049450	RANAWAT BUILDERS PRIVATE LIMITED
30	AB3118512	U72900HR2022PTC105499	YOUNG BLING PRIVATE LIMITED
31	AB3118617	U37100HR2022PTC107041	ARRA RECYCLING PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/535—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2929901	U27100HP2021PTC008738	MAA BALA SUNDRI TUBES PRIVATE LIMITED
2	AB2935607	U45102HP2023PTC010032	HAUSOF AUTOS PRIVATE LIMITED
3	AB3094008	U24299HP2020PTC007837	ATTRI BIO PRODUCTS AND SERVICES PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/536—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the

Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2878209	U46102JH2024PTC021965	SKINOVIST PRIVATE LIMITED
2	AB2905535	U51909JH2022PTC018635	AADHAROON AGRI SERVICES PRIVATE LIMITED
3	AB2941812	U62099JH2023PTC020046	ASB NETWORK PRIVATE LIMITED
4	AB3082275	U14290JH2016PTC008737	ARTHAH RESOURCES PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/537—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2633400	U74200KA2019PTC127252	SMEPCO ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
2	AB2755629	U18101KA2007PTC044035	JL ATELIER COUTURE DESIGN PRIVATE LIMITED
3	AB2783183	U72900KA2022PTC164974	GANZO LABS PRIVATE LIMITED
4	AB2787572	U50400KA2020PTC142403	VEA OIL AND GAS PRIVATE LIMITED
5	AB2789731	U21099KA2019OPC128086	MAAHI CELEBRATIONS (OPC) PRIVATE LIMITED
6	AB2793727	U22219KA2022PTC165540	LIKHAAMI PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
7	AB2801645	U80301KA2000PTC026387	SOFT-ED SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
8	AB2805593	U74999KA2018PTC110691	VAULTKEEPERS INVESTMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
9	AB2820206	U72200KA2010PTC053401	MINDSTRETCH LEARNING LAB PRIVATE LIMITED
10	AB2823008	U52609KA2021PTC145818	IQUBIX GLOBAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
11	AB2828289	U85222KA2023PTC176300	AKIRA FLUENCY ACADEMY PRIVATE LIMITED
12	AB2828856	U72900KA2021PTC153581	ZYNSTAR STRATEGIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
13	AB2843299	U82990KA2023PTC170947	CNSB CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED
14	AB2844339	U72200KA1989PTC010543	NUMAG DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
15	AB2849475	U65992KA1994PTC016843	SREE GURU CHITS PRIVATE LIMITED
16	AB2865244	U80301KA2019PTC121282	EEGLOO FULLDOME SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
17	AB2867208	U45205KA2016PTC085554	RANSCEEL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
18	AB2877173	U70101KA2020PTC136959	GILGAL BUILDERS & DEVELOPERS INDIA PRIVATE LIMITED
19	AB2882052	U74999KA2000PTC027785	IPONICS INDIA PRIVATE LIMITED
20	AB2883281	U72200KA2013PTC070174	WINDMYWINGS RETAIL PRIVATE LIMITED
21	AB2884133	U80303KA2016PTC093251	LEARNING LAB BENGALURU PRIVATE LIMITED
22	AB2896439	U74900KA2015PTC078685	SQS HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
23	AB2899835	U65992KA2015PTC083306	SHIVABHAVANI BGK CHITS PRIVATE LIMITED
24	AB2900732	U51909KA2011FTC059022	AVARAMETAL RESOURCES PROCESSING (INDIA) PRIVATE LIMITED
25	AB2913792	U72900KA2021PTC151594	AEROKNOTS LOYALTY PRIVATE LIMITED
26	AB2917124	U01100KA2020PTC137277	SILWEBRIDGE PRIVATE LIMITED
27	AB2920086	U72900KA2021PTC148995	CULTURECO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
28	AB2924680	U43302KA2023PTC180252	LIVELLY INTERIORS AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
29	AB2924981	U52322KA1982PTC004661	H T EXPORTS PRIVATE LIMITED
30	AB2927594	U63121KA2024PTC189175	ZLOCK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
31	AB2928105	U46593KA2023OPC174362	OURSEM ELECTRONICS (OPC) PRIVATE LIMITED
32	AB2934093	U72200KA2022PTC157042	OCTAVIAN BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
33	AB2937345	U13136KA2023FTC175120	QUENBY BRANDING SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
34	AB2941945	U40300KA2011PTC057519	SRI VENTURES ECO ENERGY INDIA PRIVATE LIMITED
35	AB2942236	U62099KA2023PTC172999	BREX PAYMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
36	AB2943975	U72900KA2019PTC130658	GRTSA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
37	AB2946512	U14102KA2004PTC035111	ANA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
38	AB2950407	U62020KA2023PTC173000	AWESTACK LABS PRIVATE LIMITED
39	AB2951034	U72200KA2022PTC161919	PRAXIMAX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
40	AB2964218	U51504KA2007PTC044373	TECTRI TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
41	AB2967802	U72900KA2019PTC126676	EDUSAAS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
42	AB2968081	U31200KA2013PTC069447	ELMAN ENGINEERING PRIVATE LIMITED
43	AB2968735	U72900KA2019PTC121032	NIYATA ENTERPRISE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
44	AB2979850	U74110KA1989PTC010352	GODEERA METALS PRIVATE LIMITED
45	AB2990220	U51909KA2022PTC162398	ANSH AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
46	AB2993801	U78300KA2024FTC191370	SHANG BIN RESOLUTION INDIA PRIVATE LIMITED
47	AB2998368	U15490KA2018PTC117030	GREENHUBZ NUTRITIONAL FOODS AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
48	AB3000210	U72900KA2022FTC160291	LIBITUM SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
49	AB3011700	U60300KA2018PTC110814	SAMARPANA SHARED TRANSPORT SYSTEM PRIVATE LIMITED
50	AB3028072	U72900KA2021PTC152060	DR VLSI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
51	AB3030870	U90009KA2023PTC173487	FIRKIE SPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
52	AB3037630	U74999KA2019PTC124305	VALUESURGE PRIVATE LIMITED
53	AB3040221	U74999KA2018PTC112888	SAMATVAM AYURNYOGA PRIVATE LIMITED
54	AB3051133	U74999KA2017PTC107233	CWX CRAFTWORKS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
55	AB3057053	U65999KA2021PTC147031	FIDENT WEALTH PRIVATE LIMITED
56	AB3059250	U15400KA2020PTC138206	FARM2BOX NATURALS PRIVATE LIMITED
57	AB3059820	U74999KA2018PTC110567	LEADLEAN CONSULTING PRIVATE LIMITED
58	AB3061977	U24246KA2020PTC132955	GLOWPINK PRIVATE LIMITED
59	AB3063117	U52609KA2022OPC167787	GLING APPAREL (OPC) PRIVATE LIMITED
60	AB3065669	U74999KA2018PTC115438	FIRSTNOTCH BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
61	AB3078369	U52339KA2021PTC153895	AGATYA AGENCIES PRIVATE LIMITED
62	AB3078964	U74999KA2016PTC094907	BLUEGILD SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
63	AB3081905	U72200KA2011PTC061621	TRADONOMIX WEBSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
64	AB3084402	U74999KA2021PTC149108	AGNATECH INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
65	AB3085854	U93290KA2023PTC172833	PROWORX SPORTS & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
66	AB3090789	U74999KA2022PTC166739	MORALE HR SERVICES AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
67	AB3097322	U24290KA2022PTC166997	WANYA LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
68	AB3098170	U29299KA2006PTC039012	ELEORA ELECTRICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
69	AB3099624	U80900KA2018PTC112531	NURTURING YOUNG MINDS ACADEMY PRIVATE LIMITED
70	AB3099757	U72200KA2009PTC048785	DAVINCI NANOTECH PRIVATE LIMITED
71	AB3099995	U52599KA2015PTC081543	FIZY SHOPPY INDIA PRIVATE LIMITED
72	AB3100406	U70102KA1992PTC037583	S I INFRA-BUILD PRIVATE LIMITED
73	AB3103411	U55101KA2023PTC175516	VISIVI RAM HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
74	AB3108102	U74999KA2018PTC114455	CIRCLE INTERNET TECH PRIVATE LIMITED
75	AB3108425	U70100KA2015PTC082771	NANDAJYOTHI BUILDERS PRIVATE LIMITED
76	AB3111703	U51101KA2012PTC064308	AVIK ELECTRONIC MARKETING AND SERVICES PRIVATE LIMITED
77	AB3114315	U74999KA2020PTC134790	QUERY DATA SYSTEMS PRIVATE LIMITED
78	AB3114582	U52335KA2009PTC049446	EVOLVE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
79	AB3117934	U32109KA2006PTC038221	STAR WELD MACHINE PRIVATE LIMITED
80	AB3121633	U10200KA2014PTC077377	COMPOSITE MINE SAFETY AND OPERATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
81	AB3123151	U74999KA2019PTC129878	GROVIS ADVISORY PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/538—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2744146	U52399KL2021PTC069164	VALUE SUPERMARTS PRIVATE LIMITED
2	AB2813443	U24110KL2021PTC067102	CRISSCROSSMD PRIVATE LIMITED
3	AB2828681	U55209KL2020PTC065103	DEEPANJALISIGNATURE RESTAURANT PRIVATE LIMITED
4	AB2856129	U52339KL2011PTC027551	CASMIR EXIM PRIVATE LIMITED
5	AB2858230	U45201KL2006PTC019145	KARITHADATHIL BUILDERS AND PROPERTIES PRIVATE LIMITED
6	AB2873649	U72900KL2021OPC069104	TAUBETECH (OPC) PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
7	AB2881056	U74999KL2019PTC056150	CALLBELL PRIVATE LIMITED
8	AB2881087	U92413KL2013PTC033615	MUD SWEAT AND GEARS INDIA PRIVATE LIMITED
9	AB2881193	U60200KL2024PTC085991	SKYARK PICTURES PRIVATE LIMITED
10	AB2894605	U74999KL2007PTC020223	KANNUR MOBILE PRIVATE LIMITED
11	AB2906897	U31501KL2020PTC062885	ESPERA GREEN SYNERGY PRIVATE LIMITED
12	AB2908196	U96020KL2023OPC083315	GORGEOUSLAND (OPC) PRIVATE LIMITED
13	AB2919142	U65992KL2017PTC051033	ORDINARY CHITS PRIVATE LIMITED
14	AB2946277	U72900KL2016PTC046081	PICTINK TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED
15	AB2959417	U72900KL2021PTC068443	SPEED DEEM PRIVATE LIMITED
16	AB2962172	U51109KL2000PTC013770	ALISONS BUSINESS LINKS PRIVATE LIMITED
17	AB2995099	U72200KL1990PTC005578	COCHIN SHARE REGISTRY AND SOFTWARE CONSULTANTS PVT LTD
18	AB3010147	U65990KL2022PLN078061	SREE KUMARA SAMAJAM KODUNGALLUR NIDHI LIMITED
19	AB3019089	U51909KL2019PTC060463	ANTHALASA BRANDS PRIVATE LIMITED
20	AB3031464	U74900KL2015PTC039556	MEDIWARE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
21	AB3037985	U72200KL2005PTC018372	WEBTECK CONSULTING PRIVATE LIMITED
22	AB3057783	U72900KL2014FTC036915	GRINDAN IT CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
23	AB3073181	U80903KL2014PTC036984	REAL TIME SOLUTIONS & TRAINING CENTRE PRIVATE LIMITED
24	AB3081630	U74999KL2019PTC059278	MBED CARE PRIVATE LIMITED
25	AB3082085	U55100KL2019PTC059327	SHAWARGER PRIVATE LIMITED
26	AB3083918	U63030KL2020PTC061109	INDUSGO MOBILITY AND TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED
27	AB3095716	U85499KL2023PTC083627	TECHQUA INSTITUTE FOR QUALITY & MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
28	AB3106257	U01400KL2020PTC064041	ORIGINSPOT PRIVATE LIMITED
29	AB3106505	U51909KL2018PTC051891	NAFATA 360 PHARMA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
30	AB3114292	U65992KL2001PTC014448	PUNARJANI CHITS PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/539—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2839859	U29200MP2022PTC062113	M.P. EXPLOSIVES PRIVATE LIMITED
2	AB2866466	U15490MP2021PTC058251	KK NAKODA GREEN PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
3	AB2895152	U45200MP2006PLC019017	SNAP INDIA CONSULTANCY LIMITED
4	AB2919221	U93090MP2018OPC044860	NATANI COMMUNICATIONS (OPC) PRIVATE LIMITED
5	AB2930718	U74110MP2020PTC053613	PRAMAN BEAUTY CARE PRIVATE LIMITED
6	AB2940661	U65990MP2020PLN053608	SVARN SHRI NIDHI LIMITED
7	AB2951175	U45200MP2013PTC031649	BARJATYA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
8	AB2978363	U45201MP2022PTC059448	DEEP TOWNSHIP PRIVATE LIMITED
9	AB2998738	U60221MP2017PTC043299	PITAMBRA TRANSPORT SERVICES PRIVATE LIMITED
10	AB3051767	U17121MP1996PTC010770	D.S.C.TEXTILES PRIVATE LIMITED
11	AB3051805	U10799MP2023PTC066038	RATLAMI SWAAD FOODS & NAMKEEN PRIVATE LIMITED
12	AB3055694	U40106MP2015PTC034825	AERA SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
13	AB3065116	U70109MP2022PTC063378	SHIVLOK REALITY PRIVATE LIMITED
14	AB3070984	U52101MP2021PTC055867	BRJ COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
15	AB3078237	U70100MP2011PTC026676	AMARKANTAK COLONISORS PRIVATE LIMITED
16	AB3079323	U74999MP2022PTC063019	FLORASAVE ENVIRONMENTAL SERVICES PRIVATE LIMITED
17	AB3082215	U74999MP2022PTC063005	REEFS ECO ENVIRONMENTAL SERVICES PRIVATE LIMITED
18	AB3090472	U74999MP2022PTC063156	SYKUS ENVIRONMENTAL SERVICES PRIVATE LIMITED
19	AB3097968	U70109MP2021PTC055521	SHRI MAHALSA INNOVATIVE HOMES PRIVATE LIMITED
20	AB3100200	U80904MP2022PLC063562	CLIMACOOOL PROJECTS & EDUTECH LIMITED
21	AB3102787	U42101MP2023PTC068665	SARVESH BUILDCON PRIVATE LIMITED
22	AB3104667	U67190MP2014PTC032148	STREAMLINE FOREX CURRENCY EXCHANGE & CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
23	AB3109314	U68200MP2023PTC067367	B7 PROPERTIES PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/540—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2744212	U80900MH2022PTC392032	KVNP GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2	AB2751154	U65990MH1991PTC059620	PRAFULL HOLDINGS PRIVATE LIMITED
3	AB2771609	U28910MH2014PTC256779	ARVA PLASTECH PRIVATE LIMITED
4	AB2812109	U70102MH2011PTC213385	JAGAVI REAL ESTATE PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
5	AB2821887	U65090MH1992PTC065901	NATRAJ OCTROI CLEARING AND FORWARDING PVT LTD
6	AB2823331	U45201MH2006PTC164750	SIDDHA INFRACON PRIVATE LIMITED
7	AB2849536	U32100MH1986PTC040717	INTER EQUIPMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
8	AB2851340	U51909MH2016PTC286189	SUCHI PRODUCTS PRIVATE LIMITED
9	AB2851710	U64990MH2023PLN398651	TULIIPP NIDHI LIMITED
10	AB2861769	U74120MH2009PTC192127	IGNITE ADVISORS PRIVATE LIMITED
11	AB2874145	U74120MH2015PTC268051	GALAXY VISION ADVANCED HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
12	AB2875833	U74120MH2014PTC253485	YASH CELL WORLD PRIVATE LIMITED
13	AB2877176	U45400MH2009PTC197428	SERENITY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
14	AB2889051	U51494MH2010PTC208871	SHREE KALKA AGROTEX PRIVATE LIMITED
15	AB2889089	U74999MH2013PTC250563	THIRD I-MEDIACOM PRIVATE LIMITED
16	AB2891109	U63032MH2008PTC181705	OFFSHORE MARINE COMPLEX (I) PRIVATE LIMITED
17	AB2896643	U70102MH2012PTC235482	MSK REALTORS PRIVATE LIMITED
18	AB2902113	U34300MH2020PTC347843	AANS MANUFACTURING AND AUTOMATION PRIVATE LIMITED
19	AB2908976	U74999MH2018PTC303689	JMSD AND COSIMA PRIVATE LIMITED
20	AB2911269	U74999MH2018PTC307149	SCIENZA LABORATORIES PRIVATE LIMITED
21	AB2912253	U65929MH2022PLN391575	PUSEGAON URBAN NIDHI LIMITED
22	AB2914190	U21000MH2024PTC430202	SYNURE PHARMA PRIVATE LIMITED
23	AB2922015	U51909MH2018PTC316645	URVYA GENERAL TRADING PRIVATE LIMITED
24	AB2925955	U85100MH2021PTC359093	SAPTA GANGA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
25	AB2929761	U74999MH2015PTC262098	FOREVER FRESH LOGISTICS PRIVATE LIMITED
26	AB2931547	U74999MH2020PTC343174	FIRI LIVE PRIVATE LIMITED
27	AB2933458	U74999MH2014PTC251770	INFINITY HEATING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
28	AB2937039	U74994MH2009PTC193997	ESTINNA FASHIONS PRIVATE LIMITED
29	AB2939469	U45200MH2023PTC397069	PUKAR DEVELOPERS AND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
30	AB2945131	U65929MH2022PLN391344	UMARKHED URBAN NIDHI LIMITED
31	AB2946974	U51109MH2008PTC180073	MASCOT GLOBAL PRIVATE LIMITED
32	AB2951984	U63040MH2002PTC134596	BREEZE TRAVELS AND TOURS PRIVATE LIMITED
33	AB2952901	U15412MH2021PTC360324	FAIRYTALE FOODS INDIA PRIVATE LIMITED
34	AB2953471	U92419MH2022PTC374922	RQA E-SPORTS COLLECTIVE PRIVATE LIMITED
35	AB2957559	U45202MH2008PTC188909	TANAYA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
36	AB2958773	U19202MH2020PTC345304	INNOVURA MULTITRADE PRIVATE LIMITED
37	AB2960557	U74120MH2012PLC230995	THYROCAR INTERNATIONAL LIMITED
38	AB2961397	U62099MH2023FTC412417	EAGAN HOLDCO INDIA PRIVATE LIMITED
39	AB2963928	U51496MH1992PTC067311	VINHAR CHEMICALS PRIVATE LIMITED
40	AB2966704	U74999MH2018PTC313447	TORPEDO CME PRIVATE LIMITED
41	AB2967803	U51909MH2021OPC367673	NOBLEDEAL MULTI SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
42	AB2970966	U74140MH2010PTC199923	PFI ADVISERS PRIVATE LIMITED
43	AB2971655	U55101MH2021PTC363247	RANJANA RESTAURANTS PRIVATE LIMITED
44	AB2974082	U72200MH1999PTC118422	INDISOFT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
			LIMITED
45	AB2974879	U74120MH2012PTC238448	DIRBA ARTS PRIVATE LIMITED
46	AB2980784	U80300MH1999PTC120053	A. K. MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
47	AB2985681	U45200MH2010PTC207031	SWARAJ ONKAR STRUCCON PRIVATE LIMITED
48	AB2986976	U65999MH2011PTC214812	BSPA ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
49	AB2989105	U24290MH2020PTC348418	BLOOVISH COSMETICS PRIVATE LIMITED
50	AB2991902	U24290MH2021PTC373163	C6 KAUKILIUM PRIVATE LIMITED
51	AB2991972	U72300MH1992PTC064888	BETA SHARE SERVICES PVT LTD
52	AB2992812	U74999MH2016PTC281692	GETMYVISA TRAVEL SERVICES PRIVATE LIMITED
53	AB3000219	U74999MH2021PTC360550	AKISA LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
54	AB3006650	U46901MH2023PTC400494	TRENDOHIVE SERVICES PRIVATE LIMITED
55	AB3008395	U72900MH2017PTC299835	VIMPRA DIGITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
56	AB3018760	U43302MH2023PTC408180	NOVACASA CERAMICA PRIVATE LIMITED
57	AB3019289	U65990MH1983PTC029593	JAG INVESTMENT PVT LTD
58	AB3023364	U52609MH2018PTC317268	SEGONIMUS IMPEX PRIVATE LIMITED
59	AB3025111	U74999MH2021PTC353389	SUCCESS PATHWAY TO OZ IMMIGRATION CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
60	AB3025632	U85310MH2017PTC295626	ARMAAN WELLNESS PRIVATE LIMITED
61	AB3028703	U29102MH2023PTC402528	NANDISHVARA KRUSHYAN PRIVATE LIMITED
62	AB3037117	U51909MH2021PTC358814	VPSTAR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
63	AB3037237	U29299MH1995PTC088839	PIRTHVI & SONS TOOLS & MACHINE (PUNE) PRIVATE LIMITED
64	AB3038536	U92490MH2019PTC331026	GOLDEN EAGLE PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
65	AB3045006	U74999MH2018OPC308787	RURAL EXPERIENCES TRAVELS (OPC) PRIVATE LIMITED
66	AB3047043	U72300MH2015PTC267254	VINTRR TECH PRIVATE LIMITED
67	AB3048730	U51900MH1997PTC105449	DON FAB INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
68	AB3052540	U34300MH2008PTC185292	PLATINUM MOTORS PRIVATE LIMITED
69	AB3058520	U74120MH2012PTC232729	FREESIA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
70	AB3058572	U74120MH2011PTC218862	COOLBLAZE MARINE PRIVATE LIMITED
71	AB3062037	U51909MH2019PTC318959	IDEAS91 INDIA PRIVATE LIMITED
72	AB3066171	U31900MH2019PTC323505	KRYFS ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
73	AB3066787	U72200MH2018PTC314566	STEPBUCK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
74	AB3073337	U51900MH1994PTC080393	DOMINICAN TRADING PRIVATE LIMITED
75	AB3074718	U70200MH2023PTC402727	OPENEYE CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
76	AB3074999	U93030MH2013PTC242703	VILONA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
77	AB3076204	U74140MH2022PTC379846	SHIKHARGIRI TRADESOL PRIVATE LIMITED
78	AB3077102	U45200MH2017PTC290209	WADE REALITY AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
79	AB3077584	U63000MH2010PTC207500	ARIES TRAVEL ZONE PRIVATE LIMITED
80	AB3078413	U74110MH1977PTC019927	G R CHEMICALS INDUSTRY PRIVATE LIMITED
81	AB3078465	U45209MH2011PTC220678	RAJDITYA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
82	AB3078594	U74999MH2018PTC303668	NEUROCEPTS WELLNESS VENTURES PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
83	AB3082638	U01611MH2024OPC424182	OZIBLISS GARDEN DEVELOPERS (OPC) PRIVATE LIMITED
84	AB3086137	U72300MH2000PTC129211	DIVERSIFIED EQUITY (INDIA) PRIVATE LIMITED
85	AB3088431	U70100MH2009PTC198020	VASUNDHARA SPRING FIELDS PRIVATE LIMITED
86	AB3088495	U74999MH2017PTC301747	TRUVIC FOOD AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
87	AB3089265	U86100MH2023PTC401646	PINNACLE VISION SERVICES PRIVATE LIMITED
88	AB3090709	U55901MH2023PTC404501	RIVERBIRD MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
89	AB3090840	U74999MH2018PTC317447	NOVICE RECORDS PRIVATE LIMITED
90	AB3092084	U74999MH2017PTC298953	SKFF PRIVATE LIMITED
91	AB3092525	U93000MH2019PTC320048	DOG POUND PRIVATE LIMITED
92	AB3092611	U28299MH2023PTC400842	WEIZTARGE TECHNOPACK PRIVATE LIMITED
93	AB3094344	U74990MH2009PTC193174	LCA COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
94	AB3094503	U72501MH2019PTC331056	CREDOFAST FINTECH PRIVATE LIMITED
95	AB3094808	U80101MH2021PTC366509	CODE MUSIC STUDIOS PRIVATE LIMITED
96	AB3095295	U72900MH2016PTC281028	KESTRELS SERVICES PRIVATE LIMITED
97	AB3099720	U47711MH2024PTC432331	KNITTAR CLOTHING PRIVATE LIMITED
98	AB3101030	U63030MH2021PTC360103	ARO TRANS PROJECT PRIVATE LIMITED
99	AB3101178	U74999MH2020PTC337998	CADRE LABS AND INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
100	AB3101850	U72300MH2011PTC222815	ZEKE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
101	AB3106177	U73100MH2011PTC212189	FLUIDDA INDIA MEDICAL IMAGING PRIVATE LIMITED
102	AB3106847	U67100MH2020PTC340049	EAST BRIDGE INVESTMENT ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED
103	AB3107429	U74999MH2011PTC223540	FORTUNE INDUSTRIAL SUPPLIES PRIVATE LIMITED
104	AB3107538	U45300MH2024PTC420126	S3T AUTO TRADE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
105	AB3108738	U72900MH2010PTC205109	V-SERVE INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
106	AB3109715	U74110MH2020PTC350920	SUMMERLAB PRIVATE LIMITED
107	AB3110679	U72200MH1987PTC044850	LINK SOFTWARE AND SYSTEMS PVT LTD
108	AB3112575	U74999MH2019PTC330579	RINNEW MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
109	AB3112668	U74994MH2020PTC347966	WONDRLAB CONTENT PRIVATE LIMITED
110	AB3114199	U51909MH2018PTC318863	ASAHI EXPORTS PRIVATE LIMITED
111	AB3114204	U67120MH1982PTC026494	KSHITIJ HOLDINGS AND ENGINEERING PVT LTD
112	AB3114401	U39000MH2023PTC398542	SAKSHAM ENVIRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
113	AB3115551	U74120MH2011PTC212391	JNA BEARINGS PRIVATE LIMITED
114	AB3115669	U85300MH2022PTC376017	UR MEDICARE PRIVATE LIMITED
115	AB3117199	U72900MH2023OPC397460	CHERRYCO FANATIC (OPC) PRIVATE LIMITED
116	AB3117675	U31900MH2022PTC387871	ARCH ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
117	AB3117973	U74999MH2015PTC266991	PURELIFE WATER PURIFICATION PRIVATE LIMITED
118	AB3118845	U72900MH2020PTC347452	CUBEROOT DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
119	AB3119085	U45400MH2011PTC218267	MONTECINO ESTATES PRIVATE LIMITED
120	AB3120059	U78100MH2023PTC405293	INNOVACRUIT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
121	AB3121384	U74999MH2015PTC268342	SABSOLVE ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
122	AB3121623	U99999MH1993PTC071034	GABREAL PHARMACEUTICALS PVT LTD

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
123	AB3122426	U50402MH2010PTC200245	MARIUS MULTITRADE PRIVATE LIMITED
124	AB3122601	U55101MH2021PTC359286	ZINTZOA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/541—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2790703	U15134PN2020PTC189200	MATTERHORN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2	AB2820510	U85100PN2022PTC213853	RUBYCOOPER HOSPITAL PRIVATE LIMITED
3	AB2838675	U65990PN2022PTC217051	ICONIC SEVEN TEN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
4	AB2874214	U28132PN2024PTC230035	SUKHADHA TECHNOCRATS INDIA PRIVATE LIMITED
5	AB2879673	U62099PN2023PTC224836	BAKER SOFTWARE STUDIO PRIVATE LIMITED
6	AB2891645	U01119PN2019PTC187986	GOODBYNATURE PRIVATE LIMITED
7	AB2894148	U74999PN2010PLC136887	GIRIVAN SECURITY AND MAINTAINANCE COMPANY LIMITED
8	AB2908128	U72300PN2004PTC019341	SHRUJAN SYSTEMS PRIVATE LIMITED
9	AB2909063	U28251PN2024PTC232244	SVP SWASTIK VALVES AND PUMPS PRIVATE LIMITED
10	AB2910829	U72900PN2017PTC169630	TERSE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
11	AB2915575	U31900PN2013PTC147568	ARYA ELECTROMECH PRIVATE LIMITED
12	AB2923405	U72400PN2009PTC134613	PLAYTINUM SOFTWARE & MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED
13	AB2947812	U33200PN2021PTC203433	XITO LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
14	AB2949911	U35999PN2019PTC185491	CADENCE MOBILITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
15	AB2962794	U24299PN2019OPC184272	SAVERS RESEARCH TECH (OPC) PRIVATE LIMITED
16	AB2972630	U63000PN2011PTC141543	TRAVELTIME CARS INDIA PRIVATE LIMITED
17	AB2986336	U45400PN2007PTC158668	ATTAR PROMOTERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
18	AB2994746	U19129PN2021PTC206892	COLUMBUS SPORTS PRIVATE LIMITED
19	AB2995991	U70200PN2019PTC188487	SKY VALLEY SUIT REALTY PRIVATE LIMITED
20	AB2997707	U19201PN2023PTC222205	FORMWORK OIL VENTURES PRIVATE LIMITED
21	AB2998989	U15132PN2015PTC156865	DALVI CULINARY INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
22	AB3001810	U46101PN2023PTC223003	EXPORTELTE PRIVATE LIMITED
23	AB3006875	U72100PN2021PTC197772	PAYCARDO PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
24	AB3009687	U93000PN2017PTC170400	RNL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
25	AB3033739	U63999PN2024FTC227772	TURNKEY CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED
26	AB3040169	U74999PN2019PTC187128	AITH PRIVILEGE ANALYTICA & FINSERVE PRIVATE LIMITED
27	AB3066000	U31904PN2018PTC177819	SIDDHESHWAR ELECTRICALS AND INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
28	AB3067293	U52609PN2020OPC189820	ARNA COMTRADE (OPC) PRIVATE LIMITED
29	AB3074900	U72900PN2005PTC021156	TARA SOFTTECH SERVICES PRIVATE LIMITED
30	AB3084969	U85190PN2021PTC198123	SUYOG PULSE HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
31	AB3086370	U58201PN2023PTC224971	PULLMETA PRIVATE LIMITED
32	AB3094703	U01820PN2020PTC190011	F2C AGROHEALTH INDIA PRIVATE LIMITED
33	AB3095540	U74999PN2018PTC178959	DAIMON ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
34	AB3101657	U92100PN2013PTC149712	LOADING PICTURES PRIVATE LIMITED
35	AB3105534	U72200PN2015PTC154357	VIJAYLAKSHMI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
36	AB3106363	U43219PN2023PTC220338	SURYAM SOLAR SYSTEM PRIVATE LIMITED
37	AB3110643	U72200PN2022PTC215819	GROVEBYTE PRIVATE LIMITED
38	AB3110837	U15490PN2019PTC184193	AUGMENTED FOODS INDIA PRIVATE LIMITED
39	AB3114904	U72200PN2001PTC016117	NEW AGE SOFTECH PRIVATE LIMITED
40	AB3116973	U20299PN2024PTC227857	INNOFUSION ENGINEERING AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED
41	AB3117451	U68100PN2023PTC224632	TRUSTSEED PARTNERS PRIVATE LIMITED
42	AB3117697	U72900PN2016PTC165623	YAVIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
43	AB3118642	U72900PN2007PTC131185	PUJASHREE INFOTECH PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Company

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/542—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Company has been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2847484	U92412MN2015PTC008432	NEROCA FOOTBALL CLUB PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Company

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/543—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Company has been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2908225	U10799NL2023OPC013807	YALAND INTERNATIONAL (OPC) PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/544—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2905691	U80900OR2018PTC028776	WHITE INK EDUCATION PRIVATE LIMITED
2	AB2968350	U74999OR2020OPC032753	VINDHYAVASHINI CATERING AND EVENT MANAGEMENT (OPC) PRIVATE LIMITED
3	AB2980360	U15142OR2004PTC007522	ARIHANT EDIBLE OILS PRIVATE LIMITED
4	AB3089227	U85200OR2017PTC027340	UDRA UBUNTU HEALTHCARE PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/545—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the

Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2988554	U72900PY2019PTC008389	KONROD SOLUTION PRIVATE LIMITED
2	AB3109788	U52100PY2022PTC008906	SMM ASSOCIATES PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/546—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2722842	U34102PB2020PTC050656	POLSKA NEWSWAN PRIVATE LIMITED
2	AB2808550	U72900PB2014PTC038708	KRUZIIK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3	AB2890123	U80900PB2021PTC054127	VAIBHAV STUDY & IMMIGRATION PRIVATE LIMITED
4	AB2971453	U72900PB2014PTC038778	UNFOLDU ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5	AB3017536	U85301PB2023OPC059194	BENZOMETRY EDUVENTURES (OPC) PRIVATE LIMITED
6	AB3087339	U55101PB1996PTC018193	PAYAL HOTELS PRIVATE LIMITED
7	AB3094235	U28939PB1995PTC016956	V V TOOLS PRIVATE LIMITED
8	AB3096035	U30923PB2023PTC058553	EASTMAN METALITE PRIVATE LIMITED
9	AB3097002	U14106PB2009PTC033186	AJAY CEMENT PRODUCTS PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/547—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2758615	U21090RJ2022PTC084897	BIOSWAG INDIA PRIVATE LIMITED
2	AB2866899	U99999RJ1991PTC068790	JODHPUR CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
3	AB2887140	U47190RJ2023PTC090488	ALS ARTDESIGNS PRIVATE LIMITED
4	AB2960917	U45201RJ2013PTC042883	SHREE RANISATI BUILDESTATE PRIVATE LIMITED
5	AB2975976	U27101RJ1996PTC012016	ONKAR ALLOYS PVT LTD
6	AB2976753	U58203RJ2023PTC086320	SKLITE GAMES PRIVATE LIMITED
7	AB2981477	U72200RJ2011PTC034769	UNICOLUMN SOFTWARE PRIVATE LIMITED
8	AB2982719	U80904RJ2018PTC060948	AJMO EDUBIZZ PRIVATE LIMITED
9	AB3006255	U80904RJ2022PTC081335	CAMBEREDU GLOBAL PRIVATE LIMITED
10	AB3009648	U70109RJ2021PTC077254	JHONPDA BUILDERS PRIVATE LIMITED
11	AB3037892	U74999RJ2020PTC071223	RAJKUL TEXTILES PRIVATE LIMITED
12	AB3060564	U70101RJ2012PTC039683	GOLDEN WINGS REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
13	AB3066981	U72900RJ2013PTC042304	PAIRROXZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
14	AB3082970	U65999RJ2021PLN072860	SHRI KESARINANDAN NIDHI LIMITED
15	AB3097389	U27109RJ2007PTC023646	ARIHANT IRON PRIVATE LIMITED
16	AB3100046	U74140RJ2015OPC048140	HANDMEDLEY TECHNOLOGIES OPC PRIVATE LIMITED
17	AB3100660	U80903RJ2020PTC070056	HARSHVARDHAN HOTSPOT PRIVATE LIMITED
18	AB3106850	U51909RJ2020PTC071647	MY VISION LIFE PRIVATE LIMITED
19	AB3107710	U45209RJ2021PTC078102	PRASHVIK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
20	AB3109322	U62011RJ2024PTC093532	SOFTNEX SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
21	AB3111697	U51505RJ2020PTC068719	SUBHAMRAT ELECTIMATION PRIVATE LIMITED
22	AB3116209	U55101RJ2023PTC090081	AVINS HOTELS & MOTELS PRIVATE LIMITED
23	AB3117521	U72900RJ2013PTC044715	ZEALTECHNO WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
24	AB3118881	U45200RJ2016PTC055700	BRISKMIND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
25	AB3118909	U72200RJ2011PTC035009	TRIVIKARMA INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/548—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2694105	U15133TN2017PTC117363	STANYA DAIRY AND FOOD PRODUCTS EXIM (INDIA) PRIVATE LIMITED
2	AB2776320	U19121TN1972PTC006178	SIMSON & MC.CONECHY (INDIA) PRIVATE LIMITED
3	AB2795170	U72200TN2006PTC059877	DEEP VALUE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
4	AB2821267	U96010TN2024PTC167587	PURPLE LUXURY BEDDINGS TEXPARK PRIVATE LIMITED
5	AB2851930	U72500TN2009PTC072584	KAVYA CREATIVE MEDIA PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
6	AB2855076	U80902TN2022PTC151605	DIGITALUMTECH PRIVATE LIMITED
7	AB2867273	U74999TN2021PTC142629	ECSG DIGITAL PRIVATE LIMITED
8	AB2884279	U18109TN2022OPC153765	EDLA APPAREL (OPC) PRIVATE LIMITED
9	AB2913884	U93090TN2018PTC124069	FLIKHOST RETAIL SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
10	AB2914036	U70101TN1995PTC031443	GHATALA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
11	AB2915808	U74900TN2011PTC079085	S. KARUNAGARAN MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
12	AB2939530	U67110TN2020PTC140309	CAFS MONEY MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
13	AB2969199	U74999TN2013PTC089435	SARVIK PACKAGING INDIA PRIVATE LIMITED
14	AB2982610	U72900TN2019PTC132241	ACTIVKIDO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
15	AB2989992	U55101TN2022PTC150161	DIVINUS73 FOODS PRIVATE LIMITED
16	AB3017094	U24290TN2020PTC137359	VRKSHA COSMETICS PRIVATE LIMITED
17	AB3060147	U93090TN2018PTC123039	BLINDSPOT LEGALS PRIVATE LIMITED
18	AB3063444	U74999TN2011PTC082000	SMEG BRANDS INDIA PRIVATE LIMITED
19	AB3067902	U45400TN2013PTC091790	KOKI'O SPACES PRIVATE LIMITED
20	AB3084267	U22219TN1993PTC025023	PRECIOUS PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED
21	AB3089149	U72900TN2022PTC154948	MIGA SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
22	AB3095094	U32209TN2004PTC053142	EUROSCOPE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
23	AB3098924	U21001TN2024PTC170580	BRIOQUEST PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
24	AB3100512	U72900TN2021PTC144653	TABI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
25	AB3101235	U71100TN2023PTC161608	ORANGE TECHNOLOGY AND ENGINEERING SERVICES PRIVATE LIMITED
26	AB3103327	U18129TN2023PTC160034	WINSTON PRINTERS PRIVATE LIMITED
27	AB3106800	U17233TN2005PTC056600	RAMYA COIR EXPORTS PRIVATE LIMITED
28	AB3109344	U74999TN2020PTC135854	ARTMETRIX MEDIA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
29	AB3115684	U55209TN2021PTC145711	ANNALAKSHMI BHOJANALAYA PRIVATE LIMITED
30	AB3116171	U72900TN2017PTC118261	VINGYANI ANALYTICS PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/549—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2800966	U19200TZ2021PTC035902	BONKERZ FOOTWEARS PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
2	AB2904805	U14290TZ2016PTC028166	AMMU MINING INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
3	AB2912308	U01111TZ2015PTC021878	AMMU AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
4	AB2915406	U15431TZ2008PTC014789	VG TINDER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
5	AB2929488	U01400TZ2020PTC034520	KISAN SEVA COIMBATORE PRIVATE LIMITED
6	AB2968231	U51909TZ2022PTC039333	SCM CREATION INDIA PRIVATE LIMITED
7	AB2969406	U99000TZ1994PTC004823	RR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
8	AB2996671	U70100TZ2015PTC021667	GLOBAL INFRASTRETCH PRIVATE LIMITED
9	AB2997551	U01100TZ2021PTC035353	GLOBAL BERRY FARMS PRIVATE LIMITED
10	AB3055180	U05110TZ1990PTC002816	EXACT SALES PRIVATE LIMITED
11	AB3109644	U17299TZ2019PTC031747	BIGGATE TEXTILES PRIVATE LIMITED
12	AB3112975	U74999TZ2022PTC039715	SIRIUS HR SERVICES PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/550—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2800452	U40108TG2011PTC076191	TPJ POWER PROJECTS PRIVATE LIMITED
2	AB2848445	U24304TG2019PTC131469	KAILASH LABS PRIVATE LIMITED
3	AB2850242	U64203TG2007PTC054266	SPIRIT NETWORKS PRIVATE LIMITED
4	AB2867490	U46497TS2023PTC179551	ADITYA NARASIMHA GLOBAL PHARMACY PRIVATE LIMITED
5	AB2872712	U29100TG2011PTC074919	MYK TOOLS PRIVATE LIMITED
6	AB2884359	U65990TG2011PTC074667	EXCELLENT GENERAL FINANCE AND INVESTMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
7	AB2886471	U72100TG2019PTC131127	SURGE SOFTWAYTEK PRIVATE LIMITED
8	AB2910134	U73100TG2021PTC153412	DECARB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
9	AB2910863	U85110TG1993PLC015831	ROHINI C.T.SCAN CENTRE LTD
10	AB2914453	U01110TG1996PLC023087	AARYAN AVENUES LIMITED
11	AB2919268	U72900TG2019PTC132455	VOUCH TECH SOFT PRIVATE LIMITED
12	AB2930749	U62020TS2024PTC185101	PERFORANCE SERVICES PRIVATE LIMITED
13	AB2934441	U65910TG1985PTC005897	KANODIA LEASING PVT LTD
14	AB2981677	U74999TG2018PTC129183	SRIKA MICRODOT INDIA PRIVATE LIMITED
15	AB2986045	U29190TG2021PTC151049	STALLIONFLIGHT PRIVATE LIMITED
16	AB3054346	U45309TG2018PTC123560	IHOME AND FARM DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
17	AB3057154	U64200TG2008PTC061543	JM TELCOM PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
18	AB3059145	U40108TG2009PTC066303	ECLAT ENERGY PRIVATE LIMITED
19	AB3071594	U74120TG2011PTC076825	VIJAYA LAKSHMI DIAMONDS (INDIA) PRIVATE LIMITED
20	AB3074286	U72900TG2022PTC159902	ANYLEAD SOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
21	AB3088834	U62013TS2024PTC183020	WCSRM SOFTWARE PRIVATE LIMITED
22	AB3090481	U15490TG2018PTC126823	FRESCURA INDIA PRIVATE LIMITED
23	AB3101269	U45209TG2013PTC085343	SRI VAISHNAVI TRANSLINES PRIVATE LIMITED
24	AB3101505	U74999TG2017PTC120867	ANIM FRAMES PRIVATE LIMITED
25	AB3102286	U15549TG2022PTC161875	ROBIN DISTILLERY PRIVATE LIMITED
26	AB3105315	U74999TG2018PTC124409	KANVA VENTURES PRIVATE LIMITED
27	AB3109169	U62013TS2023PTC171003	SACH CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
28	AB3109574	U72900TG2022PTC159324	BIZLYFE INFOTECH PRIVATE LIMITED
29	AB3110769	U26990TG2021PTC150044	NEXTTITAN PRIVATE LIMITED
30	AB3115504	U80904TG2022PTC161133	SREE ACADEMIC GETAWAY CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
31	AB3119168	U72900TG2008PTC060409	KOLETI IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/551—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2853328	U74900UP2010PTC042683	GRS PRESERVATION PRIVATE LIMITED
2	AB2860766	U74999UP2017OPC095904	ECOTRU PAPER PRODUCTS (OPC) PRIVATE LIMITED
3	AB2863081	U01400UP2021PTC149422	MOLANAPUR FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
4	AB2882490	U72900UP2021PTC147166	BET TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5	AB2886483	U74999UP2016PTC084137	NIDAANGASTRO ENDOSCOPY CENTRE PRIVATE LIMITED
6	AB2906781	U28999UP2021PTC145126	LEZOLT INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
7	AB2907970	U72900UP2020PTC129229	LEADERSBYTE DIGITAL PRIVATE LIMITED
8	AB2924051	U24230UP2022PTC170969	RESNIK INDIA PRIVATE LIMITED
9	AB2926434	U74999UP2019PTC119840	BLUSHFROG E-RETAIL PRIVATE LIMITED
10	AB2934416	U15549UP2019PTC122299	UBA BREWERIES PRIVATE LIMITED
11	AB2950000	U52599UP2021PTC140995	THINKING FAIR PRIVATE LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
12	AB2972049	U74999UP2019PTC122021	BHUUMI EMPOWERS PRIVATE LIMITED
13	AB2982434	U80301UP2022PTC159163	TUTOR24X7 EDUCATION PRIVATE LIMITED
14	AB2983749	U74999UP2019PTC116622	ATRIH LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
15	AB2991760	U72900UP2021PTC153996	SPORTS TEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
16	AB2999133	U72900UP2022PTC168324	VEDUBOT PRIVATE LIMITED
17	AB3004064	U68200UP2024PTC201014	SHAW EXPERIENCES PRIVATE LIMITED
18	AB3004631	U65990UP2019PLN121413	DABORD INDIA NIDHI LIMITED
19	AB3013701	U74999UP2022PTC172354	DUVISO CERTIFICATIONS AND INSPECTIONS PRIVATE LIMITED
20	AB3018427	U72900UP2018OPC104914	ALFA FUTURE VISION (OPC) PRIVATE LIMITED
21	AB3024202	U55101UP2017PTC091120	MISANO RESTRAS PRIVATE LIMITED
22	AB3036569	U52209UP2020PTC139499	FK NUTRIENTS PRIVATE LIMITED
23	AB3039738	U36990UP2021PTC147118	PASHUPATI FABTEX PRIVATE LIMITED
24	AB3056502	U72900UP2020PTC128312	RIWIGO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
25	AB3070101	U56101UP2024PTC207730	UPSSAV FOODS PRIVATE LIMITED
26	AB3081396	U93030UP2015OPC070122	G D GLOBAL TRADEMART OPC PRIVATE LIMITED
27	AB3084517	U15400UP2021PTC150960	OMG GUNAKKARI PRIVATE LIMITED
28	AB3084873	U47214UP2024PTC196929	BRAJGOPAL MILK FOODS PRIVATE LIMITED
29	AB3088970	U72900UP2022OPC172588	ELIKA INFOTECH (OPC) PRIVATE LIMITED
30	AB3089515	U52520UP2022OPC169342	ELFLOW CONTROLS (OPC) PRIVATE LIMITED
31	AB3098542	U15400UP2021OPC142590	BAKESTER STUDIO (OPC) PRIVATE LIMITED
32	AB3100698	U25209UP2022PTC167733	CHANDRA POLYFAB PRIVATE LIMITED
33	AB3102335	U45400UP2016PTC076675	AADRIKA CONSTRUCTION AND RENOVATION PRIVATE LIMITED
34	AB3102347	U63000UP2019PTC117182	SAMAAVARTA TRAVELS PRIVATE LIMITED
35	AB3102785	U68100UP2023PTC193776	NEEM HOMES PRIVATE LIMITED
36	AB3110448	U21002UP2023PTC188104	GOVINDAM LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED
37	AB3117386	U80100UP2018PTC104781	RANJANA BIOMEDICALS PRIVATE LIMITED
38	AB3120515	U85110UP2003PTC027290	ANAND MEDICARE PRIVATE LIMITED
39	AB3121299	U18109UP2021PTC156798	COSFER UNICORN PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/552—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the

Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB3006710	U72900UR2022PTC014239	WIZXL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2	AB3009917	U21003UT2023PTC015983	PFIMED DRUGS PRIVATE LIMITED
3	AB3072947	U24290UR2020PTC011088	SIROIS PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
4	AB3111892	U74999UR2017PTC007903	PECSPACE INDIA PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC/C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/553—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 26/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved:—

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2735644	U51909WB2012PLC184899	SPEEDFAST MARKETING LIMITED
2	AB2736099	U51909WB2012PLC184889	HULBERT TRADING LIMITED
3	AB2751168	U52190WB2010PTC147952	FOOTMARK SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
4	AB2777628	U65921WB1995PTC073686	RAMESHWARA ESTATES PVT LTD
5	AB2813213	U51909WB2011PTC161737	SABERA TRADING PRIVATE LIMITED
6	AB2818323	U74140WB2006PTC110674	BLUEVIEW CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
7	AB2839486	U31909WB2020PTC241921	J C MICHAEL PRIVATE LIMITED
8	AB2846554	U70109WB1992PTC056592	AMISOR PROJECT PVT LTD
9	AB2850068	U65990WB2022PTC250888	LIFEWISE CAPITAL PRIVATE LIMITED
10	AB2871983	U63090WB2015PTC206087	SUVO GOALLTRIP TOURS & TRAVELS PRIVATE LIMITED
11	AB2886173	U24236WB1972PTC028325	R D SURGICAL & MEDICAL PVT LTD
12	AB2886759	U51109WB2008PTC124104	PARAMPITA VYAPAAR PRIVATE LIMITED
13	AB2887734	U51909WB2009PTC139150	GAJAVAKRA VYAPAR PRIVATE LIMITED
14	AB2890375	U51909WB2018PTC225986	SHN FASHION PRIVATE LIMITED
15	AB2891974	U24239WB1986PLC041034	D I LABORATORIES LTD
16	AB2898435	U45203WB2004PTC099354	SHREE NARAYAN ABASAN PRIVATE LIMITED
17	AB2906806	U52599WB2020PTC237058	ADAMYA VENTURES PRIVATE LIMITED
18	AB2914700	U74900WB2013PLC193908	GOPATHI COMMERCE LIMITED
19	AB2915646	U74900WB2013PLC195123	GANADHIRAJ BROKING ADVISORS LIMITED

S.No.	Work Item	CIN	Company Name
20	AB2929924	U45400WB2010PTC146216	SATI PROMOTERS PRIVATE LIMITED
21	AB2940135	U74900WB2014PTC202519	ADITYA DESIGNER CREATIVITY PRIVATE LIMITED
22	AB2949776	U35100WB2024PTC274440	STAR PIPE ENERGY PRIVATE LIMITED
23	AB2958419	U72900WB2021PTC246246	SAFEDEN PRIVATE LIMITED
24	AB2960640	U74900WB2013PLC192947	CHATURMURTI ENTERPRISES LIMITED
25	AB2960944	U74900WB2013PLC193096	CHITTRUPA TRADING LIMITED
26	AB2961199	U74999WB2013PLC192759	CHATURBAHU COMMERCE LIMITED
27	AB2973568	U64990WB2024PLN267301	BASUDEB AASHAR ALO NIDHI LIMITED
28	AB2977925	U51109WB1996PTC077396	PYAR VINIMAY PVT LTD
29	AB2985511	U68200WB2024PTC269181	ABHISWETA REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
30	AB2988864	U74140WB1999PTC089781	SAFE GUARD COMMODITIES PRIVATE LIMITED
31	AB2991097	U45400WB2013PTC192577	ASTDURGA NIRMAAN PRIVATE LIMITED
32	AB2998562	U51909WB2009PTC139077	DEVADEVA MERCHANTS PRIVATE LIMITED
33	AB2998978	U51909WB2009PTC139095	GAJKARNA COMMERCE PRIVATE LIMITED
34	AB2999347	U70109WB2010PTC156147	ROMEX PROMOTERS PRIVATE LIMITED
35	AB3001852	U62013WB2023PTC263107	EXPANDTECH VENTURES PRIVATE LIMITED
36	AB3029426	U15549WB2020PTC236751	SWASTHA CEREALS PRIVATE LIMITED
37	AB3032946	U19115WB2013PTC193495	FINECRAFT LEATHER PRODUCTS PRIVATE LIMITED
38	AB3051539	U51101WB2010PTC143500	LOKPRIYA DEALTRADE PRIVATE LIMITED
39	AB3052068	U51909WB2008PTC127878	OMKARA VINIMAY PRIVATE LIMITED.
40	AB3057279	U70109WB2018PTC226248	PRECIOUS STRUCTURA PRIVATE LIMITED
41	AB3068488	U73100WB2021PTC242876	EFCRETE PRIVATE LIMITED
42	AB3069691	U52500WB2022PTC252028	AKAR PRAKAR FINE ART PRIVATE LIMITED
43	AB3070325	U72900WB2022PTC258675	BARTA NETWORKS PRIVATE LIMITED
44	AB3088318	U74900WB2016PTC209870	MAGNITUDE PROTOTYPING PRIVATE LIMITED
45	AB3088458	U01403WB1996PTC080387	MAHESWARI AGRO TECH PRIVATE LIMITED
46	AB3093638	U31909WB2020OPC238622	MYTAJ INDUSTRIES (OPC) PRIVATE LIMITED
47	AB3099185	U62099WB2023OPC265644	CLOUDFAIR TECHNOLOGY SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED
48	AB3105078	U55101WB2021PTC248770	MEHIKA CLUB AND RESORT PRIVATE LIMITED
49	AB3105649	U80300WB2021PTC248763	MEHIKA HIGH SCHOOL PRIVATE LIMITED
50	AB3110262	U19115WB2015PTC207827	KUNSTFJORD TRADING PRIVATE LIMITED
51	AB3111735	U51109WB2007PTC116296	SUPERIOR DEALCOM PRIVATE LIMITED
52	AB3112080	U50400WB2022PTC257320	AJS SPARE PARTS SALES PRIVATE LIMITED
53	AB3114225	U55101WB2024PTC267799	SD CLUBS AND RESORT PRIVATE LIMITED
54	AB3116650	U45400WB2013PLC197298	RUPAKAR INFRASTRUCTURE LIMITED
55	AB3116861	U39000WB2023OPC261744	AVAKARA CARBON HUNTERS (OPC) PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL

Assistant Registrar

C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Company

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/555—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB3198552	U68100AN2023PTC006058	HVV INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/556—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S, No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2791701	U35990AP2021PTC116982	DECCANWING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2	AB3017565	U70109AP2019PTC113677	SRI NIVASAM INFRA AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
3	AB3039094	U36911AP2005PTC046110	S.L. AURO PLATE JEWELLERY PRIVATE LIMITED
4	AB3049148	U85499AP2024PTC114085	STEMQUEST PLAYGROUNDS PRIVATE LIMITED
5	AB3074748	U24290AP2020PTC114970	LAVIN LABORATORIES PRIVATE LIMITED
6	AB3121808	U72200AP2012PTC081300	K.P. INFORMATICS (INDIA) PRIVATE LIMITED
7	AB3124343	U74140AP2021PTC116974	INDHANYA MANTRANA SEVANA PRIVATE LIMITED
8	AB3124354	U72900AP2020PTC116952	INDHANYA SUTANTRA PRIVATE LIMITED
9	AB3133573	U36999AP2017PTC105905	RX CELLS PRIVATE LIMITED
10	AB3229799	U72900AP2022PTC120959	DATASWIFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/557—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2828360	U00894BR1988PTC003159	ECONO PROJECT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
2	AB3030780	U63030BR2021PTC050011	ECHAL INDIA PRIVATE LIMITED
3	AB3051272	U72900BR2019PTC041064	SOFTELIGHT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
4	AB3057264	U70109BR2022PTC058312	PINK SPARKLER CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
5	AB3110252	U92490BR2022PTC060977	RISMA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
6	AB3115815	U45400BR2018PTC039127	MANORATH AWAAS PRIVATE LIMITED
7	AB3121042	U72200BR2022PTC056893	EDUFUSE PRIVATE LIMITED
8	AB3123977	U74999BR2016PTC032166	CENTUM HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
9	AB3132773	U45200BR2014PTC023090	SATYA PRAKASH PROPERTY DEALERS AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
10	AB3167061	U45200BR2009PTC014282	HIMALAYA TECHNOCRATE AND SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
11	AB3236879	U51397BR2021PTC053738	GMNS MEDMAC PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/558—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB3123512	U74900CH2012PTC033536	SABRE SKILLING PRIVATE LIMITED
2	AB3128032	U36999CH2017PTC041503	VISVA DESIGN STUDIO PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/559—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2879780	U15100CT2022PTC013241	SHREE BAJRANG SOLVENT PRIVATE LIMITED
2	AB3106072	U72900CT1991PTC006340	TRI-STAR COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
3	AB3110756	U31904CT2017PTC007911	INERGIO POWER PRIVATE LIMITED
4	AB3117509	U46632CT2024PTC016355	GOIDEN SKY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
5	AB3126687	U74995CT2018PTC008851	BUDDHAPRIYA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
6	AB3130654	U55101CT2023PTC015163	AS TRANSPORTATION & ACCOMMODATION SERVICES PRIVATE LIMITED
7	AB3165076	U55101CT2022PTC013131	HILERS FRANCHISE PRIVATE LIMITED
8	AB3181352	U80903CT2020PTC010829	SUPER BRAIN EXCELLENCE PRIVATE LIMITED
9	AB3274481	U72900CT2021PTC011436	M D FUTURE TECH PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/560—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2790175	U72200DL2015PTC278634	REALBOX DATA ANALYTICS PRIVATE LIMITED
2	AB2812717	U55209DL2019PTC355278	BIKANERVALA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
3	AB2858335	U74899DL1990PTC039672	PRANAV PRINT-N-PACK PRIVATE LIMITED
4	AB2883808	U51909DL2022PTC394019	LEAP FIRST PRIVATE LIMITED
5	AB2885676	U33309DL2017PTC326412	ALTRUISM SURGICALS PRIVATE LIMITED
6	AB2889709	U45200DL2012PTC238614	SHAIVYA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
7	AB2898145	U52609DL2021PTC380992	ROBOTSKY INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
8	AB2907694	U24100DL2016PTC298123	SADBHAV HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
9	AB2916085	U74999DL2005PTC140574	BHARTIA LOGITECH PRIVATE LIMITED
10	AB2925743	U51909DL2012PTC242040	THE ETHNIC STOREHOUSE PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
11	AB2929926	U63040DL2013PTC256558	YAP HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
12	AB2947744	U74999DL2013PTC254464	DA INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
13	AB2948916	U74140DL2014PLC271505	NVS TECHNOLOGIES LIMITED
14	AB2949636	U45200DL2008PTC181527	GSG INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
15	AB2955550	U41000DL1998PTC093270	AQUA PURE (INDIA) PRIVATE LIMITED.
16	AB2959186	U72300DL2007PTC166913	SILVERLINE INFOSOFT PRIVATE LIMITED
17	AB2959824	U45400DL2008PTC181526	MAHINDER SHARMA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
18	AB2960438	U70101DL2014PTC266125	SARVAYONI BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
19	AB2961375	U63040DL2018PTC343207	SIGHTSEEING AND TOURISM INDIA PRIVATE LIMITED
20	AB2964105	U45300DL2008PTC181529	SHUBHAM GREENBUILD PRIVATE LIMITED
21	AB2970862	U55101DL2022PTC396338	VNS FOODS AND LOGISTICS PRIVATE LIMITED
22	AB2976810	U80903DL2021PTC391802	SKILLIONAIRE PRIVATE LIMITED
23	AB2976821	U17299DL2022PTC398396	CHOOSE YOUR CLOSET PRIVATE LIMITED
24	AB2989713	U72900DL2020PTC368501	AFORESERVE INNOVATION PRIVATE LIMITED
25	AB2994373	U74899DL2000PLC104636	G-CAD TECHNOLOGIES LIMITED
26	AB2998205	U74999DL2021FTC389776	MAMORU (INDIA) PRIVATE LIMITED
27	AB3007399	U43299DL2023PTC423301	M.RAMAWATI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
28	AB3019046	U74999DL2007PTC158734	R & R SUPERBIKES PRIVATE LIMITED
29	AB3022388	U74999DL2022OPC407043	RAISONEX HUMAN RESOURCES (OPC) PRIVATE LIMITED
30	AB3023792	U72900DL2023PTC409493	SIX97 TECHNOLOGIES DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
31	AB3034753	U74899DL1995PTC074963	PERI WAL IRRIGATIONS PRIVATE LIMITED
32	AB3035390	U74140DL2021PTC376306	INDUCT GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED
33	AB3035440	U21000DL2019PTC345719	KESHMEE INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
34	AB3038340	U15549DL2020PTC365721	ESSE LABS PRIVATE LIMITED
35	AB3039594	U55101DL2008PTC173086	MANGOSTEEN PRIVATE LIMITED
36	AB3046253	U18109DL2021PTC378142	UNGYO GARMENTS PRIVATE LIMITED
37	AB3046262	U31904DL2021PTC378138	BADAAT ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
38	AB3047997	U18101DL2006PTC148308	NDTV INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
39	AB3050189	U52290DL2024PTC428672	SPRINT EXPRESS LOGITECH PRIVATE LIMITED
40	AB3050922	U74899DL1971PTC005866	MIDLAM AGENCIES PVT LTD
41	AB3051540	U34201DL2020PTC364017	AZAD EVERGREEN EV PRIVATE LIMITED
42	AB3052306	U74950DL2007PTC166487	LOPAC PACKAGING PRIVATE LIMITED
43	AB3053042	U52392DL2003PTC118296	YASHASVI TRADE CENTRIK PRIVATE LIMITED
44	AB3056858	U45309DL2020PTC372718	TRUSTIS CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
45	AB3064082	U80100DL2018PTC329031	RUPESH PATHAK DIMENSION PRIVATE LIMITED
46	AB3066349	U74899DL1994PTC060086	MEDEX SERVICES AND CONSULTANTS INDIA PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
47	AB3067150	U15490DL2022PTC404944	BOUNDLESS BRANDS PRIVATE LIMITED
48	AB3070796	U45201DL2001PTC111967	LUV KUSH NIRMAN PVT. LTD.
49	AB3080679	U74899DL1994PTC063023	MAHABALESHWAR GAS & CHEMICALS PRIVATE LIMITED
50	AB3081085	U72900DL2016PTC289661	SATRAM SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
51	AB3082248	U72200DL2005PTC142789	B.N. COMPUTERS PRIVATE LIMITED
52	AB3082512	U45200DL2022PTC394096	MOREAL PROJECTS PRIVATE LIMITED
53	AB3084697	U51909DL2017PTC313545	DRAKEN PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
54	AB3088951	U74999DL2020PTC362143	ZNEXT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
55	AB3089088	U74210DL1996PTC078672	MAUNSELL HARRIS CONSULTING ENGINEERS PRIVATE LIMITED
56	AB3094568	U15400DL2016PTC302526	FRESCDEPOPS FOODS PRIVATE LIMITED
57	AB3100040	U26960DL2003PLC123094	SANDHAR INTELLI-GLASS SOLUTIONS LIMITED
58	AB3100416	U22213DL2012PTC240026	PIVIYKA PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED
59	AB3100589	U72900DL2020PTC360362	METALINK IOT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
60	AB3102324	U51909DL2010PTC206354	KAUSTUBH IMPEX PRIVATE LIMITED
61	AB3103259	U72900DL2019PTC357510	VFOUND PRIVATE LIMITED
62	AB3103939	U36990DL2020PTC367503	HAUTCARE PRIVATE LIMITED
63	AB3104552	U51909DL2016PTC301125	SAFFRAN TRADING PRIVATE LIMITED
64	AB3113581	U51909DL2004PTC131094	YMT MARKETING PRIVATE LIMITED
65	AB3114060	U67120DL2008PTC173008	ISH STOCKS PRIVATE LIMITED
66	AB3115421	U70102DL2011PTC226330	AKSHADHA DEV INFRASTRUCTURE & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
67	AB3117315	U51909DL2020PTC373379	ENGLISH FOOTWEAR PRIVATE LIMITED
68	AB3117669	U50100DL2021PTC379314	GAV VISION PRIVATE LIMITED
69	AB3118712	U46301DL2023PTC415335	JIVYAM WORLD TRADE COMMERCE PRIVATE LIMITED
70	AB3119281	U70101DL2010PTC205731	TERRA FIRMA VILLAS PRIVATE LIMITED
71	AB3119815	U70100DL2011PTC221721	ASOMBROSO BUILDERS PRIVATE LIMITED
72	AB3119984	U51909DL2013PTC260413	MET GLOBE INDIA PRIVATE LIMITED
73	AB3120631	U90009DL2004PTC127880	MAXI-FLOW SANITATIONS PRIVATE LIMITED
74	AB3120678	U46308DL2023PTC412228	AVIRAJ DISTILLERIES PRIVATE LIMITED
75	AB3120747	U72200DL2022PTC399928	SQUAREKIT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
76	AB3121826	U27106DL2005PTC141639	EA IRON AND STEELS PRIVATE LIMITED
77	AB3122294	U74140DL2010PTC200537	ARK OFFICE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
78	AB3122479	U93290DL2023PTC421508	WIN CITY DIGITAL PRIVATE LIMITED
79	AB3122568	U74994DL2019PTC344859	KEFLA RETAILS PRIVATE LIMITED
80	AB3123171	U23209DL2003PTC121722	BSM PETROCHEM PRIVATE LIMITED
81	AB3123219	U31103DL1997PTC089653	DASH ELECTRO POWER INDIA PRIVATE LIMITED
82	AB3123320	U72900DL2018PTC334846	VIVERVA TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
83	AB3123845	U74999DL2022PTC400063	SCORPINSIGHTS PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
84	AB3124611	U18101DL2008PTC180601	SG FABCON PRIVATE LIMITED
85	AB3124713	U74999DL2017PTC310171	G-STEAM INDIA PRIVATE LIMITED
86	AB3124750	U47219DL2024PTC439365	VITTASASTRA TRADE PRIVATE LIMITED
87	AB3125684	U74999DL2019PTC346343	ADORITHM TECH PRIVATE LIMITED
88	AB3126323	U72300DL2016PTC289340	AMBILOBE TECHNOLOGIES AND SERVICES PRIVATE LIMITED
89	AB3126886	U63030DL2019PTC358025	EARNING TRIP AND EVENTS GLOBAL PRIVATE LIMITED
90	AB3127265	U74899DL1993PTC055595	S.M.V. CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
91	AB3128051	U74899DL1990PTC042389	ATC TECHNO CONSTRUCT PRIVATE LIMITED
92	AB3128283	U74300DL2004PTC127260	BARTER MEDIA PROMOTIONS PRIVATE LIMITED
93	AB3128364	U55200DL2022PTC393415	MOZUMDER GREENS PRIVATE LIMITED
94	AB3128738	U70109DL2020PTC374259	HERMES REALBUILD PRIVATE LIMITED
95	AB3129418	U78300DL2023PTC417571	ACE PROMETRIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
96	AB3129915	U62013DL2023PTC417147	TECHCOLLATERS INDIA PRIVATE LIMITED
97	AB3130391	U70102DL2014PTC270728	CHOUDHARY CONTRACTORS & SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
98	AB3131341	U46909DL2024PTC427912	KIASHA DYNAMICS PRIVATE LIMITED
99	AB3131363	U93000DL2011PTC214837	LETS INTERN CAREER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
100	AB3131511	U36990DL2020PTC371279	KAVAS YOGA LIFESTYLE PRIVATE LIMITED
101	AB3132113	U60231DL2004PTC129663	GHOTRA TRANSPORT PRIVATE LIMITED
102	AB3132263	U63030DL2021PTC378472	TRAVELOHELP INDIA PRIVATE LIMITED
103	AB3132293	U51900DL2012PTC243471	PREMIER WORLDWIDE PRIVATE LIMITED
104	AB3136900	U74999DL2020PTC364673	ITE DBSS GLOBAL INDIA PRIVATE LIMITED
105	AB3138224	U74140DL2009PTC191921	OM SAIRAM CORPORATE CONSULTANT PRIVATE LIMITED
106	AB3140426	U17299DL2022PTC403399	AADIMJANJATI CRAFTS PRIVATE LIMITED
107	AB3142587	U92130DL2008PTC185596	GMA EDUCATION INDIA PRIVATE LIMITED
108	AB3146268	U93090DL2020PTC371329	CMOTO PRIVATE LIMITED
109	AB3147729	U63090DL2013PTC258723	GLITZAL LOGISTICS PRIVATE LIMITED
110	AB3150047	U37100DL2012PTC244671	ROLLZ WASTE 2 ENERGY PRIVATE LIMITED
111	AB3150679	U74900DL2013PTC262875	GMA FIRST INDIA PRIVATE LIMITED
112	AB3150806	U18202DL2022PTC394947	RMGP INFRA PRIVATE LIMITED
113	AB3151360	U74999DL2016PTC308640	INPINGOO INFOTECH PRIVATE LIMITED
114	AB3153553	U51506DL2021PTC386059	ESTETIKA VENTURES PRIVATE LIMITED
115	AB3160202	U20290DL2009PTC194213	G. S. WOODWORKS PRIVATE LIMITED
116	AB3161549	U21012DL2010PTC209386	SURYA KIRAN PHOTO PAPER PRIVATE LIMITED
117	AB3163566	U74900DL2011PTC226261	PVRS INFRA MINING PRIVATE LIMITED
118	AB3167014	U13203DL2006PTC156994	MAYUR INDUSTRIAL TOOLS PRIVATE LIMITED
119	AB3168397	U63030DL2016PTC309315	KASANA GOLDEN PRIVATE LIMITED
120	AB3180711	U86909DL2023PTC412348	SUDDHA SATTVA PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
121	AB3181576	U74999DL2018OPC343447	ADDFRNDZ ENTREPRENEUR (OPC) PRIVATE LIMITED
122	AB3186857	U74999DL2017PTC324574	SOLVINFINITY PRIVATE LIMITED
123	AB3189091	U74999DL2017PTC326999	FORSYN FARMAKO PRIVATE LIMITED
124	AB3190844	U31506DL2016PTC293040	B T S POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
125	AB3190923	U74899DL1995PTC072531	PRIME PROTECTION PRIVATE LIMITED
126	AB3191940	U74999DL2018PTC335168	UMADEV PRIVATE LIMITED
127	AB3194431	U93010DL2017PTC323824	SATTARA SECURITY SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED
128	AB3195605	U72300DL2007PTC158075	DURGANSHA I.T. TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
129	AB3196258	U24100DL2013PTC249375	UB WATER & CHEMICAL PRIVATE LIMITED
130	AB3196799	U70200DL2013PTC247207	UFW INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
131	AB3197360	U72200DL2007PTC157224	DSIKANDER I.T. SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
132	AB3198853	U72900DL2019PTC348240	DRUDRA INFO INDIA PRIVATE LIMITED
133	AB3198874	U21099DL2022PTC396982	CHITWN D MALHOTRA INVITATIONS PRIVATE LIMITED
134	AB3199094	U72900DL1996PTC076751	GEO MEDIA PRIVATE LIMITED
135	AB3199732	U24299DL2021PTC389123	DHITI BIOLOGICALS PRIVATE LIMITED
136	AB3201067	U29309DL2017OPC323513	SUBRAM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED (OPC)
137	AB3205468	U45400DL2007PTC168289	MAK D INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
138	AB3206585	U72200DL2021PTC385357	HANUMAN INFOTECH PRIVATE LIMITED
139	AB3211578	U82990DL2023PTC411171	DEXTER HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
140	AB3212162	U51909DL2008PTC185438	VEENIS EXPORTS PRIVATE LIMITED
141	AB3213578	U51109DL2010PTC199911	BANGOUR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
142	AB3214990	U74899DL1994PTC060167	GAGAN OVERSEAS PRIVATE LIMITED
143	AB3216853	U92132DL1999PTC102872	NEW MEDIA PRODUCTION PRIVATE LIMITED
144	AB3219803	U74999DL2022PTC398993	3R ENGINEERING CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
145	AB3220179	U55101DL2011PTC221616	SUYOG HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
146	AB3221025	U51109DL2008PTC184009	RAGHNI FERRO ALLOYS PRIVATE LIMITED
147	AB3227361	U74899DL1993PTC054828	JEEWAN RESEARCH AND DIAGNOSTIC CENTRE PRIVATE LIMITED
148	AB3229744	U72900DL2016PTC307148	RECON APP MAGIC PRIVATE LIMITED
149	AB3243985	U45102DL2024PTC435204	S.V.A LORRIES WHEELS PRIVATE LIMITED
150	AB3245350	U72900DL2013PTC247992	ORANGUT LABS PRIVATE LIMITED
151	AB3247726	U27201DL2023PTC416556	OFFGRID ENERGY LABS MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
152	AB3248177	U52300DL2017PTC326385	BEBABOO GLOBAL PRIVATE LIMITED
153	AB3249478	U22200DL1996PTC078707	CIRCLESCERCLES MEDIA PRIVATE LIMITED
154	AB3265630	U22120DL2019PTC350516	ANFC PRIVATE LIMITED
155	AB3266296	U24290DL2021PTC385915	AHV REFINERIES PRIVATE LIMITED
156	AB3267957	U72900DL2020PTC372301	LOOPR AI SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
157	AB3268778	U72900DL2019PTC352964	R2D2 TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
158	AB3270068	U52100DL2013PTC259196	STERNMED TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
159	AB3278406	U51101DL2007PTC157906	NYSA EXIM PRIVATE LIMITED
160	AB3281039	U37200DL2023PTC409305	PEE GEE RECYCLING PRIVATE LIMITED
161	AB3285304	U51391DL2022PTC404739	MYISA CURE GLOBAL PRIVATE LIMITED
162	AB3294953	U62099DL2023PTC414229	TRUAINNOVATION PRIVATE LIMITED
163	AB3300088	U85121DL2006PTC153710	FRIENDS BEAUTY CREATION PRIVATE LIMITED
164	AB3306856	U74999DL2022PTC407684	TALENTLAGOON STAFFING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
165	AB3310973	U55110DL1990PLC042119	ARYAVRAT HOTELS AND RESORTS LIMITED
166	AB3317229	U70102DL2015PTC288486	PUSHPANJALI FARMS PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/561—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2992823	U45500GA2017PTC013214	RITU INFRA PROMOTERS PRIVATE LIMITED
2	AB2998478	U51909GA1993PTC001429	SALDANHA TRADES PRIVATE LIMITED
3	AB3068056	U85110GA1992PTC001270	VIDHYA DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
4	AB3103196	U15139GA1985PTC000609	VAC-PAC PRODUCTS PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. C-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/562—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2700915	U68200GJ2023PTC140235	SPLIFO INNOVATIONS PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
2	AB2843021	U17299GJ2022PTC129915	NEOTEX WEAVES PRIVATE LIMITED
3	AB2855793	U85300GJ2022PTC135475	NYUU ENLIGHTENED HEALTH PRIVATE LIMITED
4	AB2891668	U18202GJ2010PTC062651	DIVIT WEAVETECH PRIVATE LIMITED
5	AB2927638	U29100GJ2011PTC066990	SATE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
6	AB2950283	U65999GJ2022PTC128792	ADYAANT INVESTMENTS AND HOLDINGS PRIVATE LIMITED
7	AB2953845	U29199GJ2006PTC048384	SHREE VARDA ENGINEERS PRIVATE LIMITED
8	AB2959100	U74999GJ2017PTC095249	ANISHA FINCAP CONSULTANTS (IFSC) PRIVATE LIMITED
9	AB3006594	U46521GJ2025PTC157577	ALPAN UNIVERSAL PRIVATE LIMITED
10	AB3023073	U90004GJ2023PTC139053	WRITEUP PRIVATE LIMITED
11	AB3027859	U72200GJ2022PTC137145	CLUBSACE TECH PRIVATE LIMITED
12	AB3033297	U40106GJ2013PTC073783	UNICORN SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED
13	AB3034168	U45201GJ2008PLC054381	AVENTURE INFRASTRUCTURE LIMITED
14	AB3039310	U40106GJ2021PTC119635	BLENDARTH ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
15	AB3039580	U51909GJ2000PTC038775	BABUL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
16	AB3044865	U15490GJ2021PTC125972	PROBIOTICS AND PREBIOTICS INDIA PRIVATE LIMITED
17	AB3050641	U51909GJ2021PTC126586	SANGINICO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
18	AB3053579	U64990GJ2023PTC143985	TORUS GLOBAL FINANCE IFSC PRIVATE LIMITED
19	AB3061849	U23939GJ2023PLC145342	SMALTO INDUSTRIES LIMITED
20	AB3065517	U74999GJ2017PTC096392	YESTOBEST PRIVATE LIMITED
21	AB3082462	U25209GJ1996PTC028626	SHAKTI POLYPLAST INDIA PRIVATE LIMITED
22	AB3092593	U51909GJ2018PTC102254	SHIVALIK BIZCOM PRIVATE LIMITED
23	AB3097652	U72900GJ2022PTC128935	INTELLI BYTE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
24	AB3098555	U45200GJ1998PTC034360	PAREKH INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
25	AB3106207	U51506GJ2012PTC071295	ASTRAL EXIM PRIVATE LIMITED
26	AB3111905	U80902GJ2021PTC122518	ITLM PRIVATE LIMITED
27	AB3117066	U40106GJ2018PTC102844	MURU POWER DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
28	AB3117488	U51909GJ2023PTC138000	P N S SERVICE DYNAMIC PRIVATE LIMITED
29	AB3119379	U66190GJ2023PTC140548	J EKLERA TRADEXO PRIVATE LIMITED
30	AB3119902	U36109GJ2020PTC115615	A S K FURNISHING PRIVATE LIMITED
31	AB3119959	U29100GJ2012PTC069737	KRISHNA AUXILIARIES PRIVATE LIMITED
32	AB3121790	U74999GJ2020PTC114723	AAA CERACRAFT PRIVATE LIMITED
33	AB3121934	U17299GJ2020PTC114983	ATHICUS SYNERGY PRIVATE LIMITED
34	AB3122210	U01100GJ2020PTC117571	LAKHTAR AGRO PRODUCER COMPANY LIMITED
35	AB3122456	U72900GJ2021PTC126230	CLOUDRUN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
36	AB3122607	U01100GJ2021PTC119710	V CARE AMRELI FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
37	AB3122661	U23200GJ2021PTC120178	AGROACRES CLEANFUELS PRIVATE LIMITED
38	AB3125356	U62099GJ2020PTC113583	MILCENT JANSEWA PRIVATE LIMITED
39	AB3125895	U01119GJ1994PTC023740	SAHAKOTI AGRO FORESTRY PVT LTD
40	AB3126121	U24304GJ2021PTC123349	AUSPIRON LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
41	AB3126454	U45201GJ1993PTC019979	PRAGATI BUILDCON PVT LTD
42	AB3128168	U45201GJ2009PTC057357	SHREE INFRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
43	AB3128924	U45402GJ2021PTC127801	KALPTARU DREAMS HOUSE PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
44	AB3129061	U64200GJ2022PTC137431	VAIDIK INFONET PRIVATE LIMITED
45	AB3129561	U65923GJ2015PTC083124	HARSHIDA COMTRADE PRIVATE LIMITED
46	AB3131390	U51909GJ2019PTC109646	VOLTOVO ONLINE PRIVATE LIMITED
47	AB3131689	U56291GJ2023PLC139888	BOMBAY SUPER HEALTHY LIMITED
48	AB3131822	U40300GJ2008PLC053968	ABELLON POWER LIMITED.
49	AB3133660	U53200GJ2024PTC148314	VINIVA SERVICES PRIVATE LIMITED
50	AB3134362	U01100GJ2021PTC120088	MOREGRO SEEDS PRIVATE LIMITED
51	AB3135499	U10616GJ2023PTC142714	ATRIPATRA NUTRITION PRIVATE LIMITED
52	AB3147534	U74900GJ2009PTC057051	NEETISHA MEDICAL INFOTECH PRIVATE LIMITED
53	AB3151958	U22203GJ2023PTC144835	ASGARD BIOPLAST PRIVATE LIMITED
54	AB3152443	U41000GJ2024PTC152766	SILAJ PROJECTS PRIVATE LIMITED
55	AB3152469	U72200GJ2022PTC128820	INNOVAZIVE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
56	AB3159240	U72900GJ2020PTC117180	FORACHANGE PRIVATE LIMITED
57	AB3163928	U67190GJ2013PTC076798	R.K. FOREIGN EXCHANGER PRIVATE LIMITED
58	AB3168978	U29253GJ2013PTC076248	INFINITI LIFTS PRIVATE LIMITED
59	AB3173725	U27109GJ2011PTC064198	ALCORP METALS AND TUBES PRIVATE LIMITED
60	AB3181960	U74999GJ2019PTC111574	SDPARTS PRIVATE LIMITED
61	AB3193820	U65990GJ2021PTC119943	DDR FOREX PRIVATE LIMITED
62	AB3215221	U17021GJ2023PTC141864	IMPRESSIVE PRINTPACK PRIVATE LIMITED
63	AB3231147	U74999GJ2017PTC096549	EXPRESS LABORATORIES SERVICES PRIVATE LIMITED
64	AB3233967	U15549GJ2019PTC109862	FUSION FOODTECH PRIVATE LIMITED
65	AB3235445	U55101GJ1981PLC004637	SHALIN HOTELS LIMITED
66	AB3289985	U72900GJ2019PTC109731	MIEMAW TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
67	AB3293582	U72900GJ2019PTC110457	BETTERME AI TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
68	AB3295166	U72300GJ2021PTC126151	BLOOMCONN PRIVATE LIMITED
69	AB3298396	U74999GJ2020PTC118858	GREEN BOOK ACCOUNTING INDIA PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/563—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2815661	U72200HR2020PTC086695	VEERAA ONE PRIVATE LIMITED
2	AB2840478	U65992HR1991PTC031353	HITAISHI CHITS PRIVATE LIMITED
3	AB2940267	U31909HR2021PTC098534	SKP CLEANTECH PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
4	AB2960253	U22300HR2021PTC093362	TMB GLOBAL MEDIA WORKS PRIVATE LIMITED
5	AB2966063	U72300HR2013PTC051260	EFFECTUAL INFOTECH PRIVATE LIMITED
6	AB2986132	U74999HR2018PTC077279	COLOR QUO PRIVATE LIMITED
7	AB3008476	U72900HR2017PTC070153	AAHOSTAF PRIVATE LIMITED
8	AB3017945	U24230HR2020PTC088030	PURICHEM PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
9	AB3065131	U06101HR2023PTC114659	NALINIKANT ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
10	AB3070928	U51100HR2018PTC072134	MARSTIAN CONSULTANCY GOALS PRIVATE LIMITED
11	AB3083652	U93090HR2018PTC074227	PROTEXSUM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
12	AB3084643	U72900HR2023PTC109294	UBZ VENTURES PRIVATE LIMITED
13	AB3088153	U18109HR2021PTC094189	WEFTLIN PRIVATE LIMITED
14	AB3094288	U74999HR2019PTC084275	GRANDE MANZANA INDIA PRIVATE LIMITED
15	AB3103874	U20234HR2024PTC117827	MACASTRO VEDIST BHAGVAT PRIVATE LIMITED
16	AB3106074	U51391HR2012PTC047935	GLB PARFUMS & BEAUTE INDIA PRIVATE LIMITED
17	AB3110849	U74999HR2018OPC073197	GORAIS RETAIL (OPC) PRIVATE LIMITED
18	AB3116044	U74999HR2020PTC086130	CHANAKYA EVENTS & SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
19	AB3119376	U51909HR2019PTC083616	SANKASH VENTURES PRIVATE LIMITED
20	AB3121328	U85100HR2018PTC076040	KNP GLOBAL CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
21	AB3121588	U24290HR2021PTC095883	VERITAS RESINS & PLASTICS PRIVATE LIMITED
22	AB3123865	U24120HR2021PTC094221	JAWAYA AGRO PRIVATE LIMITED
23	AB3126656	U74994HR2020PTC087021	BELLIYA SERVICES PRIVATE LIMITED
24	AB3128748	U93090HR2019PTC084438	MDA MANPOWER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
25	AB3129846	U74999HR2021PTC097319	REFASSIST SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
26	AB3129869	U72900HR2022PTC107401	CREST NEWEDGE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
27	AB3131067	U68100HR2023PTC115700	FREESIA TOWNPLANNERS PRIVATE LIMITED
28	AB3131807	U66190HR2023PTC116367	YY FOREX PRIVATE LIMITED
29	AB3132066	U37200HR2019PTC081385	ECO PLANET WASTE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
30	AB3167402	U65999HR2022PLN105688	PULASTYADHAN NIDHI LIMITED
31	AB3181522	U93090HR2019PTC081140	AAVEC INNOVATE PRIVATE LIMITED
32	AB3192178	U15490HR2021PTC096609	TARINI OVEN DELICACIES PRIVATE LIMITED
33	AB3196456	U52100HR2015PTC056289	VIJAY RAJ BITUMEN (INDIA) PRIVATE LIMITED
34	AB3200192	U11100HR2014PTC051566	GOVERDHANDHAM FILLINGS STATION PRIVATE LIMITED
35	AB3209147	U15115HR2016PTC064905	KALYAN F&B PRIVATE LIMITED
36	AB3219889	U46909HR2024PTC119796	VIMAL MARBLE HOUSE PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
37	AB3221066	U93090HR2018PTC077098	INNOVAZIA SOFTWARE PRIVATE LIMITED
38	AB3222231	U72900HR2023PTC109081	INTELVISION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
39	AB3224724	U24290HR2021PTC096055	GENOSTAR LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
40	AB3227873	U62013HR2021PTC094467	ZIBATECH WELLNESS PRIVATE LIMITED
41	AB3244638	U26515HR2023PTC116726	SAINIKIAN UNMANNED SYSTEMS PRIVATE LIMITED
42	AB3252406	U42909HR2023PTC115493	NMTPL-STSIPL JV PRIVATE LIMITED
43	AB3262353	U74999HR2021PTC099216	QETA PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/564—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2928288	U17299HP2021PTC008652	HIMALAYAN HEMP TEXTILES PRIVATE LIMITED
2	AB3055918	U26942HP1983PTC005661	SIRMUR ALLIED AND CEMENT INDUSTRIES PVT LTD
3	AB3303358	U40101HP2013PTC000337	VAISHALI HYDRO PROJECT PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/565—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB3071411	U47912JK2024PTC015472	SNOW VALLEY ORGANIC PRIVATE LIMITED
2	AB3095471	U28999JK2022PTC013740	KNEST FORMWORK PRIVATE LIMITED
3	AB3135840	U58203JK2023PTC014356	BARDDIFY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
4	AB3169695	U72900JK2016PTC009817	KAVWEB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/566—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB3033231	U85300JH2021PTC015901	RJI HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
2	AB3047048	U52599JH2022PTC018017	COMRADE VENTURE PRIVATE LIMITED
3	AB3070267	U80904JH2013PTC001008	CLOVIS HIGHER EDUCATION PRIVATE LIMITED
4	AB3072288	U80902JH2013PTC001010	AMAS TECHNO EDUCATION PRIVATE LIMITED
5	AB3072351	U80301JH2013PTC001015	SAMA INSTITUTE OF TECHNO EDUCATION PRIVATE LIMITED
6	AB3123000	U74102JH2023PTC020884	BORGESTENA FLOORING PRIVATE LIMITED
7	AB3129910	U50100JH2022PTC018960	NEWZONE RECYCLING PRIVATE LIMITED
8	AB3132568	U22300JH2022PTC018267	BOKARO TODAY PRIVATE LIMITED
9	AB3159507	U58191JH2024PTC022600	CAPITALX YOGEN VENTURES PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/567—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2833320	U72900KA2019FTC122275	CERTUS APAC CONSULTING PRIVATE LIMITED
2	AB2836299	U85110KA1965PLC001563	RUKMANI INDUSTRIES LIMITED
3	AB2847868	U51909KA2020PTC134853	SRIMAD TRADING SERVICES PRIVATE LIMITED
4	AB2895647	U36939KA2019PTC121076	SLOGGER SPORTS PRIVATE LIMITED
5	AB2910351	U72900KA2011PTC061821	CALLYSTRO INFOTECH PRIVATE LIMITED
6	AB2921368	U72900KA2016PTC097002	CORESIGMA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
7	AB2924008	U74999KA2018OPC114183	ESSKEN MICROCONTROLLERS (OPC) PRIVATE LIMITED
8	AB2924963	U85110KA1999PTC024794	SRIT ENTERPRISE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
9	AB2942257	U74999KA2016PTC098005	TECH-GALANT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
10	AB2943478	U74900KA2016PTC085229	HAPPYHEALTHYME ORGANICS PRIVATE LIMITED
11	AB2945000	U01400KA2012PTC065409	LEGACY GLOBAL AGRI PRODUCTS PRIVATE LIMITED
12	AB2945118	U72300KA2012PTC065205	LEGACY GLOBAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
13	AB2953200	U80904KA2019PTC127078	FOVIRA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
14	AB2955780	U74999KA2020PTC135226	VIPRA HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
15	AB2961126	U63090KA2019PTC124148	FASTFORWARD MOBILITY TECH PRIVATE LIMITED
16	AB2966333	U15541KA2021OPC146670	KARCHIKAI KITCHEN (OPC) PRIVATE LIMITED
17	AB2969081	U74999KA2018PTC116113	AUGPLAT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
18	AB2969558	U74999KA2020PTC137924	TEZR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
19	AB2987576	U66190KA2023PTC171735	NISTARKYA TRADING PRIVATE LIMITED
20	AB2988843	U15410KA2012PTC062192	USHODAYA FOOD AND COSMETICS PRIVATE LIMITED
21	AB2989698	U45400KA2021PTC150633	SARASWATHI PUTHRA INTERNATIONAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
22	AB2994150	U68200KA2023PLC176978	VSF ESTATES LIMITED
23	AB3013518	U74999KA2017PTC108744	WISCNET TECHNOSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
24	AB3021310	U72900KA2021PTC150214	FIREPATH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
25	AB3022361	U66309KA2023PTC177785	ELITECAP VENTURES PRIVATE LIMITED
26	AB3024100	U72900KA2019PTC123833	DENZIP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
27	AB3024671	U15490KA2022PTC165020	CRISPY WAY PRIVATE LIMITED
28	AB3027448	U15530KA2015PTC082868	SAVSONS SPIRITS PRIVATE LIMITED
29	AB3029428	U24290KA2022PTC156409	PATIL AGRO REFINERIES PRIVATE LIMITED
30	AB3029968	U80902KA2022PTC159179	GAIN2EXCEL PRIVATE LIMITED
31	AB3035820	U34100KA2021PTC149792	NAVIER-STOKES ELECTRIC MOBILITY PRIVATE LIMITED
32	AB3047165	U82300KA2023PTC174192	HAPPY HISLERS EVENT PLANNERS AND ORGANIZERS PRIVATE LIMITED
33	AB3052224	U74999KA2021PTC144041	AVAKASA CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
34	AB3056704	U74999KA2018PTC115795	TEAL DOOR DESIGNS PRIVATE LIMITED
35	AB3059238	U72200KA2007PTC043040	SRIT HEALTHCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
36	AB3064089	U93000KA2019PTC124672	DIGITALOVE PRIVATE LIMITED
37	AB3065106	U72900KA2019PTC139212	MEOTIDA PRIVATE LIMITED
38	AB3065564	U74101KA2024PTC184474	WRENBURG PRIVATE LIMITED
39	AB3067090	U45309KA2021OPC144720	KLAY KUBES (OPC) PRIVATE LIMITED
40	AB3073651	U01100KA2019PTC125793	FARMGENUS PRIVATE LIMITED
41	AB3074314	U74900KA2016PTC086801	RESOURCES CAREER PORTAL PRIVATE LIMITED
42	AB3082895	U74999KA2019PTC119984	ROYCROWN VENTURES PRIVATE LIMITED
43	AB3083975	U29253KA2011PTC059239	ALL TERRAIN SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
44	AB3088152	U85300KA2022PTC167646	ELVIRA BYRNES MENTAL COACHING PRIVATE LIMITED
45	AB3088439	U72900KA2018PTC113237	SECURELYSHARE RESEARCH AND DEVELOPMENT

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
			PRIVATE LIMITED
46	AB3097367	U31907KA1996PTC019609	NAVNIDHI ELECTRO-ELECTRIC PRIVATE LIMITED
47	AB3100622	U72900KA2021PTC144713	NAAN MOONS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
48	AB3102302	U74999KA2018PTC109994	CORALATOLL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
49	AB3105785	U52602KA2018PTC114696	CLEAVENSKY RESELLER AND SERVICES PRIVATE LIMITED
50	AB3106532	U52520KA2020PTC135970	SMART KIRANAA CARTZ PRIVATE LIMITED
51	AB3109007	U39000KA2024PTC185037	GREENR INNOVATIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
52	AB3109103	U52609KA2018PTC114775	LAVENTIC RESELLER AND SERVICES PRIVATE LIMITED
53	AB3111266	U74999KA2017PTC101752	GREENHOUSE INTERNATIONAL PRESCHOOLS PRIVATE LIMITED
54	AB3111348	U72900KA2020PTC139765	MUDRAARTH TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
55	AB3113964	U74999KA2021OPC144649	VYSMAN BUSINESS ADVISORS (OPC) PRIVATE LIMITED
56	AB3115554	U15400KA2016FTC095060	JOY-OF-LIFE NUTRITION (INDIA) PRIVATE LIMITED
57	AB3116310	U72200KA2007PTC042102	DIXIT SOFTWARE CONSULTING PRIVATE LIMITED
58	AB3116591	U15100KA2020PTC135784	SRI DAYAALAHARI FARMS PRIVATE LIMITED
59	AB3117290	U85110KA1991PLC012643	ATULYA FINANCE LIMITED
60	AB3118731	U74999KA2015PTC083216	CHEETAH DELIVERY SERVICES PRIVATE LIMITED
61	AB3120039	U74999KA2018PTC110912	COMPIDO CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
62	AB3120920	U45100KA2019PTC127590	REAPOLIS CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
63	AB3121593	U72900KA2019PTC129751	VAKSO CARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
64	AB3122498	U93000KA2013PTC068825	APRANJE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
65	AB3122782	U55209KA2022OPC167776	ONDU GOODU HOTEL AND CONVENTION PARK (OPC) PRIVATE LIMITED
66	AB3123577	U27320KA2009PTC051704	KAMAL IRON STEEL INDIA PRIVATE LIMITED
67	AB3124387	U68200KA2023PTC173597	JMCC DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
68	AB3124479	U45102KA2017PTC101569	FACITECH LIVING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
69	AB3125125	U74999KA2018OPC113819	MPJ BIG HAT SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED
70	AB3125893	U65999KA2017PTC104198	PWJ CAPITAL INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
71	AB3126060	U45309KA2022OPC163525	WALPROX INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED
72	AB3126980	U72200KA2015PTC080607	TEKNOLEUM SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
73	AB3127106	U92419KA2018PTC110740	GOLDEN STRIDES SPORTS EDUCATION PRIVATE LIMITED
74	AB3127694	U74999KA2018PTC112374	STARVISTA CELEBRITIES PRIVATE LIMITED
75	AB3128233	U74999KA2017PTC107345	SRI VASAVI RECYCLERS INDIA PRIVATE LIMITED
76	AB3130753	U52100KA2023OPC170233	PANTING DEER DECOR (OPC) PRIVATE LIMITED
77	AB3130863	U45200KA2021PTC153614	RCEE ENGISERVE PRIVATE LIMITED
78	AB3130877	U85110KA1995PTC017820	KEN COMPUTEK PRIVATE LIMITED
79	AB3130908	U01122KA1998PTC024059	SUN-ACE EXPORTS PRIVATE LIMITED
80	AB3131160	U74140KA2000PTC027991	KEN CONSULTING PRIVATE LIMITED
81	AB3131447	U24299KA2021PTC146063	PELEMIS WELLNESS PRIVATE LIMITED
82	AB3133629	U35999KA2021PTC149095	E3-VIBHAVA PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
83	AB3140379	U62099KA2023PTC172748	SHELEN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
84	AB3142037	U10719KA2023PTC175309	MUFFETS & TUFFETS BAKE HOUSE PRIVATE LIMITED
85	AB3146251	U73200KA2022PTC162549	TRIYAH WELLNESS PRIVATE LIMITED
86	AB3150420	U74140KA2001PTC169834	SUPPLY CHAIN CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
87	AB3152068	U56210KA2023PTC179224	GOWOW INFOTECH PRIVATE LIMITED
88	AB3155279	U74999KA2019PTC120672	HIDONS FACILITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
89	AB3156083	U70200KA2024OPC186024	SHUBH EVIGNA ADVISORY (OPC) PRIVATE LIMITED
90	AB3157301	U72501KA1994PTC015187	HERSCHEL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
91	AB3159222	U74110KA2012PTC065194	OX-NRICH PRIVATE LIMITED
92	AB3176105	U74999KA2019PTC130436	SMORANIKA CARE PRIVATE LIMITED
93	AB3178607	U62013KA2024PTC184475	EPI EVERYDAY CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
94	AB3179937	U70109KA2021PTC148477	SGPL VENTURES PRIVATE LIMITED
95	AB3180549	U80211KA2016PTC086637	CENTO DREAM EDUCATION PRIVATE LIMITED
96	AB3181422	U72900KA2020PTC137333	ALPYUS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
97	AB3185564	U51311KA2019PTC127055	N.R TEX PRIVATE LIMITED
98	AB3206024	U31901KA2009PTC050976	ELECTRO CONTROLS SYSTEMS AND AUTOMATION PRIVATE LIMITED
99	AB3207931	U74110KA2017PTC106851	FRESHMART EXCLUSIVE RETAIL PRIVATE LIMITED
100	AB3208614	U72900KA2022PTC167872	ELIGIBLEE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
101	AB3218262	U26990KA2022PTC165913	M V GRANITES PRIVATE LIMITED
102	AB3219881	U72900KA2010PTC055317	BIZDOM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
103	AB3224695	U72900KA2018PTC112467	SIMCLIQ TECH SERVICES PRIVATE LIMITED
104	AB3226067	U80904KA2017PTC103511	SCION ACADEMY PRIVATE LIMITED
105	AB3227932	U17299KA2022PTC158038	LABEL TORA PRIVATE LIMITED
106	AB3228978	U20239KA2023OPC174014	PARFAURA (OPC) PRIVATE LIMITED
107	AB3245683	U74900KA2013PTC067512	TAGOS DESIGN INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
108	AB3247537	U01100KA2020PTC141498	KRUSHIGENIC SCIENCE PRIVATE LIMITED
109	AB3255156	U83030KA1995PTC017083	KRISHCOMPS COMPUTER POINT ACADEMY PRIVATE LIMITED
110	AB3256037	U85300KA2020PTC142473	TRUEINFO HEALTH PRIVATE LIMITED
111	AB3257722	U74140KA2004PTC033635	SYNAPSE INDIA MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
112	AB3270174	U02922KA1988PTC009656	SKORA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
113	AB3271420	U85101KA2024PTC186224	GROKUL VENTURES PRIVATE LIMITED
114	AB3293131	U74120KA1985PTC081766	RESOURCE MANAGEMENT (INDIA) PVT LTD
115	AB3294274	U70109KA2017PTC105615	SHAIVI REALTY & ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
116	AB3298529	U45200KA2018PTC117402	ADI SAHITHI REALTY PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/568—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2823166	U92100KL2015PTC038743	MADGENIUS PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
2	AB2886149	U51909KL2021PTC069498	BLURADIANT VENTURES PRIVATE LIMITED
3	AB2924268	U92490KL2018PTC053026	SARANG INTEGRATED PRIVATE LIMITED
4	AB2939521	U74999KL2020PTC066258	MAGGA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
5	AB2946917	U74999KL2018OPC055253	PLM PUZZLES (OPC) PRIVATE LIMITED
6	AB2954368	U26990KL2008PTC022603	SUNRISE LUBRICANTS PRIVATE LIMITED
7	AB2969236	U74999KL2019PTC056533	ZEIT LINE INDIA PRIVATE LIMITED
8	AB2970657	U52399KL2013PTC035500	B-TRACK MARKETING PRIVATE LIMITED
9	AB2972121	U72200KL2001PTC014531	GEMTECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
10	AB3016622	U34300KL2017PTC047906	HYWAY VEHICLE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
11	AB3046550	U72900KL2017OPC051138	EFFICIENTCODERS (OPC) PRIVATE LIMITED
12	AB3048731	U15511KL1970PLC002300	JACOBS LTD
13	AB3085316	U65190KL2022PTC077767	THOTTATHILFINE CHITS PRIVATE LIMITED
14	AB3099269	U59110KL2024PTC089607	TRUE PALATTES FILMS INDIA PRIVATE LIMITED
15	AB3103560	U01100KL2018PTC055275	GERIO MEDFARM PRIVATE LIMITED
16	AB3109492	U51909KL2021PTC071521	SOCIOS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
17	AB3120388	U28939KL2007PTC020494	SUPREME POWERTECH PRIVATE LIMITED
18	AB3121801	U65992KL1999PTC013380	MANPOWER KURIES PRIVATE LIMITED
19	AB3135510	U72900KL2019PTC059802	DUALEAP INDIA PRIVATE LIMITED
20	AB3203491	U74993KL2018PTC052275	IZVAAN TECH INDIA PRIVATE LIMITED
21	AB3231087	U65910KL2015PLC039477	CONFIDO NIDHI LIMITED
22	AB3243639	U69100KL2022PTC077695	INVINZ FINTECH PRIVATE LIMITED
23	AB3283884	U46309KL2024PTC090460	MELPRO FOODS PRIVATE LIMITED
24	AB3299778	U74140KL2015OPC038546	CONFIDO CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (OPC)
25	AB3308947	U72200KL2021PTC071136	SEAMLEZZIT SERVICES PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/569—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2935452	U72502MP2022PTC059264	AJIOSYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
2	AB3001400	U50400MP2022PTC059777	DUARANATH PRIVATE LIMITED
3	AB3016717	U51909MP2022PTC061762	SASSYOGI TEXTILES PRIVATE LIMITED
4	AB3041642	U74110MP2007PTC019561	SLN LAWCON PRIVATE LIMITED
5	AB3055782	U25209MP1989PTC005005	MATSON ACMEPLAST PVT LTD.
6	AB3070616	U15400MP2011PTC025489	JAJU FOOD PRIVATE LIMITED
7	AB3083791	U74994MP2018PTC045399	TEJAS RAWAL EDUTECH PRIVATE LIMITED
8	AB3091587	U72900MP2022PTC061861	MAYOVATION PRIVATE LIMITED
9	AB3096026	U74900MP2016PTC035330	ALTROTRIX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
10	AB3117630	U35999MP2021PTC057869	AUTOVIN VENTURES PRIVATE LIMITED
11	AB3119693	U27320MP1997PTC011913	SANWALKA SECURITIES & SERVICES PRIVATE LIMITED
12	AB3120726	U24233MP1988PTC004431	TAYYEBI UNANI PHARMACEUTICALS PVT LTD
13	AB3124083	U01403MP2016OPC035480	VAIOTECH SERVICE & SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED
14	AB3124310	U93000MP2021PTC057703	MA MANDAKINI SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
15	AB3128144	U45203MP1992PTC007371	RISHI CONSTRUCTION AND MAINTENANCE PVT LTD
16	AB3130553	U66190MP2023PTC064973	RIGHT EMI FINTECH PRIVATE LIMITED
17	AB3134743	U01403MP2015PTC034256	RAAGA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
18	AB3148400	U74994MP2018PTC047330	SHORVAC LIFESTYLE (INDIA) PRIVATE LIMITED
19	AB3159866	U52219MP2023PTC067550	BHUDHARA QUALITY FUELS & LOGISTICS PRIVATE LIMITED
20	AB3161867	U52590MP2020PTC051330	SMJAIN FARM FRESH INDIA PRIVATE LIMITED
21	AB3165817	U45309MP2019PTC048896	KASHIRAM ELECTRICALS & INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
22	AB3206575	U72900MP2022PTC061364	WEURJA360 INFOTECH PRIVATE LIMITED
23	AB3226210	U85190MP2021PTC057426	MATE YOUR PETS PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/570—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2796944	U72900MH2021PTC365241	RIGHT CORE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2	AB2847945	U45201MH2022PTC386656	TOSCO VENTURES INDIA PRIVATE LIMITED
3	AB2854469	U70109MH2013PTC248748	JCG CONSULTING AND INFOSYSTEM PRIVATE LIMITED
4	AB2869875	U93090MH2010PTC199915	PI GLOBAL - BRAND ID CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
5	AB2875482	U24302MH2022PTC376376	S.A. PHARMACHEM (ANIMAL HEALTH) PRIVATE LIMITED
6	AB2881548	U74110MH2020PLC340875	PRIMEGIC INTERNATIONAL LIMITED
7	AB2891421	U56102MH2024PTC418615	JAFRAN BIRYANI PRIVATE LIMITED
8	AB2903617	U74120MH2016PTC273409	AHG LAUNDARY SERVICE PRIVATE LIMITED
9	AB2928732	U70100MH2012PTC227142	WMP BUILDHOME PRIVATE LIMITED
10	AB2932917	U46901MH2024PTC428565	POLYGLITE LABS PRIVATE LIMITED
11	AB2937944	U74999MH2013PTC246921	JAS SECURITY FORCE PRIVATE LIMITED
12	AB2940909	U74999MH2016PTC284311	STUNNERY BEAUTY LABS PRIVATE LIMITED
13	AB2955363	U74900MH2011PTC221431	KAWACHI LIFESTYLES PRIVATE LIMITED
14	AB2956989	U70102MH2010PTC208788	BRIGHTER FUTURE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
15	AB2960600	U85195MH2004PTC144058	TOTAL T3T4TSH DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
16	AB2968687	U15134MH2018PTC341569	KWENCHRS BEVERAGE PRIVATE LIMITED
17	AB2971558	U51109MH2010PTC204263	STALWART MERCHANDISING PRIVATE LIMITED
18	AB2972358	U74909MH2023OPC413903	SAAVI7 CONSULTING (OPC) PRIVATE LIMITED
19	AB2974231	U74999MH2023OPC396888	TIRTHGAMAN ONLINE (OPC) PRIVATE LIMITED
20	AB2975003	U55209MH2019PTC319118	PMWS HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
21	AB2975374	U55101MH2021PTC367205	PICCADLE INN PRIVATE LIMITED
22	AB2975704	U55209MH2019PTC325173	MEHTA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
23	AB2979578	U63090MH2015PTC264214	TRAVELLITE TRAVEL SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
24	AB2985298	U74910MH2019PTC328637	ETHNOLOGIC HR SERVICES PRIVATE LIMITED
25	AB2988072	U25209MH2021PTC368293	SUNRAJ POLYPACK PRIVATE LIMITED
26	AB2997247	U74999MH2018PTC304558	TANOAK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
27	AB2999723	U92100MH2018PTC309681	MIGRANT FILMS PRIVATE LIMITED
28	AB3001744	U99999MH2005PTC158559	DREAM KNITS IMPEX PRIVATE LIMITED
29	AB3002242	U74120MH2012PTC232441	LION GLOBAL MANAGEMENT CONSULTING PVT.LTD.
30	AB3003278	U92412MH2010PTC209519	AMADEUS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
31	AB3004228	U31904MH2022PTC379843	FIREBOLTT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
32	AB3006809	U72900MH2020PTC350391	GROWTHFINITY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
33	AB3013120	U85100MH2022OPC388143	HEMANT WAGH (OPC) PRIVATE LIMITED
34	AB3017706	U67120MH1983PTC029565	AMCO HOLDINGS PVT LTD
35	AB3018235	U74999MH2011PTC215043	AD INFINITUM MEDIA NETWORK PRIVATE LIMITED
36	AB3021129	U73100MH2021PTC369637	VALIMETRICS PRIVATE LIMITED
37	AB3021350	U74999MH2018PTC311618	JANDAWAI VENTURES PRIVATE LIMITED
38	AB3023848	U52599MH2020PTC426136	TRILLION INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
39	AB3032570	U74210MH2008PTC188689	SVENSKA INFRA SERVICES PRIVATE LIMITED
40	AB3033613	U74900MH2014PTC254994	MANOJ BAJPAYEE PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
41	AB3034664	U45400MH2022OPC383750	VAJRESHWAR ENTERPRISES AND MULTI SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
42	AB3035117	U80221MH2004PTC192692	BRAINSMITHS EDUCATION PRIVATE LIMITED
43	AB3039894	U74999MH2019PTC321746	HEXA HEALTH DIMENSIONS PRIVATE LIMITED
44	AB3045354	U67110MH2020PTC347508	ABSOLUTE ADVANTAGE ALPHA PRIVATE LIMITED
45	AB3045965	U70102MH2012PTC235180	SANAHIND REALTY AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
46	AB3048579	U74120MH2014FTC259268	THE SOUND BRAND CONSULTING AND STRATEGIC RESEARCH PRIVATE LIMITED
47	AB3049331	U74999MH2014PTC255430	MADITUDE FILMS PRIVATE LIMITED
48	AB3049842	U70109MH2022PTC393565	VIVHAR LAND PROJECTS PRIVATE LIMITED
49	AB3049874	U72200MH2021PTC372547	ECARRD FUSION PRIVATE LIMITED
50	AB3050509	U17299MH2007PTC166678	RIKHAB TEX CREATION PRIVATE LIMITED
51	AB3057254	U28910MH2015PTC264099	ENDURE ENGINEERING PRIVATE LIMITED
52	AB3060212	U35999MH2022PTC394565	TOMAR SINGH CHARTERS PRIVATE LIMITED
53	AB3060374	U63090MH2014PTC257944	MUSAFIRS MOTORCYCLE TOURS PRIVATE LIMITED
54	AB3060921	U51909MH2020PTC339123	RIMEDIO PHARMA PRIVATE LIMITED
55	AB3066662	U74900MH2014PLC260524	EXCELLA INFRA ENGINEERING LIMITED
56	AB3066982	U74999MH2019PTC322619	VAASUPRADA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
57	AB3074229	U64990MH2023PTC406468	BHARAT HOUSING FINANCE PRIVATE LIMITED
58	AB3075540	U51100MH2020PTC339126	QUROMED LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
59	AB3076761	U52390MH2022OPC377025	AVOS ENTERPRISE (OPC) PRIVATE LIMITED
60	AB3081388	U74999MH2022PTC377433	BAMBUDI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
61	AB3084530	U74999MH2018PTC316783	LENISA CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
62	AB3089064	U74210MH2004PTC145624	ERIC STRUCTURE AND INFRASTRUCTURE CONSULTANT PRIVATE LIMITED
63	AB3089621	U51900MH1993PTC073182	OSMANIA TRADERS PRIVATE LIMITED
64	AB3090359	U72900MH2003PTC140174	READYWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
65	AB3091428	U59111MH2023PTC411886	O.Y.S. PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
66	AB3091863	U45201MH2001PTC133990	GEMINI COMPLEX PRIVATE LIMITED
67	AB3092002	U67120MH1996PTC103503	COPPER HOLDINGS PRIVATE LIMITED
68	AB3092355	U99999MH2001PTC134189	JUPITER NEVESH PRIVATE LIMITED
69	AB3092422	U45303MH2020PTC338858	ASHWAINFRA GLOBAL CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
70	AB3097039	U74900MH2020PTC350725	BELLEVERSE PRIVATE LIMITED
71	AB3097074	U80902MH2017PTC291265	EDPROSYS INDIA PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
72	AB3097435	U74990MH2018PTC311398	UNIVERSE PASSAGE WAYFARING INDIA PRIVATE LIMITED
73	AB3097534	U35990MH2022PTC380994	DRONARCHARYA AVIONICS PRIVATE LIMITED
74	AB3101229	U59201MH2023PTC398747	TANADERENA PRIVATE LIMITED
75	AB3102195	U80300MH2021PTC370516	HOBBY TURTLE PRIVATE LIMITED
76	AB3102210	U74120MH2014PTC256705	THEMIS LEGAL CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
77	AB3103312	U74130MH2020PTC342219	GENIQE NUTRITION PRIVATE LIMITED
78	AB3103852	U62013MH2024PTC419867	CREATOLIX PRIVATE LIMITED
79	AB3104764	U74999MH2020PTC338721	BOOKMYWIZARD CONSULTING PRIVATE LIMITED
80	AB3105579	U63040MH1999PTC119978	RASHMIKA TRAVEL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
81	AB3105656	U99999MH1992PTC066592	SINTOFARM (INDIA) PRIVATE LIMITED
82	AB3105747	U46690MH2024PTC427405	NEXTERA RECYCLERS PRIVATE LIMITED
83	AB3106992	U72900MH2014PTC260308	CRISPQ INFORMATION TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
84	AB3107484	U72900MH1995PTC084832	MEDIA HOUSE INDIA PRIVATE LIMITED
85	AB3109087	U51507MH2018PTC307965	DWITI IMPEX PRIVATE LIMITED
86	AB3109172	U93000MH2007PTC169531	GANTRY CRANE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
87	AB3114205	U45203MH2008PTC178243	OJAS PROPERTIES PRIVATE LIMITED
88	AB3116836	U51101MH2015PTC271234	ANISE ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
89	AB3118344	U15100MH2000PTC125840	GALAXY MEGA FOOD PARK PRIVATE LIMITED
90	AB3118507	U46301MH2023PTC411551	AMLS VENTURES PRIVATE LIMITED
91	AB3118621	U90001MH2011PLC223662	ENVIROPROTECT WASTE MANAGEMENT LIMITED
92	AB3119049	U22130MH2008PTC187220	EN ROUTE MEDIA PRIVATE LIMITED
93	AB3119051	U74999MH2018PTC312346	BLUX BIZ PRIVATE LIMITED
94	AB3119109	U74999MH2013PTC250896	BRAND PERSONA MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
95	AB3119157	U40109MH2020PTC336003	VAAYU RENEWABLE ENERGY (ETTANKULAM) PRIVATE LIMITED
96	AB3119692	U72300MH2015PTC262085	SBG IDEAS PRIVATE LIMITED
97	AB3120096	U24290MH2020PTC341439	TWIKI AURUS PRIVATE LIMITED
98	AB3120354	U01639MH2023PTC402080	RUSHAB DEV FARMER PRODUCER COMPANY LIMITED
99	AB3120485	U80300MH2022PTC375018	TALENTEDHIPPO PRIVATE LIMITED
100	AB3121221	U51909MH2019PTC334500	ASTROM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
101	AB3121264	U85300MH2021PTC373870	PANDES ALERT MEDICARE PRIVATE LIMITED
102	AB3121756	U74999MH2017PTC292928	UNIVERSAL FUMIPEST PRIVATE LIMITED
103	AB3121807	U74999MH2018PTC305389	EWIZ VENTURES PRIVATE LIMITED
104	AB3122233	U74120MH2013PTC242829	TROUBLEMAKER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
105	AB3122626	U74900MH2009PTC195300	VINCARE PHARMA PRIVATE LIMITED
106	AB3124308	U18109MH2022PTC382124	MKSH APPARELS PRIVATE LIMITED
107	AB3124431	U31100MH2007PTC176456	COCKFOSTERS INDIA PRIVATE LIMITED
108	AB3125781	U24304MH2020FTC337650	PERSTORP INDIA PRIVATE LIMITED
109	AB3126212	U74999MH2018PTC316986	BIZSR ADVISORY PRIVATE LIMITED
110	AB3126582	U62011MH2024FTC428637	EYECON INDIA PRIVATE LIMITED
111	AB3126619	U74999MH2017PTC300462	AARAV'S PARTY STUDIO PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
112	AB3127558	U45100MH2017PTC300590	SOLASTER PRODUCTION AND CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
113	AB3127723	U25190MH2013PTC241046	SIERRA SAFETY PRIVATE LIMITED
114	AB3128033	U45400MH2008PTC182059	ROYALFEEL REAL ESTATE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
115	AB3128189	U72900MH2021PTC357317	2K21 INFOTECH INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
116	AB3128459	U24299MH2021PTC354598	CINOPEX INSECTICIDE & FERTILIZER PRIVATE LIMITED
117	AB3128784	U59130MH2024PTC423742	SSP VISION PRIVATE LIMITED
118	AB3129198	U74999MH2020PTC350235	VYUGMA TECH PRIVATE LIMITED
119	AB3130086	U92490MH2022PTC385730	SEQUELLA STUDIOS PRIVATE LIMITED
120	AB3130721	U74999MH2018PTC315205	AVLIYAA BRAND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
121	AB3130742	U40106MH2020PTC343916	SULAKKAL WIND POWER PRIVATE LIMITED
122	AB3131437	U72900MH2022PTC390928	UC INFOLINE PRIVATE LIMITED
123	AB3131593	U24230MH2021PTC356147	3D SCIENTIFIC PRIVATE LIMITED
124	AB3131865	U10102MH2021PTC361929	INDO ANGLO MINING PRIVATE LIMITED
125	AB3131936	U40105MH2021PTC362685	VAAYU RENEWABLE ENERGY (UKKIRANKOTTAI) PRIVATE LIMITED
126	AB3132093	U51100MH2004PTC150080	MADHURO COMMODITIES PRIVATE LIMITED
127	AB3132207	U40108MH2022PTC394601	VIVIID CONCRETE FOR RENEWABLES PRIVATE LIMITED
128	AB3132372	U40300MH2018PTC310104	YERMALA POWER ENERGY PRIVATE LIMITED
129	AB3133476	U62099MH2023PTC410082	SIDHYANTI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
130	AB3134045	U74999MH2011PTC223162	SHARANAM OVERSEAS PRIVATE LIMITED
131	AB3134497	U70102MH2008PTC185236	GOODBUI REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
132	AB3135083	U74999MH2020PTC338257	KARZA AA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
133	AB3135096	U64200MH2019PTC326534	JOLLYWORLD ENTERTAINMENT & PRODUCTION PRIVATE LIMITED
134	AB3135185	U24239MH1997PTC106682	TRIUMPH CHEMICALS PRIVATE LIMITED
135	AB3136599	U68100MH2023PTC414694	CREDENCE SPACES PRIVATE LIMITED
136	AB3141229	U74900MH2014PTC255655	LEOCAP SERVICES PRIVATE LIMITED
137	AB3141967	U51909MH1992PTC068231	ROOPANAND TRADERS PVT.LTD.
138	AB3142186	U46101MH2023PTC410516	HASTINAAD EXPORTS PRIVATE LIMITED
139	AB3146811	U92120MH2007PTC173875	RAHUL DHOLAKIA PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
140	AB3149939	U74999MH2018PTC310393	ARTFILLS PRIVATE LIMITED
141	AB3154891	U85300MH2021OPC371717	DENTSURE (OPC) PRIVATE LIMITED
142	AB3155104	U29254MH2012PTC226090	SANJIVAN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
143	AB3162969	U15490MH2021PTC366132	MALKHARE FOODS PRIVATE LIMITED
144	AB3163519	U46209MH2023PTC399317	CONTINENTAL COIR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
145	AB3166969	U60300MH2018PTC312426	EAST COAST CONCESSIONS PRIVATE LIMITED
146	AB3170059	U40200MH2022PTC384689	VISH WIND ENERGY (GONDIPALLI) PRIVATE LIMITED
147	AB3173473	U52100MH2020PTC339031	BHARATKUMAR TRADELINK INDIA PRIVATE LIMITED
148	AB3176769	U15125MH2018PTC310590	TGD FOODS PRIVATE LIMITED
149	AB3183267	U63000MH2019PTC326087	SANCSHAPE SOLUTION PRIVATE LIMITED
150	AB3200783	U46497MH2024PTC424096	PAKSH MAXHEAL PHARMA PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
151	AB3203043	U74120MH2015PTC270387	SABRAN BIOENTTRI PRIVATE LIMITED
152	AB3203112	U01403MH2013PTC242168	SUN AGRI BUSINESS PRIVATE LIMITED
153	AB3204695	U72900MH2018PTC305026	VIVACIOUS PROCESSES PRIVATE LIMITED
154	AB3205777	U67100MH2022PTC388936	PRAMEY & SANIKA LIVESTOCK PRIVATE LIMITED
155	AB3228806	U29301MH2023PTC414811	INDORAMA AUTO PRIVATE LIMITED
156	AB3232244	U25209MH2021PTC357638	OLIO AUTOPLAST PRIVATE LIMITED
157	AB3238044	U55101MH2021PTC372632	ROTIKART PRIVATE LIMITED
158	AB3238871	U24100MH2022PTC380941	REALFILL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
159	AB3241479	U52500MH2022PTC384551	PULP IN MANUFACTURING AND RETAILING PRIVATE LIMITED
160	AB3246940	U15137MH2022PTC382194	PLATTRRMOMS PRIVATE LIMITED
161	AB3249528	U72900MH2021PTC361194	CRYPTOPHY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
162	AB3253128	U70102MH2011PTC217812	VPB HOMESTAY PRIVATE LIMITED
163	AB3253457	U70102MH2010PTC200874	ROPRI ESTATES PRIVATE LIMITED
164	AB3272624	U90009MH2024OPC423592	BAKERS JUNCTION (OPC) PRIVATE LIMITED
165	AB3274505	U74999MH2013PTC250965	FLYING LION INTERNATIONAL TRADING PRIVATE LIMITED
166	AB3275779	U61900MH2024PTC434456	FSONET NETWORKS PRIVATE LIMITED
167	AB3276388	U74999MH2021PTC364512	GIGQUEST LOCAL EVENTS PRIVATE LIMITED
168	AB3284833	U73100MH2025PTC440472	ZOO MEDIA MARKETING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
169	AB3287270	U55204MH2000PTC124453	NEW EXCELSIOR CATERERS PRIVATE LIMITED
170	AB3298829	U73100MH2023PTC401461	NXT MOBI DIGITAL MEDIA PRIVATE LIMITED
171	AB3299413	U85190MH2018PTC313583	ST FITNESS ACADEMYPRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/571—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2810161	U74103PN2023OPC223484	GRAPHICANA (OPC) PRIVATE LIMITED
2	AB2825735	U51502PN2015PTC157498	APPL CORP PRIVATE LIMITED
3	AB2891930	U74999PN2019PTC181970	BIZLYNX CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
4	AB2894052	U28195PN2023PTC223768	RDI IONIZER PRIVATE LIMITED
5	AB2901445	U74210PN2007PTC130843	UNITECH METALSTAMPING TECHNOLOGIES PRIVATE

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
			LIMITED
6	AB2936237	U70200PN2024PTC229639	FERETA ADVISORY PRIVATE LIMITED
7	AB2937717	U62099PN2023PTC224780	SYSTEMHEARTBIT PRIVATE LIMITED
8	AB2938231	U74999PN2016OPC166398	HRIDAYA CINE CRAFTS (OPC) PRIVATE LIMITED
9	AB2952887	U63090PN2011PTC139299	FTC TRANSPORT SERVICES PRIVATE LIMITED
10	AB2964622	U80902PN2020PTC189534	SAMATA EDUCATIONAL SUPPORT NETWORKING PRIVATE LIMITED
11	AB2983451	U72900PN2021PTC197472	ASTRANOVA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
12	AB2985635	U93090PN2021PTC199377	BHAGYADEKHO PRIVATE LIMITED
13	AB2986775	U20211PN2023PTC220771	MELZER SPECIALITIES PRIVATE LIMITED
14	AB2997407	U74999PN2018OPC174139	SATISAMO DIGITAL SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
15	AB2999634	U46901PN2024PTC233068	PURE TRUTH COMMERCE PRIVATE LIMITED
16	AB3000891	U29130PN2009PTC134872	APEX DYNAMICS TRANSMISSION CONTROLS PRIVATE LIMITED
17	AB3019471	U72900PN2015PTC153856	SODATSU CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
18	AB3027486	U74900PN2013PTC148510	INTELLIZENZ INNOVATION BREAKTHROUGHZ PRIVATE LIMITED
19	AB3056026	U93000PN2009PTC133493	BOTTOM OF PYRAMID ENERGY AND ENVIRONMENTAL INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
20	AB3066795	U52609PN2019PTC184089	FAARK INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
21	AB3073269	U51909PN2022FTC213373	BENTELER TRADING INTERNATIONAL INDIA PRIVATE LIMITED
22	AB3087916	U74999PN2019PTC184616	GO 153 TECHNOVENTURES PRIVATE LIMITED
23	AB3093503	U24299PN2019FTC184325	SALNO TECH PRIVATE LIMITED
24	AB3097122	U85499PN2024PTC230224	BAIGURU EDUTECH PRIVATE LIMITED
25	AB3103766	U74900PN2008PTC131773	METALART TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
26	AB3104128	U85110PN2021PTC198703	TARADOC PRIVATE LIMITED
27	AB3104719	U72200PN2017PTC171022	AMRATA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
28	AB3105940	U01100PN2022OPC208546	AR GREENTECH (OPC) PRIVATE LIMITED
29	AB3110583	U43299PN2012PTC145088	SRMJEW DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
30	AB3112849	U74999PN2022PTC212170	ELEMONDO INTERIORS PRIVATE LIMITED
31	AB3114399	U41000PN2020PTC196073	AGARWAL CONSOLIDATED PRIVATE LIMITED
32	AB3115794	U25190PN2016PTC166019	MUT EXTRUSION COMPONENTS PRIVATE LIMITED
33	AB3117257	U63090PN2017PTC168262	SAUMITRA HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
34	AB3117941	U46620PN2024PTC229984	ROXFORD STEELS PRIVATE LIMITED
35	AB3120005	U73100PN2024OPC229952	SOCIALBEE SOCIALS (OPC) PRIVATE LIMITED
36	AB3120331	U29100PN2021PTC198429	AVANTIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
37	AB3121644	U34100PN2021PTC204761	ADVIK ELECTRIC PRIVATE LIMITED
38	AB3123243	U72900PN2012PTC145318	GLIMMERUS INFOTECH PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
39	AB3123345	U72500PN2016PTC164263	CORIGENCE SOFTWARES PRIVATE LIMITED
40	AB3125631	U29299PN2022PTC217007	ADVIK PURE HYDROGEN INDIA PRIVATE LIMITED
41	AB3125903	U01193PN2024PTC232767	SNEHKUSUM PRIVATE LIMITED
42	AB3126251	U29299PN2022PTC216780	ADVIK H2X PRIVATE LIMITED
43	AB3126488	U29308PN2022PTC213417	ADVIK FUTURE FUELS PRIVATE LIMITED
44	AB3128713	U72900PN2021PTC203130	TECHFORTIUS PRIVATE LIMITED
45	AB3129234	U15400PN2019PTC185603	NUTRICHROME FOODS PRIVATE LIMITED
46	AB3130305	U74900PN2015PTC154081	ABLE ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
47	AB3130581	U01111PN2020PTC196728	AAPLA GAON FARMER AGRO PRODUCER COMPANY LIMITED
48	AB3132020	U72900PN2019PTC188033	AVENOIR INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
49	AB3133192	U47912PN2024PTC228303	DARRJA EMPORIUM PRIVATE LIMITED
50	AB3133540	U58200PN2023PTC226917	DARRJA ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
51	AB3133939	U74900PN2014PTC151114	QUALITY HR & MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED
52	AB3148590	U29299PN2020PTC189888	MAX-EN GEARS PRIVATE LIMITED
53	AB3156885	U74999PN2015PTC154852	DOYOURCOMPLIANCE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
54	AB3166349	U72900PN2022PTC208302	BRI SMAPP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
55	AB3168028	U74900PN2013PTC147315	K. P. BADGUJAR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
56	AB3172794	U45400PN2021PTC205658	DARSH INVENTURES PRIVATE LIMITED
57	AB3183063	U74999PN2014PTC153199	VICTORIOUS FITNESS & SPORT EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
58	AB3190747	U74999PN2017PTC169875	IMPACT DATA SERVICES PRIVATE LIMITED
59	AB3191580	U32909PN2023PTC223071	KROWALK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
60	AB3210260	U73200PN2020PTC189188	INTERNATIONAL INSTITUTE OF INNOVATION AND TECH. EXCELLENCE PRIVATE LIMITED
61	AB3210874	U73100PN2020PTC189412	RADIAL LABORATORIES INDIA PRIVATE LIMITED
62	AB3214279	U24230PN2021PTC207048	KUBO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
63	AB3218334	U72900PN2020PTC196596	ASECENTECH INNOVATION PRIVATE LIMITED
64	AB3219607	U35999PN2022OPC211716	OMGA MANUFACTURING & TRADING (OPC) PRIVATE LIMITED
65	AB3227360	U72900PN2020PTC191915	CORE ADMIRE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
66	AB3227681	U70200PN2023PTC225764	ECOWORLD CONSULTANCY AND ADVIOSRY SERVICE PRIVATE LIMITED
67	AB3231854	U45100PN2020PTC188880	IPR ATMOSPHERIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
68	AB3234254	U46204PN2023PTC222822	ASTRAL GLOBAL PRIVATE LIMITED
69	AB3244133	U72900PN2022OPC209089	Y-SCALER TECHNOLOGY (OPC) PRIVATE LIMITED
70	AB3248888	U74999PN2021PTC198069	SAHAY AND VERMA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
71	AB3267590	U85100PN2012PTC142247	DEFEAT OBESITY & DIABETES PRIVATE LIMITED
72	AB3268593	U68200PN2015PTC155437	PISKON PROPERTIES PRIVATE LIMITED
73	AB3270620	U72900PN2020OPC193079	SHREE SARVESH COMPUTERS (OPC) PRIVATE

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
			LIMITED
74	AB3286709	U72900PN2022OPC210075	AIELEGENCE SOFTWARE (OPC) PRIVATE LIMITED
75	AB3291365	U93190PN2023PTC218565	SPORTEIFY SPORT EVENTS PRIVATE LIMITED
76	AB3304778	U74900PN2015PTC154331	LOKAVIDU CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Company

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/572—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Company have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB3110119	U59112MN2024PTC014987	MITPANA PRODUCTION PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/573—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2977993	U01111OR2016PTC019755	VAM AGRO (INDIA) PRIVATE LIMITED
2	AB3081938	U26954OR2008PTC010348	P. S. CONCRETE PRIVATE LIMITED
3	AB3112418	U74995OR2017OPC027764	CRAFTS INTERIO (OPC) PRIVATE LIMITED
4	AB3128073	U52601OR2022PTC041550	Z PROTEIN MART PRIVATE LIMITED
5	AB3274165	U74140OR2015PTC019188	AMARTYA VENTURES PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/574—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2968423	U15490PY2022PTC008843	BRO'S BURGER PRIVATE LIMITED
2	AB3081860	U50100PY2011PTC002615	THE STAR CARS PRIVATE LIMITED
3	AB3118064	U72900PY2020PTC008511	NZONE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/575—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2755437	U74140PB2020PTC051067	MOBAPP TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2	AB2875273	U70109PB2020PTC051858	UBP DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
3	AB2965089	U65921PB1989PTC009356	Y R INVESTMENTS PVT LTD
4	AB3000821	U74999PB2017OPC046445	SPIC MONSTER CLEANING SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
5	AB3053390	U74920PB2014PTC038346	D P NAGPAL SECURITY SERVICES AND VALLET PARKING AGENCY PRIVTAE LIMITED
6	AB3070752	U68200PB2019PTC049274	MFS OVERSEAS PRIVATE LIMITED
7	AB3101537	U65921PB2013PTC037307	RED STAR FINANCE PRIVATE LIMITED
8	AB3109320	U65999PB2017PLC046401	SARVVAYAPI NIDHI LIMITED
9	AB3122335	U51909PB2022PTC055582	ND LIFECARE PRIVATE LIMITED
10	AB3126556	U50400PB2019PTC049818	PINTOO STEERINGS PRIVATE LIMITED
11	AB3136379	U01111PB2010PTC033503	SARTAJ AGRO PRIVATE LIMITED
12	AB3188183	U70100PB1992PTC012304	K K JUTE TRADERS AND MANUFACTURERS PVT LTD
13	AB3217537	U68200PB2023PTC060031	SACHIAR REALTY PRIVATE LIMITED
14	AB3228927	U30923PB2023PTC058550	FLOWSHIELD INVESTMENT PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/576—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2814808	U72900RJ2020PTC068869	APEX CLASSES EDUTECH PRIVATE LIMITED
2	AB2839281	U67200RJ2019PLN066748	BKR NIDHI LIMITED
3	AB2911662	U31001RJ2023PTC086809	JAS UNISTORE PRIVATE LIMITED
4	AB2924553	U62012RJ2023PTC091774	AKSAARVI TECHNO PRIVATE LIMITED
5	AB2959825	U17124RJ1987PTC004204	AJANTA FABRICS PRIVATE LIMITED
6	AB2984683	U14101RJ2006PTC023530	RASHIKA GRANIMARMO PRIVATE LIMITED
7	AB2994116	U14101RJ1996PTC012579	LUXURY LIME COMAPNY PRIVATE LIMITED
8	AB3023869	U96908RJ2023PTC086157	VUNIA JEWELRY PRIVATE LIMITED
9	AB3042997	U72900RJ2013PTC041585	HRITAM TECHNOLOGY CONSULTING PRIVATE LIMITED
10	AB3051752	U74999RJ2018PTC061074	JRT-TECHNO SOLUTION INDIA PRIVATE LIMITED
11	AB3054710	U51909RJ2020PTC068287	ALIFA EXIM PRIVATE LIMITED
12	AB3057585	U80904RJ2021PTC076071	STEM FOR YOU PRIVATE LIMITED
13	AB3067483	U74999RJ2017PTC057279	MOBI CLASS EDUCATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
14	AB3081133	U64202RJ2005PTC020423	ROAD AHEAD TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
15	AB3090961	U52609RJ2022PTC082945	ML EVENT PRIVATE LIMITED
16	AB3093752	U62099RJ2023PTC086750	MAA GAYTRI GAMING PRIVATE LIMITED
17	AB3097846	U15117RJ2018PTC062439	KCRS FOODS PRIVATE LIMITED
18	AB3117650	U74999RJ2017PTC059867	ASTRAUBIKA GLOBAL PRIVATE LIMITED
19	AB3119668	U74999RJ2018PTC063183	HWASSIST PRIVATE LIMITED
20	AB3122600	U63030RJ2022PTC079766	MANORAM AGRISORT PRIVATE LIMITED
21	AB3123088	U74140RJ2012PTC038311	MAGIC CREATIVE CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
22	AB3124122	U51909RJ2022PTC080658	NAVEEN AGROVET PRIVATE LIMITED
23	AB3124781	U28999RJ2020PTC069970	KALIKA ROLLING MILLS PRIVATE LIMITED
24	AB3127667	U50500RJ2021PTC076144	BHOOMIL BIO PRIVATE LIMITED
25	AB3129209	U32109RJ2011PTC036635	MAX MICRO POWER PRIVATE LIMITED
26	AB3132706	U85500RJ2024PTC094177	GROANT CONSULTING PRIVATE LIMITED
27	AB3145619	U72200RJ2023PTC085568	SARVLOK INFOTECH PRIVATE LIMITED
28	AB3193028	U74999RJ2019PTC067586	ATOZ DIGITAL PAYMENTS PRIVATE LIMITED
29	AB3223896	U63040RJ2019PTC066351	TWL TOURS PRIVATE LIMITED
30	AB3253205	U15311RJ2011PTC037018	PINKCITY CORPORATION PRIVATE LIMITED
31	AB3256782	U72900RJ2018PTC061984	ENCODERLABS IT SERVICES PRIVATE LIMITED
32	AB3271758	U45309RJ2021PTC075598	ASKMY SERVICES PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/577—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2782411	U63119TN2023FTC160615	OBJECTWAYS TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
2	AB2782830	U27200TN2019PTC130159	CHRYSENTA IMPORTS AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
3	AB2840556	U24304TN2020PTC137171	SANGOMAN LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
4	AB2851121	U74120TN2013PTC091621	BASS BIZ SERVICES PRIVATE LIMITED
5	AB2862115	U74999TN2015PTC101196	ISENSE MEDIA PRIVATE LIMITED
6	AB2862387	U93000TN2010PTC078274	FAST TRACK CALL TAXI MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
7	AB2897965	U74999TN2013PTC090567	EKO IMPORTING & RETAILING PRIVATE LIMITED
8	AB2903562	U51909TN2018PTC122193	GORO (INDIA) PRIVATE LIMITED
9	AB2937821	U74900TN2022PTC150773	SOLUTIONSAVVY STAFFING PRIVATE LIMITED
10	AB2939341	U74999TN2019PTC128671	CAFSJOBS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
11	AB2940375	U80902TN2022PTC151174	ACAT FLYING ACADEMY PRIVATE LIMITED
12	AB2949151	U15132TN2015PTC100163	SKEP ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
13	AB2950432	U74140TN2019FTC129686	CONTRACT WRANGLER INDIA PRIVATE LIMITED
14	AB2961002	U52290TN2024PTC168890	ENDURANCE MOBILITY PRIVATE LIMITED
15	AB2962120	U45202TN2019PTC129469	RVS FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
16	AB2975733	U72900TN2022PTC154243	MSNTOOPAY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
17	AB2977278	U74999TN2018PTC125525	DURIN ALGOWORKS PRIVATE LIMITED
18	AB2979922	U92490TN2020PTC137592	RAIN ON FILMS PRIVATE LIMITED
19	AB2980700	U63090TN2006PTC060941	GRANDEUR LOGISTICS PRIVATE LIMITED
20	AB2992323	U80211TN1999PTC041755	SHARATH EDUCATIONAL PROMOTERS PRIVATE LIMITED
21	AB3010690	U27209TN2020PTC135724	TRISTEEL ENGINEERING PRIVATE LIMITED
22	AB3038146	U72900TN2007PTC065692	ARAVINT SYNERGIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
23	AB3047452	U65921TN1988PTC016089	ABIRAMI HIRE PURCHASE FINANCE PRIVATE LIMITED
24	AB3053748	U74999TN2017PTC118010	ARAN IYARPORUTKAL PRIVATE LIMITED
25	AB3055999	U51900TN2010PLC077946	GAMING INDIA DISTRIBUTOR LIMITED.
26	AB3062811	U52599TN1994PTC029238	SUKINO IMPEX PRIVATE LIMITED
27	AB3087275	U80901TN2010PTC075366	MERITUS SMART LEARNING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
28	AB3089533	U71100TN2023PTC161686	JAYA LATHE ENERGY INFRA PRIVATE LIMITED
29	AB3091851	U17111TN2004PTC054881	SINGARAM FABRICS PRIVATE LIMITED

S No.	Work Item	CIN	Company Name
30	AB3096320	U15490TN2020PTC140248	ENERZIA WELLNESS PRIVATE LIMITED
31	AB3097790	U34100TN2020PTC135160	TESALT INDIA PRIVATE LIMITED
32	AB3099820	U72900TN2020PTC139053	IY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
33	AB3102066	U70200TN2024PTC167038	SOUTHERN LIGHTS BUSINESS SUPPORT SERVICES PRIVATE LIMITED
34	AB3103958	U74999TN2021OPC143725	ALT-KUZNETS SUSTAINABILITY ADVISORS (OPC) PRIVATE LIMITED
35	AB3104238	U51507TN2006PTC060600	LISAN INSTRUMENTS PRIVATE LIMITED
36	AB3110009	U52320TN2023PTC158377	RELIBER APPAREL PRIVATE LIMITED
37	AB3111242	U72300TN1996PLC035299	ALLSEC TECHNOSOFT LIMITED
38	AB3113025	U74999TN2013PTC090924	RENER HEALTHCARE INDIA PRIVATE LIMITED
39	AB3113542	U72900TN2019PTC127760	DQAI TELESales PRIVATE LIMITED
40	AB3113884	U45201TN2005PTC055914	TARGET SHELTERS PRIVATE LIMITED
41	AB3114491	U74999TN2020PTC138579	JOBE INFOSOL PRIVATE LIMITED
42	AB3117685	U70102TN2009PTC071737	ROOKMAGAT PANDEY CONBUILD PRIVATE LIMITED
43	AB3119079	U70101TN2007PTC065621	AMU BUILDERS PRIVATE LIMITED
44	AB3119272	U71100TN2023OPC163065	DUADD ARCHITECTS (OPC) PRIVATE LIMITED
45	AB3121217	U62013TN2023PTC165402	MAGA TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
46	AB3124334	U45200TN2010PTC076286	SHS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
47	AB3125066	U74900TN2013PTC089761	MAXIMUS HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
48	AB3125492	U74904TN2023PTC162319	V3 PROTECTION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
49	AB3127891	U73100TN2019PTC133140	ANTPOD DESIGNS PRIVATE LIMITED
50	AB3130688	U29100TN2021PTC141659	DRONEGEARS PRIVATE LIMITED
51	AB3130775	U65929TN2022PLN151330	AIswaryAM GROWING NIDHI LIMITED
52	AB3134583	U72900TN2021PTC141202	MEGAM IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
53	AB3135101	U72200TN2007PTC063454	SPARKSOFT INFO SYSTEMS PRIVATE LIMITED
54	AB3135199	U62099TN2023PTC166425	EVOLIZE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
55	AB3135320	U70109TN2012PTC084587	NITHILAN HOMES & VENTURES PRIVATE LIMITED
56	AB3143432	U72900TN2012PTC088616	PRAG ITECH PRIVATE LIMITED
57	AB3152553	U67190TN1999PTC042628	S.M. FOREX & TRAVEL CENTRE PRIVATE LIMITED
58	AB3158461	U72200TN2023FTC158032	CYBINCK INDIA PRIVATE LIMITED
59	AB3177067	U74999TN2021PTC141422	ONARRIVE EDUCATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
60	AB3179998	U17111TN1996PLC034076	GUPTA SWABS LIMITED
61	AB3185247	U24110TN2021PTC142174	LEWIS LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
62	AB3185569	U45309TN2018PTC125454	ONEDO ESTATES PRIVATE LIMITED
63	AB3186297	U70100TN2018PTC126473	SRISHVAR VENTURES PRIVATE LIMITED
64	AB3189936	U72900TN2020PTC138123	I5 EDIFIE PRIVATE LIMITED
65	AB3196864	U64990TN2024PTC170559	ARAhLITE SECURITIES PRIVATE LIMITED

S No.	Work Item	CIN	Company Name
66	AB3202162	U74999TN2021PTC142836	SURYA AND SURYAH CORPORATE ADVISORS PRIVATE LIMITED
67	AB3216085	U72900TN2017PTC117154	APPSINSIGHT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
68	AB3222588	U64203TN2007PTC062783	SKYTONE INFOCOMM PRIVATE LIMITED
69	AB3223134	U62011TN2023PTC163410	NOVACIS INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
70	AB3228623	U74999TN2016PTC113592	GLR MEDIA PRIVATE LIMITED
71	AB3277437	U67190TN1997PTC050527	VISHARDA FINANCE PRIVATE LIMITED
72	AB3286874	U33100TN2014PTC094690	PRECISE MEDI-TECH PRIVATE LIMITED
73	AB3299655	U70109TN2022PTC151790	SESAK REALTORS PRIVATE LIMITED
74	AB3305404	U74999TN2020PTC134188	SENSE 9 MEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
75	AB3309803	U72200TN2019PTC133555	SULNIR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/578—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2868348	U74999TZ2018PTC030859	NESTARLIFE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
2	AB2968670	U74999TZ2012PTC018488	VONAMOR MEDIA PRIVATE LIMITED
3	AB2974486	U64200TZ2022PTC039148	POLLACHI DIGITAL PRIVATE LIMITED
4	AB3059881	U35107TZ2023PTC028399	MANIAM WIND ENERGY PRIVATE LIMITED
5	AB3068541	U72200TZ2022PTC040364	FINHAP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
6	AB3074784	U92419TZ2018PTC031271	URBAN PAVE SPORTS AND LEISURE PRIVATE LIMITED
7	AB3113303	U35105TZ2024PTC032597	AVRS SOLAR POWER PRIVATE LIMITED
8	AB3119755	U24100TZ2021PTC037230	TULIR PHARMA PRIVATE LIMITED
9	AB3127903	U24310TZ2024PTC031947	UNIVERSEL MOULD SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
10	AB3136395	U52609TZ2017PTC028544	NAMBIKKAI BROTHERS RETAIL PRIVATE LIMITED
11	AB3148784	U72900TZ2021PTC036277	APPSEK INFORMATION SECURITY PRIVATE LIMITED
12	AB3177624	U70100TZ2019PTC031671	COIMBATORE INTEGRATED TEXTILE PARK PRIVATE LIMITED
13	AB3219363	U15490TZ2021OPC035830	V & V AGRO FOODS (OPC) PRIVATE LIMITED
14	AB3272342	U65922TZ1988PLC002142	KTVR ENTERPRISES LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/579—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2820636	U72900TG2018PTC122391	ACAUSAL AUTOMATION PRIVATE LIMITED
2	AB2853253	U47110TS2023PTC177013	BUYFIT NUTRITION PRODUCTS PRIVATE LIMITED
3	AB2863208	U62013TS2023PTC174577	APPZENIX PRIVATE LIMITED
4	AB2870017	U72200TG2015OPC099738	WEB FOCUS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED (OPC)
5	AB2881765	U15129TG2016PTC109263	SRI SATHYALAKSHMI FOODS PRIVATE LIMITED
6	AB2905800	U49300TS2024PTC188220	SHRI INDRI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
7	AB2931062	U40200TG2023PTC170217	GREENKO RG1 SERVICES PRIVATE LIMITED
8	AB2943609	U80900TG2018PTC125373	ALTLOG SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
9	AB2944949	U92400TG2022PTC164384	INDIE BUNCH STUDIOS PRIVATE LIMITED
10	AB2947074	U40200TG2023PTC170427	GREENKO RG3 SERVICES PRIVATE LIMITED
11	AB2955598	U65993TG2022PTC163110	PARIHAR INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
12	AB2963690	U74999TG2006PLC051086	UBE TOOLS LIMITED
13	AB2965773	U72200TG2015PTC102288	CYBERNOOR INDIA PRIVATE LIMITED
14	AB2971681	U51909TG2023PTC170451	GREENKO RG4 SERVICES PRIVATE LIMITED
15	AB2983130	U45300TS2024PTC185857	S V AUTODOC AUTOMOTIVE SERVICES PRIVATE LIMITED
16	AB2984858	U74999TG2021PTC150276	EVIDENT BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
17	AB2987358	U72900TG2020PTC139203	ATZ GLOBAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
18	AB2994903	U73100TS2023PTC176872	INFIBUZZ BRANDING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
19	AB3001068	U63090TG2011PTC073948	ARKA AEROSAIL LOGISTICS PRIVATE LIMITED
20	AB3012322	U72200TG2008PTC061739	ORANGEONE INFORMATION SYSTEM PRIVATE LIMITED
21	AB3013842	U45101TG2006PLC051055	UBE PROJECTS LIMITED
22	AB3027341	U23209TG2021PTC155717	BALAJI BIONOL PRIVATE LIMITED
23	AB3035632	U45400TG2011PTC076035	SRI BASWA BUILDERS PRIVATE LIMITED
24	AB3038619	U72900TG2022PTC169415	SARATOGA SOFTWARE SYSTEMS PRIVATE LIMITED
25	AB3041791	U21000TG2021PTC155275	AVON PAPERS PRIVATE LIMITED
26	AB3044617	U51909TG2022PTC166440	VEDASARA INDUSTRY PRIVATE LIMITED
27	AB3059915	U72900TG2022PTC162659	SUPERSCALE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
28	AB3061768	U72900TG2014PTC093969	COSMIC KAYKA TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
29	AB3065086	U15129TG2022PTC165609	OXILIFE BEVARAGES PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
30	AB3072825	U65921TG1988PTC008673	RAJ KAMAL LEASING AND INVESTMENTS PVT LTD
31	AB3074583	U41001TS2023PTC175808	SIRIGAYATRI INFRA PRIVATE LIMITED
32	AB3075671	U85100TG2020PTC145265	SHANKARLAL AND SONS SERVICES PRIVATE LIMITED
33	AB3080198	U22100TG2022PTC169034	GULLYSports & DIGITAL MEDIA PRIVATE LIMITED
34	AB3080495	U74999TG2016PTC110753	EAGLE EYE COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
35	AB3085689	U72900TG2017PTC119851	HAPPYGIRAFFE TRADING PRIVATE LIMITED
36	AB3085963	U70109TG2019PTC137006	MEGA PROPERTY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
37	AB3088263	U72200TG2018PTC122769	BSMS INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
38	AB3092356	U62099TS2023PTC175802	DATATRENCH TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
39	AB3097871	U52609TG2017PTC115218	S.A.V.E. OPTICS PRIVATE LIMITED
40	AB3102779	U72200TG2008PTC058498	GREAT DATA SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
41	AB3104134	U40300TG2020PTC138373	SREE TECOONTS INDIA PRIVATE LIMITED
42	AB3105627	U40101TG2015PTC099906	LIGHTRAY ENERGY PRIVATE LIMITED
43	AB3112087	U29303TG2018PTC127169	INNOBUILD ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
44	AB3114299	U72900TG2020PTC141759	HASHFIN TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
45	AB3117110	U45201TG2022PTC161997	NARESH KUMAR ENGINEERING AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
46	AB3118216	U32111TS2023PTC173283	NAMANN GOLD PRIVATE LIMITED
47	AB3120529	U46596TS2024PTC186560	VIVIGEN BIOLABS PRIVATE LIMITED
48	AB3124345	U72900TG2022FTC163924	ANISRI SOFTWARE CONSULTANCY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
49	AB3125807	U18109TG2022PTC159170	FOR YOU TEXTILE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
50	AB3126125	U45201TG2020PTC146521	A1 QUALITY CONSTRUCTION & INTERIORS PRIVATE LIMITED
51	AB3126282	U62091TS2024PTC188861	STRIKER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
52	AB3126415	U72300TG2015PTC100984	VSCALE TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
53	AB3128242	U74999TG2017PTC115359	SUDDALA AUDIO VIDEO ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
54	AB3128310	U65992TG2000PTC035576	AJAYA CHITS PRIVATE LIMITED
55	AB3129006	U24230TG2020PTC141168	DYUTHI LABS PRIVATE LIMITED
56	AB3129066	U74999TG2016PTC113286	EASEASSIST INFORMATION SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
57	AB3133495	U74140TG2003PTC042103	MINMAN CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
58	AB3134642	U72200TG2020PTC146543	VSRMKP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
59	AB3137836	U24299TG2019PTC136404	SICOPA LAB PRIVATE LIMITED
60	AB3145980	U52110TG2011PTC072759	NATH AGRI TRADE PRIVATE LIMITED
61	AB3157504	U20299TS2023PTC178124	ULTRA BIO SCIENCES INDIA PRIVATE LIMITED
62	AB3162277	U15412TG2014PTC095227	SWETHA CONFECTIONERY PRIVATE LIMITED
63	AB3162385	U72200TG2016PTC112823	HITA INFORMATICS PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
64	AB3165174	U52100TG2011PTC072903	MADAN AGRO FOODS PRIVATE LIMITED
65	AB3167483	U52100TG2011PTC072813	DAYALU FOODS PRIVATE LIMITED
66	AB3167584	U72200TG2017PTC121141	IODATEN PRIVATE LIMITED
67	AB3181179	U62011TS2024OPC183544	PRECISIONTEST AUTOMATION (OPC) PRIVATE LIMITED
68	AB3198265	U52100TG2010PTC067701	MAYUR ASSOCIATES LIFESTYLE (INDIA) PRIVATE LIMITED
69	AB3204804	U72200TG2000PTC034403	GROWELL FINCAP PRIVATE LIMITED
70	AB3225203	U74999TG2021OPC154409	KS MANPOWER CONSULTANCY (OPC) PRIVATE LIMITED
71	AB3225467	U24304TG2020PTC141209	AGRATA LAB PRIVATE LIMITED
72	AB3227478	U72900TG2011PTC077935	APOLLO LEARNING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
73	AB3229170	U46497TS2023PTC180357	PROWAYS PHARMA INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
74	AB3250572	U72900TG2018PTC126257	ANENT INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED
75	AB3256959	U72200TG2018PTC129017	DODGEVILLE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
76	AB3261559	U41000TS2024PTC185009	D.S.R. HOSPITALITY AND INFRA PRIVATE LIMITED
77	AB3263240	U74999TG2020PTC141039	LEAPEDGE NETWORKS PRIVATE LIMITED
78	AB3266901	U72200TG2007PTC054307	ASTRALPRISE SOFTWARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
79	AB3270383	U29309TG2021PTC155480	FLUID SCIENCE DYNAMICS GAS SEALS INDIA PRIVATE LIMITED
80	AB3283323	U45201TG2019PTC131444	GRACS PROJECTS PRIVATE LIMITED
81	AB3285007	U31909TG2006PLC050993	UBE WELDPRODUCTS LIMITED
82	AB3296948	U18209TG2017PTC118818	PELLIKUTURU SILKS PRIVATE LIMITED
83	AB3297279	U62013TS2023OPC175600	FINSAI INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED
84	AB3312560	U55209TG2021PTC149587	AMITY FORKFUL PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Company

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/580—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Company have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2915308	U80902TR2021PTC013912	PREPEE EDTECH PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/581—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2820295	U36999UP2020PTC127230	TATSAT SACRED JEWELS PRIVATE LIMITED
2	AB2862888	U45400UP2012PTC052578	RJD INFRAVENTURES PRIVATE LIMITED
3	AB2865220	U65990UP2018PLC109909	IDLSHG INDIA NIDHI LIMITED
4	AB2913562	U47222UP2024PTC198907	VRINDADHAM ICY PRIVATE LIMITED
5	AB2919318	U60222UP2019PTC123074	MOBI LOGISTICS INDIA PRIVATE LIMITED
6	AB2924967	U52599UP2019OPC123066	GOCARE TECHNOLOGIES (OPC) PRIVATE LIMITED
7	AB2929172	U74999UP2021PTC142817	KOKOON BRAND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
8	AB2992687	U74999UP2021PTC156771	INSPECT ELEMENTS PRIVATE LIMITED
9	AB3002114	U51909UP2020PTC132536	RICHERA SERVICES & SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
10	AB3006281	U24303UP2021PTC155239	AZUREY BIOMOLECULES PRIVATE LIMITED
11	AB3012420	U74999UP2018PTC103936	EXELIGO COMMODITIES PRIVATE LIMITED
12	AB3024217	U67190UP2022PTC168231	NFT VOYAGE PRIVATE LIMITED
13	AB3034896	U36911UP1999PTC024166	PRACHI JEWELS PRIVATE LIMITED
14	AB3040905	U72900UP2022PTC176009	D-SPACES GLOBAL PRIVATE LIMITED
15	AB3065332	U74999UP2018PTC103162	ISB ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED
16	AB3068967	U51909UP2022PTC171289	ONWORLD GLOBAL BUSINESS PRIVATE LIMITED
17	AB3078521	U72501UP2019OPC119243	MASTERSOFT LEARNING (OPC) PRIVATE LIMITED
18	AB3086538	U70102UP2014PTC066101	L M INFRATECH PRIVATE LIMITED
19	AB3100382	U62013UP2024PTC200176	SANAERA WEBNARY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
20	AB3102373	U46610UP2023OPC194725	MOHAPATRA FUEL (OPC) PRIVATE LIMITED
21	AB3108667	U31900UP2019PTC124762	HIMVAYU INNOVATORS PRIVATE LIMITED
22	AB3110561	U43303UP2024PTC197113	BHUMISHA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
23	AB3113186	U30202UP2023PTC187325	NUOVOTECH DIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
24	AB3116505	U72300UP2013PTC058046	HUGOMINDS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
25	AB3117133	U82910UP2024PTC213930	DIVANSHI FINTECH PRIVATE LIMITED
26	AB3118158	U74991UP2007PTC032804	ANUSHEEL FILAMENTS PRIVATE LIMITED
27	AB3118713	U17299UP2019PTC123544	UPTOWN FASHIONS PRIVATE LIMITED
28	AB3119372	U72900UP2021PTC154803	CURIENCE TECH PRIVATE LIMITED
29	AB3121099	U52500UP2023OPC177111	F BZRR INDIA (OPC) PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
30	AB3121151	U52609UP2022PTC163276	TURUDO ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
31	AB3123718	U93000UP2018PTC110569	FETE N FIESTA PRIVATE LIMITED
32	AB3124386	U01110UP2022OPC166670	CORTINOVAS CHEMICAL AND FERTILIZERS (OPC) PRIVATE LIMITED
33	AB3124799	U72900UP2020OPC129234	PRIADH TECHNOLOGY (OPC) PRIVATE LIMITED
34	AB3125622	U62010UP2024PTC200645	DEEPMYND INNOVATIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
35	AB3127405	U74999UP2018PTC108723	GREATEXPECTATIONS BUSINESS PRIVATE LIMITED
36	AB3127688	U52300UP2021PTC143512	PUPWONDER PRIVATE LIMITED
37	AB3128140	U24233UP2015PTC075212	ACME SKYVENTURES PRIVATE LIMITED
38	AB3128646	U24232UP2004PTC028663	SRI GIRRAJ REMEDIES PRIVATE LIMITED
39	AB3128836	U74999UP2017PTC091447	SAP INFRACON PRIVATE LIMITED
40	AB3129724	U52601UP2022PTC160923	MAXIMIZE LIFE FOODS PRIVATE LIMITED
41	AB3129977	U19109UP2024PTC199753	AANCHALSHREE PRIVATE LIMITED
42	AB3130183	U36941UP2020PTC132662	COOFY TOYS PRIVATE LIMITED
43	AB3130504	U74999UP2019PTC115437	KAK RETAIL SERVICES PRIVATE LIMITED
44	AB3131828	U29270UP2022PTC174948	APPLIED TECHNOPRENEURS PRIVATE LIMITED
45	AB3133139	U18209UP2020PTC137847	SAMPOSHAN FASHIONS PRIVATE LIMITED
46	AB3134304	U70100UP2014PTC063362	SHREE VENKATESHWARSHAKTI INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
47	AB3135108	U24247UP1998PTC024001	VAISHNOLIGHT PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
48	AB3135275	U74994UP2019PTC114007	TECHXEST AUTOMATIONS PRIVATE LIMITED
49	AB3146085	U85499UP2023PTC194723	EDUPLUS INNOVATORS PRIVATE LIMITED
50	AB3159594	U52599UP2020PTC134544	BIG BOX HOME SOLUTION INDIA PRIVATE LIMITED
51	AB3165839	U56102UP2023PTC182396	CHAY CHAUPAL PRIVATE LIMITED
52	AB3171643	U72900UP2022PTC170905	APNITO TECH PRIVATE LIMITED
53	AB3173281	U72900UP2022PTC163858	ZEN MINDS INFOTECH PRIVATE LIMITED
54	AB3176367	U85300UP2021PTC146693	CLINIKER HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED
55	AB3177056	U33119UP2021PTC150959	HN & MD PRIVATE LIMITED
56	AB3209594	U74999UP2019PTC118175	BASU AGRIGENETICS PRIVATE LIMITED
57	AB3214538	U62099UP2023PTC186225	FRONTNET SECURITY CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED
58	AB3215778	U64203UP2020PTC128255	WIRENET BROADBAND SERVICES PRIVATE LIMITED
59	AB3217128	U70102UP2010PTC039962	V.R. INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
60	AB3226905	U47912UP2023PTC193739	HIGHVISION MULTISERVICES PRIVATE LIMITED
61	AB3234626	U33302UP2021PTC150998	HD & MN VENTURES PRIVATE LIMITED
62	AB3243121	U72900UP2017PTC092531	KAFAL SOFTWARE PRIVATE LIMITED
63	AB3247826	U93000UP2021PTC148237	ESSENCE SPACE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
64	AB3266797	U70102UP2012PTC051046	KRISHNA KANHA INFRABUILDS PRIVATE LIMITED
65	AB3272828	U72900UP2019PTC113771	ZENTRUM INTELLIGENCE TECH PRIVATE LIMITED
66	AB3279526	U72900UP2018PTC108096	EDNOLOGY PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/582—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2832817	U63090UR2018PTC009091	DHANKOT ADVENTURE PRIVATE LIMITED
2	AB2904862	U93000UR2014PTC001092	FOXPRO INDUSTRIAL GUARDS PRIVATE LIMITED
3	AB3113539	U55101UR2022PTC013795	BANDSTAND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
4	AB3203026	U51909UR2022PTC014433	SARVOTTAM INNOVATION PRIVATE LIMITED
5	AB3243722	U79110UT2023PTC015749	AVN BOOKETRIIP PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar

FORM No. STK-7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

In the matter of Companies Act, 2013 and of following Companies

Gurgaon-122050, the 27th May 2025

No. ROC-PACE/STK-2/248(5)/2025-26/583—This is with respect to this Office Notice Nos. and application (Form STK 2) vide SRNs as mentioned. Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of following Companies have been struck off on this day 27/05/2025 from the Register of the Companies and the said Companies are dissolved.

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
1	AB2791966	U17232WB1998PTC088212	JUTEIT PRIVATE LIMITED
2	AB2816876	U60200WB2009PTC138702	PARADISE LOGISTICS PRIVATE LIMITED
3	AB2820564	U51909WB1968PTC027389	UNITED CERAMICS PROCESSING PVT LTD
4	AB2848796	U74900WB2009PTC139811	R R CONCLAVE PRIVATE LIMITED
5	AB2865397	U15490WB2021PTC245132	PAKIRA FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
6	AB2874461	U52100WB2018PTC227448	DEEP LIQUOR PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
7	AB2893253	U51909WB1996PTC077297	LAHOTI CONSULTANCY PVT LTD
8	AB2894246	U74999WB2012PTC173840	TARASHAKTI OVERSEAS PRIVATE LIMITED
9	AB2943016	U62099WB2023PTC262509	TRYSHNA DIGITAL PRIVATE LIMITED
10	AB2947083	U36101WB1983PTC035660	SHILPI (INTERIORS) PVT LTD
11	AB2952336	U70200WB2023PTC261926	TARRAS CONSULTING PRIVATE LIMITED
12	AB2976658	U27205WB2022PTC258300	RITAJYA PRODUCTS PRIVATE LIMITED
13	AB2980409	U05000WB1993PTC058654	CPL MERCANTILES PVT. LTD.
14	AB2985653	U74999WB2020PTC235727	PACICART INDIA PRIVATE LIMITED
15	AB2994425	U74210WB1961PTC025341	DALMIYA ENGINEERS PVT LTD
16	AB3000870	U67190WB2012PTC186341	AFFINITY COMMODITY DERIVATIVES PRIVATE LIMITED
17	AB3007078	U55209WB2019PTC234167	AUROS HOTELS & RESORTS PRIVATE LIMITED
18	AB3010984	U67120WB1998PTC087489	ONLINE SHARE BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED
19	AB3011659	U68100WB2023PTC262726	RAUSHEENA ADVANCED PRIVATE LIMITED
20	AB3014359	U45201WB2000PTC092247	NATURES NEST DEVELOPER PRIVATE LIMITED
21	AB3038211	U29100WB2021PTC246743	SAFRM INDIA PRIVATE LIMITED
22	AB3049216	U18204WB2015PTC204870	SUHAAN CLOTH MERCHANT PRIVATE LIMITED
23	AB3059983	U74999WB2016PTC217445	SHAHIDOOON SOFTECH PRIVATE LIMITED
24	AB3070124	U72200WB2011PTC162810	TS WEB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
25	AB3070743	U13999WB2023PTC260307	LMV INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
26	AB3073564	U51109WB2006PTC108043	BHAVSAGAR SALES PVT LTD
27	AB3084160	U70109WB2011PTC167856	CAIRNHILL INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
28	AB3090898	U46909WB1996PTC076764	AARYA MINERALS PRIVATE LIMITED
29	AB3092236	U74999WB2020PTC241805	SAWRAZZ MANAGEMENT AND SERVICES PRIVATE LIMITED
30	AB3095186	U13119WB2023PTC262848	FABFORT INDUSTRY PRIVATE LIMITED
31	AB3100214	U51109WB2006PTC108037	JAGRAN MARKETING PVT LTD
32	AB3102037	U80300WB2017PTC223588	NIHARIKA EDUCATIONS PRIVATE LIMITED
33	AB3106410	U55209WB2018PTC228868	NRP FOOD TECH PRIVATE LIMITED
34	AB3107221	U51109WB2006PTC108038	PROGRESSIVE VYAPAR PVT LTD
35	AB3111072	U74900WB2009PTC139799	R R MERCHANDISE PRIVATE LIMITED
36	AB3112466	U46909WB2024PTC267911	EXPORTYFLEX VENTURES PRIVATE LIMITED
37	AB3114310	U67110WB2022PTC251642	SRIRAMAN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
38	AB3116151	U15549WB2020PTC235903	AIDEN FOOD AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
39	AB3123226	U51909WB2008PTC130963	SILVERSAND DEALERS PRIVATE LIMITED
40	AB3123868	U45309WB2022PTC256349	SPACE MATRIX DEVELOPER AND CONTRACTOR PRIVATE LIMITED
41	AB3123910	U68200WB2024PTC268641	ADI-MAHEK REALTORS PRIVATE LIMITED
42	AB3124004	U63090WB2003PTC096225	JINENDRA MOVERS PRIVATE LIMITED
43	AB3124028	U74999WB2011PTC163328	SAMBHUNATH COMPUTECH MARKETING PRIVATE LIMITED

S. No.	Work Item	CIN	Company Name
44	AB3124086	U24231WB1958PTC024040	TIBSON PHARMACEUTICALS PVT LTD
45	AB3125851	U25200WB2022PTC252904	GRS POLYFIBRES PRIVATE LIMITED
46	AB3126095	U26900WB2010PTC154457	SHREE SATYANAND COAL WASHRIES PRIVATE LIMITED
47	AB3127257	U01110WB2018PTC224663	ENVERT AGRO AND FOOD PRIVATE LIMITED
48	AB3131448	U74999WB2011PTC163320	LAND MARK MARCOM PRIVATE LIMITED
49	AB3131683	U45400WB2010PTC147589	BHANSALI INFRACON PRIVATE LIMITED
50	AB3134858	U24296WB2019PTC234183	ACTIISOUL THERAPEUTICS PRIVATE LIMITED
51	AB3134921	U74900WB2015PTC206850	RMM APP PRIVATE LIMITED
52	AB3135326	U80309WB2022PTC256551	VIDYAJYOTI ACADEMY PRIVATE LIMITED
53	AB3138562	U72900WB2018PTC225220	STRATDESK CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
54	AB3141220	U70200WB2001PTC093927	VISHNUSHIVA INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
55	AB3158305	U27200WB2022PTC259172	RAGHUNATHJI METALS PRIVATE LIMITED
56	AB3166830	U55101WB1987PTC043090	CLUSTER HOTEL PVT LTD
57	AB3176710	U47219WB2024PTC268321	ASIAN CATERERS AND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
58	AB3179520	U74999WB2017PTC220703	TOOTLE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
59	AB3181365	U85100WB2022PTC252568	KATWACARE MEDICAL SCIENCES PRIVATE LIMITED
60	AB3181375	U10740WB2023PTC263605	LE MOTA CHEF FOODS PRIVATE LIMITED
61	AB3181457	U51909WB2018PTC225799	SANTIYA OVERSEAS PRIVATE LIMITED
62	AB3181703	U22219WB2003PTC097105	AKASH PRINT N PACK PRIVATE LIMITED
63	AB3187946	U17120WB2008PTC124468	VIJAY SAREE HOUSE PRIVATE LIMITED
64	AB3234502	U70109WB2022PTC253131	SATAYAKALA REALTY PRIVATE LIMITED
65	AB3268230	U21099WB1959PTC024169	EAST COAST PAPER&PRODUCTS PVT LTD
66	AB3284001	U51311WB1991PTC051832	LYTON CONSULTANCY PVT LTD
67	AB3304706	U17299WB2019PTC234262	QUEENLEY FASHIONS PRIVATE LIMITED

RAUNAK AGRAWAL
Assistant Registrar
C-PACE, Manesar